

श्रीराम

जय भारत

श्रीमैथिलीशरण गुप्त

साहित्य-सदन,
चिरगाँव (भाँसी)

प्रथम संस्करण]

२००९ वि०

[मूल्य ७)

श्रीराम

निवेदन

अर्द्ध शताब्दि होने आई, जब मैंने 'जयद्रथ-वध' का लिखना प्रारम्भ किया था। उसके पश्चात् भी बहुत दिनों तक महाभारत के भिन्न भिन्न प्रसंगों पर मैंने अनेक रचनाएँ की। उन्हें लेकर कौरव-पाण्डवों की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परन्तु उस प्रयास के पूरे होने में सन्देह रहने से वैसा उत्साह न होता था।

अब से ग्यारह-बारह वर्ष पहले पर-शासन के विद्वेष्टा के रूप में जब मुझे राजवन्दी बनना पड़ा, तब कारागार में ही सहसा वह विचार संकल्प में परिणत हो गया और मैं यह साहस कर बैठा। परन्तु वहीं 'अजित' और 'कुणाल-गीत' लिखने का काम भी हाथ में ले लेने से इस पर पूरा समय न लगा सका। आगे भी अनेक कारणों से क्रम का निर्वाह न कर सका।

एक अतर्कित बाधा और आ गई। अपनी जिन पूर्व-कृतियों के सहारे यह काम सुविधा पूर्वक कर लेने की मुझे आशा थी, वह भी पूरी न हुई। 'जयद्रथ-वध' से तो मैं कुछ भी न ले सका। युद्ध का प्रकरण मैंने और ही प्रकार से लिखा। अन्य रचनाओं में भी मुझे बहुत हेर-फेर करने पड़े। कुछ तो नये सिरे से पूरी की पूरी फिर लिखनी पड़ीं। तथापि इससे अन्त में मुझे सन्तोष ही हुआ और इसे मैंने अपनी लेखनी का क्रम-विकास ही समझा।

जिन्हें अपने लेखों में कभी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, उनके मानसिक विकास की पहले ही इतिश्री हो चुकी होती है। अन्यथा एक अवस्था तक मनुष्य की बुद्धि पोषण प्राप्त करती ही है, नये नये अनुभव और विचार आगे आते रहते हैं और अपनी सीमाओं में अनुशीलन भी वृद्धि पाता है। द्रष्टाओं की

दूसरी बात है। परन्तु मेरे ऐसे साधारण जन के लिए यह स्वाभाविक ही है। कुछ दिन पूर्व गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक पाण्डुलिपि के कुछ पृष्ठों के प्रतिविम्ब प्रकाशित हुए थे। उनमें अनेक स्थलों पर काट-कूट दिखाई देती थी। यह अलग बात है कि उनकी काट-कूट में भी चित्रणकला फूट उठती थी।

किसी समय हमारे मन में कोई भाव ऐसे सूक्ष्म रूप में आता है कि उसे हम ठीक ठीक पकड़ नहीं पाते। आगे स्पष्ट हो जाने की आशा से उसे जैसे तैसे ग्रहण कर लेना पड़ता है। कभी किसी भाव को प्रकट करने के लिए उसी समय उपयुक्त शब्द नहीं उठते। आप-बीती ही कहूँ। कुणाल का एक गीत मैं लिख रहा था। उसकी टेक यों बनी—

नीर नीचे से निकलता—देख लो यह रहँट चलता।
लिखने के अनन्तर भी जैसे लिखना पूरा नहीं लगा। सोचना भी नहीं रुका। तब इस प्रकार परिवर्तन हुआ—

तोय तल से ही निकलता।

‘नीचे से’ के स्थान पर ‘तल से’ ठीक हुआ जान पड़ा, तथापि चिन्तन शान्त नहीं हुआ! अन्त में—

तत्त्व तल से ही निकलता।

बन जाने पर ही सन्तोष हुआ। अस्तु।

अपने पात्रों का आलेखन मैं कैसा कर सका, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। वह पाठकों के सम्मुख है। उसके विषय में स्वयं पाठक जो कुछ कहेंगे, उसे सुनने के लिए मैं अवश्य प्रस्तुत रहूँगा। इस समय तो उनकी सेवा में यही निवेदन है कि वे कृपा कर मेरा अभिवादन स्वीकार करें—जय भारत!

चिरगाँव

मैथिलीशरण

रथयात्रा, २००९

सूची

१—नहुष	२
२—यदु और पुरु	१५
३—योजनगंधा	२१
४—कौरव-पाण्डव	२७
५—बन्धु-विद्वेष	३४
६—द्रोणाचार्य	३८
७—एकलव्य	४३
८—परीक्षा	४९
९—याज्ञसेनी	५६
१०—लाक्षागृह	५९
११—हिडिम्बा	६३
१२—वक-संहार	७६
१३—लक्ष-वेध	९४
१४—इन्द्रप्रस्थ	११३
१५—वनवास	१२१
१६—राजसूय	१२९
१७—द्यूत	१३५
१८—वन-गमन	१४३
१९—अस्त्र-लाभ	१४८
२०—तीथयात्रा	१५५

२१—द्रौपदी आर सत्यभामा	१७३
२२—वन-वैभव	१८२
२३—दुर्योधन का दुःख	२०४
२४—वनमृगी	२१०
२५—जयद्रथ	२१३
२६—अतिथि और आतिथेय	२१८
२७—यक्ष	२२२
२८—अज्ञातवास	२२८
२९—सैरन्ध्री	२३३
३०—वृहन्नला	२६८
३१—उद्योग	२७४
३२—विदुर-वार्त्ता	२८३
३३—रण-निमन्त्रण	२८७
३४—अनाहूत	२९२
३५—मद्रराज	२९६
३६—केशों की कथा	३००
३७—शान्ति-सन्देश	३०९
३८—कुन्ती और कर्ण	३३०
३९—युयुत्सु	३३५
४०—समर-सज्जा	३४२
४१—अर्जुन का मोह	३४८
४२—युद्ध	३६२
४३—हत्या	४०३
४४—विलाप	४०९
४५—कुरुक्षेत्र	४१४
४६—अन्त	४१९
४७—स्वर्गारोहण	४२६

जय भारत

‘जीवन-यशस्-सम्मान-धन-सन्तान सुख सब धर्म के ;
मुझको परन्तु ज्ञातांश भी लगते नहीं निज धर्म के ।’

—युधिष्ठिर

श्रीगणेशाय नमः

जय भारत

मनुज-मानस में तरंगित बहु विचारस्रोत ,
एक आश्रय, राम के पुण्याचरण का पोत ।

नमो नारायण, नमो नर,—प्रवर पौरुष-केतु ,
नमो भारति देवि, वन्दे व्यास, जय के हेतु !

न हृष

“नारायण ! नारायण ! साधु नर - साधना ,
इन्द्र - पद ने भी की उसीकी शुभाराधना !”
गूँज उठी नारद की वीणा स्वर-आम में ,
पहुँचे बिचरते वे वैजयन्त धाम में ।

आप इन्द्र को भी त्याग करके स्वपद का ,
प्रायश्चित्त करना पड़ा था वृत्र-वध का ।
पृथ्वीपुत्र ने ही तब भार लिया स्वर्ग का ,
त्राता हुआ नहुष नरेन्द्र सुर - वर्ग का ।
था सब प्रबन्ध यथापूर्व भी वहाँ नया ,
ढीला पड़ा तन्त्र फिर तान-सा दिया गया ।
अभ्युत्थान देके नये इन्द्र ने उन्हें लिया ,
मुनि से विनम्र व्यवहार उसने किया ।

“आज का प्रभात सुप्रभात, आप आये हैं,
 दीजिए, जो आज्ञा स्वयं मेरे लिए लाये है।”
 “दुर्लभ नरेन्द्र, तुम्हें आज क्या पदार्थ है ?
 दूँगा मैं बधाई अहा कैसा पुरुषार्थ है !”
 “सीमा क्या यही है पुरुषार्थ की पुरुष के ?”
 मुद्रा हुई उत्सुक-सी सुख की नहुष के।
 मुनि मुसकाये और बोले—“यह प्रश्न धन्य !
 कौन पुरुषार्थ भला इससे अधिक धन्य ?
 शेष अब कौन-सा सुफल तुम्हें पाने को ?”
 “फल से क्या, उत्सुक मैं कुछ कर जाने को।”
 “वीर, करने को यहाँ स्वर्ग-सुख-भोग ही,
 जिसमें न तो है जरा-जीर्णता, न रोग ही।
 ऐसा रस पृथ्वी पर—” “मैंने नहीं पाया है,
 यद्यपि क्या अन्त अभी उसका भी आया है।
 मान्य मुने, अन्त में हमारी गति तो वहीं,
 और मुझे गर्व ही है, लज्जा इसमें नहीं।
 ऊँचे रहे स्वर्ग, नीचे भूमि को क्या टोटा है ?
 मस्तक से हृदय कभी क्या कुछ छोटा है ?
 व्योम रचा जिसने, उसीने वसुधा रची,
 किस कृति - हेतु नहीं उसकी कला बची ?
 जीव मात्र को ही निज जन्मस्थान प्यारा है।”
 “किन्तु भूलते हो, स्वर्गलोक भी तुम्हारा है।
 करके कठोर तप, छोरे नहीं जिसका,
 देना पड़ता है फिर देह-मूल्य इसका।

जय भारत

कहते हैं, स्वर्ग नहीं मिलता विना मरे ,
पाया इसी देह से है तुमने इसे धरे !”
नम्र हुआ नहुष सलज्ज सुसकान में ,—
“त्रुटि तो नहीं थी यही मेरे मूल्य-दान में ?”
“पूर्णाता भी चाहती है ऐसी त्रुटि चुनके !”
“मैं अनुग्रहीत हुआ आज यह सुनके ।
देव, यहाँ सारे काम-काज देखता हूँ मैं ,
निज को अकेला-सा परन्तु लेखता हूँ मैं ।
चोट लगती है, यह सोचता हूँ मैं जहाँ ,—
छूत तो किसीको नहीं इस तनु से यहाँ ?
यद्यपि कुभाव नहीं कोई भी जनाता है ,
तो भी स्वाभिमान मुझे विद्रोही बनाता है ।”
“आह ! मनोदुर्बलता, वीर, यह त्याज्य है ,
आप निर्जरी ने तुम्हें सौपा निज राज्य है ।
दानवों से रक्षा कर भोगो इस गेह को ,
मानो देव-मन्दिर ही निज नर-देह को ।”
“आपकी कृपा से मिटी रत्नानि मेरे मन की ,
प्रकट कृतज्ञता हो कैसे इस जन की ?”
बोले हँस नारद प्रसन्न कल वर्यों से—
“ज्ञाता है अधिक मेरा मन ही स्वकर्णों से !”

× × × ×

दिव्य बाग पाके भव्य याग तथा त्याग से ,
रंजक भी राजा अब रंजित था राग से !

ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था ,
 नर के लिए भी यह चरम सुयोग था ।
 सेवन से और और बढ़ते विषय हैं ,
 अर्थ जितने हैं सब काम में ही लय हैं ।
 एक वार पीकर प्रमत्त जो हुआ जहाँ ,
 सुध फिर अपनी-परायी उसको कहाँ ?
 देव-नृत्य देख, देव - गीत - वाद्य सुनके ,
 नन्दन विपिन के अनोखे फूल चुनके ,
 इच्छा रह जाती किस अन्य फल की उसे ?
 चिन्ता न थी आज किसी अन्य कल की उसे !
 प्रस्तुत समस्त उसे स्वप्न की-सी बातें थीं ,
 सोकर क्या खोने के लिए वे रम्य रातें थीं ?
 प्रातःकाल होता था विहार देव-नद में ,
 किंवा चन्द्रकान्त मणियों के हृद्य हृद में ।
 नेत्र ही भरे थे नरदेव के न मद से ,
 होती थी प्रकट एक भूम पद पद से ।
 ऊपर से नीचे तक मत्तता न थी कहाँ ,
 ऐरावत से भी दर्शनीय वह था वहाँ ।
 अधमुँदी आँखें अहा ! खुल गईं अन्त में ,—
 पाकर शची की एक फलक अनन्त में ।
 पति की प्रतीक्षा में, निरत व्रतस्नेह में ,
 काट रही थी जो काल सुरगुरु-गेह में ।
 आया था विहारी नृप राज-हंस - तरि से ,
 वह निकली ही थी नहाके सुरसरि से ।

जय भारत

निकली नई-सी वह वारि से वसुन्धरा ,
वर तो वही है बड़ा जिसने उसे वरा ।
एक घटना-सी घटी सुषुमा की सृष्टि में ,
अद्भुत यथार्थता थी कल्पना की सृष्टि में ।
पूछना पड़ा न उसे परिचय उसका ,
कर उठी अप्सराएँ जय जय उसका ।
“ओहो यह इन्द्राणी !”—उससँ भर बोला वह ,
बैठा रहके भी आज आसन से डोला वह ।
मन था निवृत्त हुआ अप्सरा-विहार से ,
उसने निभाया उसे मात्र शिष्टाचार से ।
“यह दिपी, वह छिपी दामनी-सी क्षण में ,
जागी इसी बीच नई कान्ति कण कण में ।
मेरी साधना की गति आगे नहीं जा सकी ,
सिद्धि की झलक एक दूर से ही पा सकी ।
विस्मय है, किन्तु यहाँ भूला रहा कैसा मैं ,
इन्द्राणी उसीकी इन्द्र है जो, आज जैसा मैं ।
वह तो रहेगी वही, इन्द्र जो हो सो सही ,
होगी हँ कुमारी फिर फिर युवती वही ।
तो क्यों मुझे देख वह सहसा चली गई ,
आह ! मैं छला गया हूँ वा वही छली गई ?
एक यही फूल है जो हो सके पुनः कली ,
इतने दिनों तक क्यों मैंने सुधि भी न ली ।
इन्द्र होके भी मैं गृहअष्ट-सा यहाँ रहा ,
लाख अप्सराएँ रहें, इन्द्राणी कहाँ अहा !

उलती तरंगों पर भूलती-सी निकली ,
 दो दो करी-कुम्भी यहाँ हूलती-सी निकली !
 क्या शकत्व मेरा, जो मिली न शची भामिनी ,
 बाहर की मेरी सखी भीतर की स्वामिनी ।
 आह ! कैसी तेजस्विनी आभिजात्य-अमला ,
 निकली सुनीर से यों क्षीर से ज्यों कमला ।
 एक और पत्त-सा त्वचा का आर्द्र पट था ,
 फूट-फट रूप दूने वेग से प्रकट था ।
 तो भी ढके अंग घने दीर्घ कच-भार से ,
 सूक्ष्म थी झलक किन्तु तीक्ष्ण असि-धार से ।
 दिव्य गति लाघव सुरांगनाओं ने धरा ,
 स्वर्ग में सुगौरव तो वासवी ने ही भरा ।
 देह धुली उसकी वा गंगाजल ही धुला ,
 चाँदी धुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ धुला ।
 मुक्ता तुल्य बूँदें टपकी जो बड़े बालों से ,
 चू रहा था विष वा अमृत वह व्यालों से ।
 आ रही हैं लहरें अभी तक मुझे यहाँ ,
 जल - थल - वायु तीनों पाने-छुक थे वहाँ ।
 बाह्य ही जहाँ का बना जैसे एक सपना ,
 देखता मैं कैसे वहाँ अन्तःपुर अपना ।
 सबसे खिचा-सा रहा उद्धत प्रथम मैं ,
 फिर जिस ओर गया हाय ! गया रम मैं ।
 वस्तुतः शची के लिए बात थी विषाद की ,
 मागूँगा क्षमा मैं आज अपने प्रमाद की ।

जय भारत

जँचा यह भाल स्वर्ग - भार धरे जावेगा ,
उसके समक्ष मुक गौरव ही पावेगा ।”

दूती भेज उसने शची से कहलाया यों—
“वैजयन्त धाम देवराज्ञी ने भुलाया क्यों ?
दूना-सा अकेले मुझे शासन का भार है ,
आधा कर दे जो उसे ऐसा सहचार है ।
सह नहीं सकता विलम्ब और अब मैं ,
आज्ञा मिले, आज्ञे स्वयं लेने कहाँ, कब मैं ?”
उत्तर मिला—“तुम्हें बसाया वैजयन्त में ,
चाहते हो मेरा धर्म भी क्या तुम अर्त में ?
जैसे धनी-मानी गृही जाय तीर्थ-कृत्य को ,
और घर-वार सौंप जाय भले मृत्यु को ,
सौंपा अपने को यह राज्य वैसे जानो तुम ,
याती इसे मानो, निज धर्म पहचानो तुम ।
त्यागो शची-संग रहने की पाप-वासना ,
हर ले नरत्व भी न कामदेवोपासना ।”
जा सुनाया दूती ने सुरेश्वरी ने जो कहा ,
मुनके नहुष आप आपे में नहीं रहा ।
“अच्छा ! इन्द्रपद का नहीं हूँ अधिकारी मैं ?
सेवक - समान देव - शासनानुचारी मैं ?
स्वर्ग-राज्य तो क्या, अपवर्ग भी है एक पण्य ,
मूल्य गिन दे जो धनी, ले ले वह आप गण्य ।

असुर पुलोम-पुत्री इन्द्राणी बने जहाँ ,
 नर भी क्यों इन्द्र नहीं बन सकता वहाँ ?
 कौन कहता है, नहीं आज सुर - नेता मैं ?
 पाकशासनासन का मृत्युदाता, क्रेता मैं ।
 सायह सुरों ने मुझे सौंपी स्वयं शकता ,
 कैसी फिर आज यह वासवी की वकता ?
 अस्तुत मैं मान रखने को एक तृण का ,
 और मैं ऋणी हूँ परमाणु के भी ऋण का ।
 अपना अनादर परन्तु यदि मैं सहूँ ,
 तो फिर पुरुष हूँ मैं, किस मुहँ से कहूँ ?”

भूला हठ-बाल पाके मन्मथ का पालना ,
 पाने से कठिन किसी पद का सँभालना ।
 देव-कुल-गुरु को प्रणाम कर दूत ने
 सँदेसा सुनाया, जो कहा था पुरहूत ने ।
 “आपकी कृपा से देव-कार्य विघ्न-हीन है ,
 जाकर रसातल में दैत्य - दल दीन है ।
 बाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठीक है ,
 घर की अवस्था किन्तु शून्य है, अलीक है ।
 फिर भी शची थीं इस बीच आपके यहाँ ,
 और मायके-सा मोद पा रही थीं वे वहाँ ।
 आज्ञा मिले, आजँ उन्हें लेने स्वयं प्रीति से ,
 आप जो बतावें उसी राजोचित रीति से ।”

“सुन लिया मैंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा ,
 कहना, विलम्ब व्यर्थ होने नहीं पायगा।”
 कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया ,
 और मन्त्रार्थ मुख्य देवों को बुला लिया ।
 बैठे यथास्थान सब सभ्य उन्हें नत हो ,
 बोले गुरु—“सुगत सुचिन्तित सुमत हो !
 ईश्वर का जीव से है मानो यही कहना—
 ‘तू निश्चिन्त होके कभी बैठ नहीं रहना।’
 नर अधिकारी आज देवराज - पद का ,
 किवा वह लक्ष हृष्ठा हाय ! सुर - मद का ।
 सम्प्रति शची में हठी नहुष निरत है ,
 सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है।”
 माँग जो नहुष की थी, सबने सुनी, गुनी ,
 किन्तु कहाँ हो सके हैं एक मत दो सुनी ?
 एक ने उचित मानी, अनुचित अन्य ने ,
 तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने ?
 तर्क स्वयं भटका है खोजने जा तत्व को ,
 फिर भी न माने कौन उसके महत्व को ?
 शंका-बधू जेठी, वर हेठा समाधान है !
 बोले श्रीद—“मत तो शची का ही प्रधान है।”
 “मेरा मत ?” मानघना बोली—“पूछते हो आज ?
 पूछ लूँ क्या मैं भी, क्यों बनाया उसे देवराज ?
 कोई न था तुममें जो भार धरे तब लों ,
 स्वामी कहीं प्रायश्चित्त पूरा करें जब लों ?”

“हाय महादेवि !” बोले व्यथित वरुण यों—
 “अपने ही ऊपर क्यों आप अकरुण यों ?
 मारा जिस वज्र ने है वृत्र को अभी अभी ,
 होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी ,
 व्यर्थ वह भी है यहाँ, अक्षत है धर्म तो ,
 काटा नहीं जा सकता वज्र से भी कर्म तो !
 कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न पायगा ,
 ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्यों उठायगा ?
 कर्म ही किसीके उसे योग्य फलदायी हैं ,
 देव पक्षपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी है ।
 योग्य अनुगत को बढ़ाते क्यों न आगे हम ?
 दान-मान देने में कृती को कहाँ भागे हम ?
 वस्तुस्थिति जो है, वह आपके समक्ष है ,
 और कुछ भी हो, उसका भी एक पक्ष है ।
 आपके लिए भी विधि है, यदि उसे वरें ,
 सोचें परिणाम फिर आप कुछ भी करें ।”
 “मैं तो मनःपूत को ही मानती हूँ आचरण ;
 ऐच्छिक विषय मेरा व्यक्ति-वरणावरण ।
 सत्ता हों समाज की है, वह जो करे, करे ,
 एक अवला का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे !
 किंवा यह सारी कृपा ऋषि-मुनियों की है ,
 गरिमा गभीर गूढ़ उन गुणियों की है ।
 मारने की आततायी ब्रह्मदैत्य यति को ,
 हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को ।

जय भारत

धिक, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में,
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में !
हमने किया सो आत्म-रक्षा के लिए किया,
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया ?
आहुतियाँ देके इस नहुष अभाग को,
दूध ऋषियों ने ही पिलाया कालनाग को !
अच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका,
लावें उस नर को बनाके वर दिवि का ।”
“अलमिति” बोल उठे वाचस्पति—“हो गया,
यान हो शची के नये वर का यही नया !”

विस्मित-सा सम्मत नहुष हुष्मा ऐसे भी,
पाना जो उसे था मिले क्यों न वह कैसे भी ।
बोले ऋषि—“भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार,
सह्य निज राजा की अनीति भी है एक वार ।”
मत्त-सा नहुष चला बैठ ऋषि - यान में,
व्याकुल - से देव चले साथ में विमान में ।
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की,
आरोही अधीर हुष्मा प्रेरणा से मार की !
“बस क्या यही है, बस बैठ विधियाँ गढ़ो,
अश्व-से अड़ो न अरे, कुछ तो बढ़ो, बढ़ो !”
वार वार कन्धे फेरने को ऋषि अटके,
आतुर हो राजा ने सरोष पैर पटके ।

क्षिप्त पद हाय ! एक ऋषि को जो जा लगा ,
 सातों ऋषियों में महा रोषानल आ जगा ।
 “भार वहै, बातें सुनें, लाते भी सहे क्या हम ,
 तू ही कह क्रूर, मौन अब भी रहे क्या हम ?
 पैर था वा साँप यह, डस गया संग ही ,
 पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही !”
 चौक पड़ा राजा, मुख-मुद्रा हुई विकला ,
 “हा ! यह हुआ क्या ?” यही व्यग्र वाक्य निकला ।
 शून्य पट-चित्र हुआ घुलता-सा वृष्टि से ,
 देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से ।
 दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा ,
 हो उठा प्रदीप्त वह बुभुता प्रदीप-सा ।
 “संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्या ?
 दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या ?”
 सँभला अदम्य मानी खींचकर ढीले अंग ,
 “कुछ नहीं, स्वप्न था सो हो गया भला ही अंग ।
 कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है ,
 शान्त हों महर्षि, मुझे शाप अंगीकार्य है ।
 मानता हूँ भूल हुई, खेद मुझे इसका ,
 साँपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका ।
 स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ;
 और जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में ।
 काल गति-शील मुझे लेके नहीं बैठेगा ,
 किन्तु उस जीवन में विष घुस पड़ेगा ।

जय भारत

तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठायेंगे ,
विष में भी अमृत छिपा वे कृती पायेंगे ।
मानता हूँ, भूल गया नारद का कहना—
'दैत्यों से बचाये निज देवधाम रहना ।'
आ घुसा असुर हाथ ! मेरे ही हृदय में ,
मानता हूँ, आप लज्जा पाप अविनय में ।
मानता हूँ और सब, हार नहीं मानता ,
अपनी अगति आज भी मैं नहीं जानता ।
आज मेरा भुक्तोष्णित हो गया है स्वर्ग भी ,
लेके दिखा दूँगा कल मैं ही अपवर्ग भी ।
गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ?
मैं ही तो उठा था, आप गिरता हूँ जो अभी ।
फिर भी उठूँगा और बढ़के रहूँगा मैं ,
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, चढ़के रहूँगा मैं ।”

यदु और पुरु

नित नया है देव-दानव-समर घोर-कठोर ,
अमरता इस ओर तो संजीवनी उस ओर !
रह सका है कौन कब अपने अहं को भूल ,
जाय कोई पुरुष कैसे प्रकृति के प्रतिकूल ?

गुरु बृहस्पति-शुक्र रक्खें लाख पक्ष-विभेद
किन्तु उनके सुत-सुता भी मिल न पाये, खेद !
तज गया कच शील रख संजीवनी का लोभ ,
देवयानी का प्रणय ही बन गया विक्रोभ ।
आप शर्मिष्ठा दनुज-कुल-राज-कन्या-रत्न ,
गुरु-सुता को साधने में हो गई हतयत्न ।
दे सकी उसको न तो क्रीड़ा-कला ही मोद ,
ले सकी कुछ वह न तो आख्यान-वस्तु-विनोद ।

जय भारत

विजन-विकला आलियों को क्यों न लेती साथ ,
थिर न था मन, वह भ्रमण में क्यों न देती साथ ?
भस्म-लुण्ठित मलिन चाहे था पटों का राग ,
पर नदी-जल भी बुझा पाया न उसकी आग !
नृप-सुता जल से निकल उसका वही पट धार
छोड़ उसके अर्थ निज ज्यों ही जनावे प्यार ;
बिगड़ कर उसने कहा—“क्या खा गई हो भाँग ?
कर रहा यह कुपट-परिवर्तन कहाँ का स्वाँग ?
हँस कहा इसने—“बहन, दो बन्धु पलटें पाग ,
पट पलट तो क्यों न हम भी हड़ करें अनुराग ?”
“आह ! यह साहस तुम्हारा, साम्य मेरे संग ?”
हो गई थी क्रोध से उसकी भृकुटियाँ भंग ।
शान्त फिर भी यह रही रखती हुई रस रम्य—
“साम्य ही तो काम्य है सखि, विष भरा वैषम्य ।”
“सीख रहने दो, नहीं है यह तुम्हारा काम ,
पीड़ियों तुमको पढ़ा सकता अभी गुरुधाम ।”
• “उस पढ़ाई की प्रकट हो यदि तुम्हीं प्रतिमूर्ति ,
तो नहीं उसके लिए मुझमें तनिक भी स्फूर्ति ।
प्राप्त है गौरव तुम्हें तो है मुझे भी मान ।”
“वह न लोटे इन पदों में तो मुझे है आन ।
दंड अपनी धृष्टता का तुम सहोगी आप ।”
“दंड पर अधिकार मेरा, दो भले तुम शाप ।”
बढ़ गई यों बात आगे घात में प्रतिघात ,
अन्त में उसका हुआ वन-गर्त में विनिपात ।

छोड़ कर उसको वहीं यह लौट आई आप ,
 आर्द्र पट उसके सुखाता रह गया उत्ताप ।
 “निकल तो पाऊँ यहाँ से तब न लूँ प्रतिशोध ,
 मन, प्रतीक्षा कर ठहर टुक धैर्य धर निर्बोध !”
 आगये सहसा वहाँ आखेट शील ययाति ,
 व्याप्त थी सर्वत्र जिनके राजकुल की ख्याति ।
 देख उसको—“कौन तुम ?” कह रह गये वे मौन ,
 प्रश्न ही उसने किया—“पहले सुनूँ तुम कौन ?”
 “नहुष-पुत्र ययाति हूँ मैं, अब कहो भय छोड़ ।”
 “नहुष ?” रुक कर तनिक वह बोली मसृण तृण तोड़—
 “स्वर्ग के शासक हुए जो भूमि पर घृति-धाम ?”
 “पुण्यभूमि कहो, हमारी भूमि का जो नाम ।”
 “पुण्यभूमि यथार्थ, जिसके पुरुष ऐसे धन्य ,
 ठीक है, मेरे लिए तब तुम नहीं हो धन्य ।
 मैं करूँ ऊँचा सुकृति, नीचा करो तुम हाथ ,
 खींच लो ऊपर मुझे करके कृतार्थ सनाथ ।”
 वाक्य पूरा कर अचानक हो गया मुहँ लाल ,
 कर उठा, फिर भी झुका तत्काल उसका भाल ।
 “पाणि-पीड़न के लिए सुकमारि, मैं हूँ क्षम्य ,
 दीखती मुझको नहीं इसके विना गति गम्य ।”
 भूप ने हँस कह यही उसका किया उद्धार ,
 सुन पड़ी तत्क्षण वहाँ—“हा देवयानि !” पुकार ।
 हो रहे उन्मत्त - से थे दैत्य - गुरुवर ध्राज ,
 साथ नंगे पैर दानवराज था ससमाज ।

“आह बेटी!” कह उन्होंने आ भरा उत्संग,
 “हा पिता!” ही कह सकी वह भी शिथिल कर अंग।
 “शान्त हो बेटी, कहे क्या और तेरा बाप,
 राजपुत्री ने मुझे सब कुछ सुनाया आप।
 प्रकट कर अभिलाष अपना तू अशंक अबाध,
 मूल्य रखती है ज्ञमा ही, सुलभ है अपराध।”
 “दंडपाणि समर्थ का अपराध कैसा तात!
 और भिन्नक की ज्ञमा तो है हँसी की बात।”
 भूप वृषपर्वा बढ़ा, उसने कहा कर जोड़—
 “गुरु स्वयं भिन्नक बने हैं राज्य हमको छोड़।
 दंड से कायर डरे, करके कहीं कुछ दोष,
 गुरुसुते, आज्ञा करे कुछ भी तुम्हारा रोष।
 हम सभी सेवक तुम्हारे, यह तुम्हें है ज्ञात।”
 “किन्तु शर्मिष्ठा हमारी स्वामिनी विख्यात।”
 दैत्यपति ने घूम कर देखा सुता की ओर,
 सहज ही आगे बढ़ी वह भोर की-सी कोर।
 और बोली गुरुसुता से गर्व पूर्वक हार—
 “स्वकुल कल्याणार्थ मुझको दास्य भी स्वीकार।”

शान्त इस विष हो गया यह कलह पूर्ण अनिष्ट,
 किन्तु बहुधा अन्त को भी इष्ट है परिशिष्ट।
 जिस सदय राजर्षि ने आकर घरा था हाथ,
 देवयानी ने वरा उसको हृदय के साथ।

सहचरी सह अनुचरी बन भूल राजस रंग ,
 अश शर्मिष्ठा गई उस गर्विता के संग ।
 नीतिमन्त ययाति ने रक्खी उचित रस-रीति ,
 एक से थी भीति उनको दूसरी से प्रीति ।
 देवयानी को मिला मातृत्व 'यदु' सुत जन्य ,
 और शर्मिष्ठा हुई 'पुरु' पुत्र पाकर धन्य ।
 यह छिपा रखती कहाँ तक आत्म-रूप रसाल ,
 लाल हो उसने कहा—“पाया कहाँ यह लाल ?”
 “यह तुम्हारे अनुसरण का फल, कहूँ क्यों भूठ ,”
 “अनुचरी वा तू सपत्नी ?” कह उठी वह रूठ ।
 हाय ! जननी के हृदय पर कब न लोटा साँप ?
 पद पकड़ उसने कहा निज भावि - भय से काँप—
 “मैं तुम्हारी, यह तुम्हारे पुत्र का है दास ,
 तुम स्वयं जननी, दया चीन्हो, न दो यों त्रास ।”
 “माँ हुई, समझी न तू माँ के हृदय का चोभ ;
 छोड़ देगा हाय ! क्या यह राज्य का भी लोभ ?”
 “देवि हा ! मानव भले ही कर सकें वह घात ,
 तुम न भूलो किन्तु यह दानव-सुता का जात ।”
 “किन्तु माँ का भी न लेगा पुत्र क्या प्रतिशोध ?”
 कह पिता के घर गई वह मानिनी सक्रोध ।
 नहुष-नन्दन को दिया गुरु ने जरा का शाप ,
 पर स्वयं तापित हुए वे देख उसका ताप ।
 इस कृपा के अर्थ ही माना नृपति ने पुण्य ,
 वे जरा देकर किसीको ले सकें तारुण्य ।

दे सके पर वे किसी पर को न अपना क्लेश ,
 साथ ही थी भोग की इच्छा अभी अवशेष ।
 ज्येष्ठ सुत यदु ही हुआ उनकी व्यथा का लक्ष ,
 किन्तु माँ का ही प्रबल उस पुत्र में था पक्ष ।
 “जब गया तब पुत्र की ही ओर जनरव-रोष ,
 पर पिता अपिता बने तो पुत्र का क्या दोष ?”
 “यदु, पिता के साथ ही मैं भूप भी हूँ आज ,
 छोड़ बैठा हाथ ! क्या तू लोक की भी लाज ?”
 “ओह ! क्या ऐसा पिता भी मोह करने योग्य !
 और ऐसा भूप तो विद्रोह करने योग्य !”
 हट गया यदु, कर गया मानों भरा घन वृष्टि ,
 तब पड़ी पुरु पर पिताकी क्लेश-कातर दृष्टि ।
 “तात, जीवन है जरा में, मरण भी स्वीकार ,
 हो सके यदि आपकी इस आर्त्ति का उपचार ।”
 “वत्स, तुझको ही रहा इस राज्य का अधिकार ,
 मैं जनक हूँ, त्याज्य सुत भी पा सके सुख-सार ।
 जान जो पाया नहीं अपने पिता की भीर ,
 समझ पावेगा कहाँ से वह प्रजा की पीर !”
 अन्त में नृप की मिटी वह भोग विषयक आन्ति ,
 और लेकर निज जरा पाई उन्होंने शान्ति ।
 भोगने से कब घटे हैं रोग रूपी राग ?
 और बढ़ती है निरन्तर ईधनों से आग ।

योजनगन्धा

ब्रूज्य ययाति पिता के वर से हुई पुत्र पुरु की कुल-वृद्धि ;
और आप यदु ने भी पाई आभिजात्य के साथ समृद्धि ।
उपजे भरत भूप पुरु-कुल में, बना उन्हींसे भारतवर्ष ,
कर अवतरित आप श्रीहरि को पाया यदु-कुल ने उत्कर्ष ।
परे कृष्ण से और कौन है, जिसको कोई जाति जने ?
पुरु-कुल में कुरु जन्मे, जिनसे पौरव-कौरव कृती बने ।
महाराज शान्तनु से कुरुकुल हुआ और मानी-दानी ,
देवव्रत-सा कुलधन जिनका, गंगा-सी जिनकी रानी ।
सब राजों ने मिल शान्तनु को चुना राजराजेश्वर रूप ,
हुए चक्रवर्ती समुद्र तक वे अशेष भारत के भूप ।
सिन्धु पार भी बहु द्वीपान्तर उनके यश से धवल हुए ,
प्रतिपत्नी उनके प्रताप से शीघ्र काल के कवल हुए ।
जनकर देवव्रत - से सुत को धन्य हुई गंगा भी आप ,
हरती है जो शरणागत के सारे पाप-शाप-संताप ।
उसके आत्म-मग्न होने पर, होकर शान्तनु आर्त्त अधीर ,
उदासीन-से घूमा करते एकाकी यमुना के तीर ।

जय भारत

गंगा-तीर समान भाग्य से यमुना-तट भी उन्हें फला ,
लेकर दिव्य सुगन्धि एक दिन शीतल-मंद समीर चला ।
चौक पड़े वे उसे सूँघ कर, हुई ऊँच-सी उनकी दूर ,
फिर भी स्वप्नाविष्ट सदृश वे बड़े मोद के मद में चूर ।
खिलती हुई कली-सी आगे दीख पड़ी योजनगंधा ,
हृष्या निमेष मात्र में उनका मोहित मनोमधुप अंधा ।
धीवर-सुता मत्स्यगंधा थी योजनगंधा ऋषि-वर से ,
रमणी-मणि तो सदा प्राह्य है ऐसे वैसे भी घर से ।
लाई थी धारा-विरुद्ध वह खेकर छोटी-सी तरणी ,
थी श्रम से उद्दीप्त और भी तप्तस्वर्गशोभाभरणी ।
उभरे अंग साँस बढ़ने से हिलकोरे-से लेते थे ,
स्वेद-विन्दु माथे के मोती भाग्य-सूचना देते थे ।
खम्बा बाँस लिये थी कर में निज विजयध्वज-दंड यथा ,
चली चलाने को प्रभव से मानों कोई नई प्रथा ।
जल-पट पर अरुणातप रेखा उसका चित्रण करती थी ,
वह श्रम विफल देख कर बाला मुसकाती मन भरती थी ।
अलकें वा यमुना लहरों से सूँघ रही थी सिर उसका ,
भोले मुख पर खेल रहा था बाल्यभाव अस्थिर उसका ।
खड़ा कछोट्टा, किन्तु कँधेला पड़ा पड़ा उड़ चलता था ,
गोरे बाहु मूल में यौवन फूला फूला फलता था ।
“शुभे, कौन तुम पली प्यार से सुख से खाई-खेली हो ?
अद्भुत सुरभि भरी फूली-सी कल्प-वृक्ष की बेली हो ?
भोली-भाली भी कुछ अल्हड़, निर्मल नई नवेली हो ,
क्रीड़ा-तरी लिये निर्जन में डरती नहीं अकेली हो ?”

“जय हो श्रीमन्, सत्यवती मैं, दासराज है मेरे तात ,
 राज्य हमारे राजा का है, कहिए फिर डर की क्या बात ?”
 “क्या वस्तुतः तुम्हारा राजा ऐसा धीरधुरन्धर है ?”
 “अधिक क्या कहूँ, भू पर वह है, ऊपर सुना पुरन्दर है ।”
 “पर कहते हैं, वह रानी के विना रह गया आधा है ?”
 “मिले कहाँ गंगा-सी रानी, यह तो विधि की बाधा है ।”
 “चाहे तो कर सकती है अब यमुना ही गंगा की पूति ,
 सुतनु, दीख पड़ती है तुममें मुझे उसीकी मंजुल-मूर्ति ।
 लब्धा ललनाओं की भूषा, उषा की ज्यों अरुणाई ,
 समधिक साहस भरी किन्तु है निडर तुम्हारी तरुणाई ।
 ठीक कह रहा हूँ मैं तुमसे, मुझे राज-जन ही जानों ,
 चाहो तो तम सुमुखि, आपको अभी महारानी मानो ।
 देख रहा हूँ अहा ! रूप-रस, शब्द सुन रहा हूँ मैं आप ,
 दिव्य गन्ध का क्या कहना है, फैल रहा ज्यों कीर्ति कलापी
 सीधा न हो, पवन के द्वारा मृदुस्पर्श भी जान लिया ,
 क्या बनायेंगे हम, विधि ने ही देवी तुमको बना दिया ।
 बोलो, नत मुख से ही बोलो, अधिक नहीं बस हाँ भर दो ,
 विरह-विरस अपने राजा को फिर से हरा-भरा कर दो ।”
 “चिर मंगल हो माननीय का, दासी है पितृराजाधीन ,
 बिटिया रानी कहला कर ही क्या कृतकृत्य नहीं यह दीन ?”
 “लो, मिल गया चरित परिचय भी, सब प्रकार है यह शुभ कार्य ,
 कुल से नहीं, शील से ही तो होता है कोई जन आर्य ।”
 “यह औदार्य आर्य का, पर मैं मत्स्योदरी दास-कन्या ,
 नया जन्म-सा दिया पराशर मुनि ने मुझे, किया धन्या ।”

“अस्तु, रात होने को है अब, चलो, तुम्हें पहुँचा आऊँ ,
असमय ठौर-कुठौर अकेली छोड़ स्वयं कैसे जाऊँ ?”
“अनुग्रहीत मैं. करें न मेरे लिए कष्ट-चिन्ता श्रीमान ,
जल तो मेरे लिए गृहस्थल और वनानी विपणि समान ।”

एक दिन दासराज से मिलकर मंत्री ने उद्देश्य कहा ,
भाल संकुचित कर कुछ क्षण तक वृद्ध सोचता मौन रहा ।
फिर बोला—“अपराध क्षमा हो, किसे न हो संतति का ध्यान ?
सत्यवती रानी होगी, पर क्या होगी उसकी सन्तान ?”
भौंह चढ़ाकर कहा सचिव ने—“दास न होगी वह तुम्ह-सी !”
“भ्रात परन्तु उसे होगी क्या घर की प्रभुता भी मुझ-सी ?”
“देवव्रत जैसे कुमार को करें राज्य-वंचित हम लोग ?”
“नहीं नहीं, वे धर्म धुरन्धर भोगें सदा राज-सुख-भोग ।
मेरा नाती भी स्वराज्य से वंचित न हो, यही विनती ,
होगा क्या नगरय वह भी, यदि नहीं कहीं मेरी गिनती ।
महिषी होने योग्य नहीं किस नृप की सत्यवती मेरी ?
यों समर्थ हैं आप, बनालें बलपूर्वक उसको चेरी ।”
“बल दिखलाते होते हम तो तू यह बात नहीं कहता ,
अहोभाग्य निज मान हमारे इंगित का अनुगत रहता ।
प्रजा न होकर राजा होता, फिर भी तू नहीं करता ,
तो मैं भी याचना न करके बल से ही वह मणि हरता ।
छोड़ स्वार्थ-वश देवव्रत-सा प्रस्तुत निज दुर्लभ युवराज ,
धिक है तुम्हें, देखता है तू बाट दूर भावी की आज ।

चुप दुःशील, दुष्ट निज जन भी दगडनीय मेरे मत में ,
 फिर भी पहले उनकी आज्ञा ले लूँ, जिनका अनुगत मैं ।”
 कुपित अमात्य गया, धीवर चुप सिर खुजलाता खड़ा रहा ,
 इधर उधर देखा फिर उसने और आप ही आप कहा—
 “भूप - भोगिनी भिन्नक की भी भार्या को पा सकी कहीं ?
 स्वार्थ - हानि में ही परार्थ है, सब परार्थ परमार्थ नहीं !”
 सुनकर मंत्री से सब बातें शान्तनु ने ली लम्बी साँस ,
 फिर कराहते से बोले वे गड़ी हृदय में मानो गाँस ।
 “राजनीति की घात नहीं यह, है सीधी सामाजिक बात ,
 मेरा जो हो, पाय न मेरी प्रजा हाय ! बाधा-व्याघात ।
 धीवर को अधिकार, करे वह किसी पात्र को कन्या-दान ,
 राज्य करे देवव्रत मेरा, मरूँ भले मैं अगति-समान ।
 बार बार जनती है कोई जननी क्या ऐसी संतान ,
 करती जाय जगत में जनता जुग जुग जिसके गुण का गान ?
 सहने लगे छिपा कर अपना मनस्ताप शान्तनु चुपचाप ,
 किन्तु खोजने वालों से क्या छिपा रहा ईश्वर भी आप ?
 ज्ञात हो गई देवव्रत को उनकी विषम विरह-बाधा ,
 जिसने दो ही दिन में चुनकर कर डाला उनको आधा ।
 संग लिये कुछ प्रमुख जनों को धीवर के घर गये कुमार ,
 अय से सुख और भी मानो कड़ा पड़ गया वह इस वार ।
 “डरो न दासराज, तुम मेरे आव, आज गुरुजन बन जाव ;
 मेरी भी पितृभक्ति प्रभावित देख तुम्हारा वत्सल-भाव ।
 अपना-सा भाई पाने को किसे न होगा कब क्या त्याज्य ?
 मैं अपने भावी आता के लिए छोड़ता हूँ निज राज्य ।”

सहम गया धीवर, लज्जित-सा धीरे धीरे वह बोला—
 “अहा ! कह गया किस लघुता से महद् वचन श्रीमुख भोला ।
 किन्तु—” न बोल सका वह आगे, सिर नीचा कर खड़ा रहा ,
 “कहो कहो, संकोच छोड़कर, यों वयों चुप हो गये अहा !”
 “श्रीमन्, वयों कर कहूँ बात वह सत्य किन्तु अप्रिय-अनुदार ,
 प्रकट करेंगे क्या न आपके आत्मज भी अपना अधिकार ?”
 “करना तो न चाहिए, फिर भी कौन कहे आगे की बात ?
 मैं इसका भी यत्न करूँगा, कुछ चिन्ता न करो तुम तात !
 परिजन शान्त रहें, साक्षी हों देश-काल-जलवायु समर्थ ,
 निज राज्याधिकार तजता हूँ मैं भावी आता के अर्थ ।
 बाधक बने न आगे जिसमें कोई औरस अविचारी ,
 मैं विवाह ही नहीं करूँगा, बना रहूँगा व्रतधारी !”
 ‘भीष्म’ ‘भीष्म’ कह उठे देव-नर, वे शोभित ही हुए विशेष ,
 देता जाता है श्रद्धांजलि उन्हें आज भी उनका देश ।

शान्ति गई शान्तनु की यद्यपि योजनगन्धा घर आई ,
 वे रो पड़े—“पुत्र-बलि देकर मैंने नव पत्नी पाई !
 प्रजा पालता रहा प्यार से यदि मैं रहकर राज्यासीन ,
 तो हो स्वयं काल भी मेरे देवव्रत का इच्छाधीन ।”

कौरव-पाराडव

परम्परा पा सका न नरकुल अतुल गुणी गांगेय की ,
रही हार ही-सी समाप्त में शान्तनु सदृश अजेय की ।
धीवर का पक्का प्रबन्ध भी हुआ अन्त में व्यर्थ ही ,
अनहोनी में यहाँ अधिकतर देखा गया अनर्थ ही !
हुआ बड़ा सुत सत्यवती का चित्रांगद राजा खरा ,
वह स्वनाम के ही वैरी से वीर-तुल्य रण में मरा ।
छोटा पुत्र विचित्रवीर्य था, वह बच्चा ही था अभी ,
राजा करके उसे भीष्म ने राज-काज साधा सभी ।
काशिराज की सुतात्रयी थीं रूप-शील-कुल-पालिका ,
अम्बा बड़ी, अम्बिका मँफली, छोटी थी अम्बालिका ।
उन्हें स्वयंवर से हर लाये वे सब भूपों को हरा ,
प्रेमी युवक विचित्रवीर्य को दो ने विधिपूर्वक वरा ।
अम्बा थी वर चुकी प्रथम ही मन से शात्व-नरेश को ,
भिजवा दिया भीष्म ने उसको उसके प्रिय के देश को ।
शात्वराज ने हरी गई को अंगीकार नहीं किया ,
स्वानुरागिणी अभागिनी को चिर अनाथिनी कर दिया ।

आर्त्त अवश अबलापन उसका धैर्य खो उठा, रो उठा ,
 क्षत्रिय तनया थी तथापि वह, क्षोभ अनय से हो उठा ।
 बाल पकड़ बाला उठ बैठी ज्वाला जैसी जाग के ,
 धैर पटक तायडव-सा करने चली लास्य गति त्याग के !
 “पंक छोड़कर पुष्करिणी को सोख लिया है भीष्म ने ,
 मेरा जीवन नष्ट किया है बल पूर्वक इस भीष्म ने ।
 धिक मुझको, यदि गिरूँ न उस पर मैं धारा-सी गाज-सी !”
 चली साधने वह आँधी-सी राग - रुष्टता राजसी ।
 परशुराम के शरण गई वह मुनियों के निर्देश से ,
 और भीष्म-वध माँगा उसने, दिया उन्होंने बलेश से ।
 गुरु थे वे गंगा-नन्दन के, किन्तु वचन से बद्ध थे ,
 शिष्य भीष्म भी इधर न उनसे लड़ने को सन्नद्ध थे ।
 “क्या आज्ञा होती है भगवन्, हाय ! आपसे मैं लड़ूँ ?
 नत है यह सिर, काट लीजिए, हत भी चरणों में पड़ूँ ।”
 “भावुक, यह तो हत्या होगी, उठो, न कुछ शंका करो ,
 यह गुरु का आदेश, लड़ो वा तुम इस व्यथिता को वरो ।”
 ब्रह्मचर्य के व्रती भीष्म थे, फिर चरणों में नत हुए ,
 उनकी आज्ञा से ही उनसे लड़ने को उद्यत हुए ।
 वार बचाये मात्र उन्होंने स्वयं प्रहार नहीं किया ,
 कर न सके भार्गव कुछ तब भी, धनुष उन्होंने धर दिया ।
 दोनों के दृढ़ बल-कौशल से अम्बा थी विस्मितमुखी ,
 सुखी हार कर भी गुरुवर थे, शिष्य जीत कर भी दुखी ।
 मुनि ने कहा—“शास्त्र नृप को तो कर सकता हूँ वाध्य मैं ।”
 अम्बा बोली—“नहीं मानती अब उसको आराध्य मैं ।

मैं वह बधू नहीं, जो ऐसे निर्मम वर को भी वरूँ, त्यागा मुझे स्वयं ही जिसने, क्यों स्वीकार उसे करूँ ?” हुई मानिनी मौन क्षोभ वश, उष्ण साँस भरने लगी, छोड़ पराई आस, आप तब तप कठोर करने लगी। प्रकट हुए शंकर प्रसन्न हो बोले—“क्या उद्दिष्ट है ?” “विभो, भीष्म-वध साधन करके वैर-शुद्धि ही इष्ट है।” “उसके लिए अन्य तनु धारण करना होगा तब तुम्हें।” “इस अपमानित तनु का कुछ भी मोह-ममत्व नहीं मुझे ! केवल साधनार्थ ही अब तक इसको मैं रक्खे रही। वह पंचाग्नि तपस्या मैंने रोष न सह कर ही सही। धन्य हुई अब मैं यह होकर प्रलयंकर की किंकरी।” यह कह कर निज चिता बना कर वह जीती ही जल मरी। जन्मी द्रुपदराज-कुल में वह बन कर पहले बालिका, फिर बालक बन गयी विलक्षण भ्रति भीषण-पण-पालिका। हुई प्रसिद्ध महाभारत में वही शिखंडी नाम से, किन्तु नाम से काम न था कुछ, उसे काम था काम से। इधर विचित्रवीर्य का उपवन त्रिविध पवन का वास था, राग-रंग जमता था उसमें, रमता रास-विलास था ! देवव्रत-सा अग्रज जिसका प्रजा-राज-रक्षक रहे, अचरज क्या, यदि अन्तःपुर की रस-धारा में वह बहे ? रस के किन्तु घूँट ही अच्छे, अधिक भोग में रोग है, होना होता है जब जैसा जुड़ता वैसा जोग है। हमी आपमें उपजाते हैं क्षय-सा अपना घात भी, गत अपुत्र ही सत्यवती का हुआ दूसरा जात भी।

“हाय पिता !” कह रोयी माता प्रबल-पुत्र के शोक से ,
 “व्यर्थ हुए सब यत्न, गये हम लोक और परलोक से ।
 तुम परार्थ परमार्थ-हानि कर सुता-स्वार्थ में रत हुए ,
 दोनों ही दौहित्र देख लो, आज तुम्हारे हत हुए ।
 तब भी जो मेरा सुत होता, अब भी देवव्रत बना ,
 वत्स, क्षमा कर दुखिया माँ को तू उदार उन्नतमना ।
 वंचित मेरे लिए हुआ तू, मैंने आप किया नहीं ,
 अपने लिए पिता ने भी निज सिर पर पाप लिया नहीं ।
 दैव - दोष से मैं दोषी हूँ, दे कुछ मुझे प्रबोध तू ,
 अपना राज्य सँभाल और निज पितरों का श्रृणु शोध तू ।”
 “धैर्य धरो हा अम्ब, कहाँ कब देवव्रत वंचित हुआ ?
 तुम जैसी माँ का सुख उसके अर्थ पुनः संचित हुआ ।
 किन्तु छोड़ सकता हूँ माँ, क्या अपना स्वीकृत सत्य मैं ?
 सत्यवती माता का सच्चा हूँ क्या नहीं अपत्य मैं ?”
 “हुई इतिश्री हाय ! यहीं तब इस पुरु-कुरु-नृप-वंश की ,
 जाग रही है ज्योति तुम्हींमें उसके अन्तिम अंश की ।”
 “टूटे न माँ, प्रतिज्ञा मेरी किसी लोभ वा भीति से ,
 सम्भव राजवंश की रक्षा है नियोग की रीति से ।”
 “नहीं जानती बहुओं की रुचि हो वा न हो नियोग में ,”
 “पीनी पड़ती है कड़वी भी ओषधि उद्धत रोग में ।
 श्रद्धा होगी उन्हें श्राद्ध में जो स्वाभाविक धर्म है ,
 तन का नहीं, किन्तु मन का ही किया सुकर्म-कुकर्म है ।
 विधियाँ हैं विधेय, यद्यपि वे समय समय के अर्थ हैं ,
 नव नव मार्ग दिखाते चलते हमको सुन्न समर्थ हैं ।

जीवन में गति जहाँ वहाँ बह जाती है बहु रत्नानियों ,
 लक्ष-लाभ के लिए सहेंगे हम सहर्ष सौ हानियों ।”
 “अहा ! स्मरण आया, अपना ही जन नियोग का पात्र है ,
 प्राण महान किन्तु मुझसे ही उपजा उसका गात्र है ।
 वत्स, मत्स्यगन्धा थी जब मैं, पूज्य पराशर-योग से ,
 द्वैपायन को जन कर छूटी दुष्ट गंध मय रोग से ।
 और हुई फिर कन्या योजनगंधा मुनि - वर - दान से ,
 हुआ सुवासित मन भी मेरा श्रेष्ठ शील - सम्मान से ।”
 “कौन अधिक आत्मीय हमारा व्यासदेव से अन्य है ,
 रक्षा के ही लिए बना जो, आपद्धर्म सुधन्य है ।”
 उसी धर्म से सत्यवती ने कुल-विनाश वारण किया ,
 गर्भ विरागी व्यासदेव से बहुओं ने धारण किया ।
 डरी अम्बिका जटिल रूप से, वह आँखें मूँदे रही ,
 जना पुत्र भी अंधा उसने श्रुत धृतराष्ट्र हुआ वही ।
 अम्बालिका पड़ी पीली-सी, पुत्र पाण्डु उसने जना ,
 जन का भावी जीवन जैसे गर्भ समय में ही बना ।
 प्रेरित फिर की गई अम्बिका अन्य गर्भ धारण करे ,
 किन्तु करे कोई मन को क्या, विवश जिये चाहे मरे ।
 स्वयं न जाकर भेजा उसने दासी को निज वेश में ,
 हुआ विदुर-सा विनयी सुत वर जिससे राज-निवेश में ।
 जननी क्या दासी क्या रानी, विदुर बुद्धि-धन धीर थे ,
 तीनों में धृतराष्ट्र बली थे, पाण्डु प्रशंसित वीर थे ।
 यथायोग्य शिक्षा पाकर जब तरुण हुए तीनों जनों ,
 अपनी अपनी गुणवत्ता में बढ़ कर तब के वर बने ।

गांधाराधिप सुबल भूप की प्यारी गांधारी सुता ,
हुई अहा ! धृतराष्ट्र-बधू बन सतियों में अति अद्भुता ।
शूर नाम यदु वीर पिता की सुता पृथा गुण-मालिका ,
कुन्तिभोज ने भी माना था जिसे आप निज बालिका ।
मुनि से मंत्र लाभ कर जिसने जना प्रथम ही कर्ण को ,
क्यों न वरण करती वह कुन्ती पाण्डु सदृश वर वर्ण को ?
मद्रेश्वर की भगिनी माद्री थी सुलक्षणा सुन्दरी ,
हुई पाण्डु की प्रिया दूसरी साध्वी सच्ची सहचरी ।
योग्य जानकर भीष्मादिक ने राज्य पाण्डु को ही दिया ,
क्रिया भोग ही नहीं पाण्डु ने, अभय दिग्विजय भी किया ।
रुकता-सा राजर्षि वंश फिर चला पूर्व सम्मान से ,
गूँज उठा आकाश आप ही नवल कीर्ति-कल-गान से ।
‘देशों में भारत, भूपों में पाण्डु धन्य है धन्य है ,
पुरियों में हस्तिनापुरी - सी कौन अनोखी अन्य है ?’
कुन्ती के सुत तीन युधिष्ठिर, भीमसेन अर्जुन हुए ,
धर्म, वायु, वासव के उनमें अंश-पूर्णा सब गुण हुए ।
माद्री के दो नकुल और सहदेव अश्विनीसुत यथा ,
कहने सुनने योग्य सर्वथा पाँच पाण्डवों की कथा ।
इसी बीच द्वैपायन मुनि के वर से आशीर्वाद से ,
सौ सुत पाये गान्धारी ने वह यों बची विषाद से ।
दुर्योधन दुःशासनादि वे सहज सभी दुर्दान्त थे ,
प्रबल प्रकृति से विवश अन्यथा सब गुणज्ञ कुलकान्त थे ।
सौ पुत्रों के साथ सुता भी हुई एक थी दुःशला ,
बनी जयद्रथ की रानी वह यथा षोडशी शशि-कला ।

योग्य बधू से, जिसे भीष्म ने ढूँढ़ खोज कर था चुना ,
हुए विदुर के भी सुगुणी सुत सौख्य बढ़ाकर सौ गुना ।

होकर भी असमान शील दो जन्म - मृत्यु संगी सदा ,
हुई पाण्डु की मृत्यु अचानक आई नूतन आपदा ।
सौंप सुभग अपने दोनों शिशु कुन्ती के ही हाथ में ,
साग्रह सती हो गईं माद्री प्रियतम पति के साथ में ।

बन्धु-विद्वेष

दुर्योधन के जन्म-समय अपशकुन हुए कुछ ऐसे ,
दरे भीष्म विदुरादि, वंश की रक्षा होगी कैसे ?
स्वामाविक ही उस मानी के मन में ईर्ष्या जागी ,
दुगुने अन्वे हुए मोह से नृप धृतराष्ट्र अभागी !
ये गुन भरे भीम भी पूरे सौ को एक अकेले ,
रुला रुला झलियों को हँस हँस वार बली ने भेले !
वय के साथ वैर भी मानों उभय और बढ़ता था ,
बल पर प्रयत्नकरी बुद्धि का नया रंग चढ़ता था !
विद्या और कलाएँ उनको शिक्षित शत्रु बनार्ती ,
नई योजनाएँ रच रच कर नव युक्तियाँ जनार्ती !
तरल प्रकृति ने सरल पुरुष का संग कहाँ कब छोड़ा ?
सहज दुष्ट विद्या बल पाकर जो न करे सो थोड़ा !
उठा कौरवों को कन्वों पर तरु पर भीम चढ़ाते ,
पर चूठी गुठलियाँ फलों के बदले बहुधा पाते !
पेड़ हिलाते तब वे सहसा, सब नीचे गिर जाते ,
मीठा इतना महँगा पड़ता, खल खटा ही खाते !

भीम तैरते समय मगर ज्यों डुबकी साधे आते,
 और कौरवों को धर नीचे खींच दूर ले जाते।
 छोड़ अधमरा करके उनको हँस कर परे उभरते,
 सुन चीत्कार 'क्या हुआ' कहकर व्यंग्य और भी करते।
 कभी अखाड़े में कौरव मिल उन्हें छकाने चलते,
 पटक एक पर एक उन्हें तब बच-फट भीम निकलते।
 गले पकड़ माथे से उनके माथे कभी जड़ाते,
 रो-हँस कुम्भकर्ण कहकर भी तब कौरव घबड़ाते।
 दुर्योधन ने अपने पथ का कण्टक उनको माना,
 घोखे से विष देकर उसने उन्हें मारना ठाना।
 सीधे सच्चे भीमसेन ने न था उसे पहचाना,
 झलना नहीं, छला जाना ही सरल जनों ने जाना।
 एक बार उसने भोजन में विष चुपचाप मिलाया,
 ऊपर से सुस्वाद अमृत-सा वन में उन्हें खिलाया।
 जब अचेत हो गये वृकोदर वह सतर्क सुसकाया,
 गंगा-तट पर उन्हें विजन में छोड़ खिसक फट आया।
 डँसा किसी विषधर विशेष ने वहाँ भीम को आकर,
 विष पाकर विष शान्त हो गया, अमृत बना विष जाकर।
 पर चैतन्य न आया तब तक दुर्योधन फिर आया,
 और खींच गंगा के हूद में उसने उन्हें डुबाया।
 चिन्तित हुए युधिष्ठिर, उससे बोले—“भीम कहाँ है ?”
 “मैं क्या जानूँ, असुर है न वह, सोता जहाँ तहाँ है।”
 यह कहकर फट एक ओर वह चला गया इतराकर,
 बड़ी पायडवों की चिन्ता तब सभी ओर छितराकर।

गये हस्तिनापुर सब कौरव, पाण्डव कैसे जाते ?
वन में भाई को खोकर वे घर जाकर क्या पाते ?
वहाँ न देख उन्हें कुन्ती ने पूछा दुर्योधन से—
“लौटे नहीं वत्स, तुममें से कहो पाँच क्यों वन से ?”
“आयें, मैं क्या कहूँ, भीम तो सहसा आरम्भी है,
वहाँ व्याघ्र-अजगर-राक्षस हैं, वह दुर्द्धर दम्भी है।
उसे जूझना ही आता है चाहे कहीं किसीसे,
घटक गया है वहीं कहीं वह, पाण्डव रुके इसीसे।”
“इतने पर भी उन्हें वहाँ तुम छोड़ आ गये ऐसे ?”
“सब वन में रोवें तो घर का काम चले फिर कैसे ?”
“जाओ !”—यह कहकर तब कुन्ती लुब्ध मौन हो बैठी,
कुल के कुशल और मंगल को वह मानी रो बैठी।
हटा हतप्रभ-सा दुर्योधन, जब उसने मुँह फेरा,
कुछ न किसीसे कह रानी ने मन मन प्रभु को टेरा—
“हरे ! और भी एक सुभे यह हुआ भरोसा तेरा,
जो करना है तुम्हें, उसीमें हित होना है मेरा।”
मेजा प्रभु ने विदुर-रूप में उसी समय निज जन को,
धैर्य दिया धर्मावतार ने उस मान्या के मन को।
“मैंने जन भेजे हैं वन में, प्रभु रक्षक पालक हैं,
तुम चिन्ता न करो, चिरजीवी अपने वे बालक हैं।”

सकल मनोरथ वहीं डुबाकर दुष्कृति दुर्योधन के,
लौट अन्त में पाँचों पाण्डव आये विजयी वन के।

समाचार जो भीमसेन ने माँ को स्वयं सुनाये,
 उन्हें सत्य वा स्वप्न कहें सो वे भी समझ न पाये।
 “निश्चय भोजन में कुछ मुझको खिला दिया उस खल ने,
 यह वह जाने, गया मारने अथवा मुझको छलने।
 मूर्च्छित-सा गंगा तट पर मैं टंडक में जा सोया,
 और स्वप्न-सा देखा मैंने, उसने मुझे डुबोया।
 ऐसा जान पड़ा तब मुझको, नागों ने आ पकड़ा,
 गया प्रमातामह के घर में नाग-पाश में जकड़ा।
 ‘कहाँ रहा तू दुष्ट!’ पूँछ तुम रुष्ट हुई क्यों जानें,
 तुम्हीं देख लो, पहुँचा जाकर मैं क्या ठीक ठिकाने।
 आया है परनाना के घर पन्ती, फिर क्या कहना ?
 दुःख यही है, वहाँ और भी कुछ दिन हुआ न रहना।
 विष भी जहाँ अमृत बन जावे, वहाँ अमृत रस, आहा !
 उस पहुँचाई में जो पाया, हुआ वही मनचाहा।
 तुम सबकी चिन्ता के डर से अम्ब, चला आया मैं,
 अपने गुरुजन से प्रसाद में लो, यह मयि लाया मैं।
 यही प्राप्ति है, जो सपने को सच्चा-सा करती है,
 आर्य रहे तो फलती सब कुछ कोई भी धरती है।”

द्रोणाचार्य

रुका अचानक एक साथ ही कीड़ा - ताण्डव ,
शुष्क कूप को घेर खड़े थे कौरव - पाण्डव ।
गया उसीमें गेंद उछल जो नीचे आया ,
झौंरों के बल उठा कौन कब थिर रह पाया ?
किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा था जब यह दल ,
आकर बोला देख एक वर वृद्ध अचंचल—
“यह विशाल भूगोल जिन्हें आशा से तकता ,
कन्दुक भी उद्धार नहीं उनसे पा सकता ।”
आगत जन था एक साथ ही सुभट-सुपण्डित ,
द्वात्र तेज से झौर ब्राह्म गौरव से मण्डित ।
दण्ड छोड़ कोदण्ड - कमण्डलु धार चला था ,
परशुराम यदि न था, उन्हींका अनुज भला था ।
उसे देखकर मौन रह गये जब सब लज्जित ,
भृकुटि चढ़ाकर बड़े धनंजय सहज सुसज्जित ।
“वृद्ध, तुम्हारा व्यंग्य वचन भी मैं क्या टालूँ ?
देखो तुम, मैं अभी कूदकर गेंद निकालूँ ।”

“निकलोगे किस भाँति स्वयं, यह गर्त अँधेरा।”
 “मैं पीछे हूँ, कार्य सदा आगे ही मेरा।
 जड़ कन्दुक जब अन्ध कूप में नहीं रहेगा,
 तब क्या चेतन पार्थ अघोगति आप सहेगा?”
 “रहो रहो”—कह—किया वृद्ध ने उनको वारित,
 तब अर्जुन ने कहा—“प्रथम क्यों किया प्रचारित?”
 आगत ने सविशेष दृष्टि अब उन पर डाली,
 अपनी खोई हुई वयःश्री - सी फिर पा ली।
 पशु केसरी - किशोर, किन्तु नर यह बलिदानी,
 वैसा ही सुविनीत सरल जैसा अभिमानी।
 “उहरो तुम सब, मैं निकाल दूँ गेंद यहीं से,”
 कुछ सरकंडे तोड़ उन्होंने लिये वहीं से।
 बाण बनाकर उन्हें गेंद को पहिले छेदा,
 एक बाण का मूल दूसरे से फिर भेदा।
 ऊपर तक बन गई गदा-सी यष्टि विलक्षण,
 बिंधा उसीमें गेंद आ गया बाहर तत्क्षणा।
 विस्मित - से रह गये देखते सब वह कौतुक,
 हँसे वृद्ध—“अब धरो कला-कौशल का यौतुक!”
 सब सस्मित हो गये और बोले जो कहिए,
 हमें इष्ट है, आप हमें लोगों में रहिए।
 चलिए कृपया, पूज्य पितामह जहाँ हमारे,”
 यों कहकर ले गये उन्हें वे राजदुलारे।
 लिया भीष्म ने उन्हें भवन में सादर सविनय,
 दिया उन्होंने परम प्रीति पाकर निज परिचय—

“भरद्वाज-सुत द्रोण, शिष्य हूँ मैं भार्गव का,
 धनुर्वेद - निष्णात किन्तु कटु भोगी भव का।
 द्विज होने से मुझे विभव का लोभ नहीं था,
आर्यों पर अज्ञान्ति आप पर लोभ नहीं था।
 त्याग हमारा धर्म, अकिंचनता क्या खलती ?
 गौरव के ही साथ गेह - यात्रा थी खलती।
 अश्वत्थामा पुत्र आज भी बालक मेरा,
 पर उस दिन का न था स्वर्ण का भरा सवेरा।
 बाहर जाकर शीघ्र लौट आया वह भोला,
 ‘संगिजनों - सा दूध पिचूँगा मैं भी’—बोला।
 उसकी माँ ने सजल दृष्टि से उसको देखा,
 मेरे भीतर खिंची अनल की - सी खर रेखा।
 मैं सन्ध्या कर अभी उठा था, रहा खड़ा ही,
 दूध कहाँ था वहाँ, दृश्य था करुण बड़ा ही।
 “अम्ब, दूध” फिर कहा पुत्र ने आँसु धरकर,
 “वत्स, अभी” कह गई गेहिनी घर के भीतर।
 ले आई यव-चूर्ण घोलकर कोरे जल में,
 पीकर, पुत्र प्रसन्न, कूद बाहर था पल में।
 मेरे मन में रलानि और मुहँ पर थी लज्जा,
 की मैंने तत्काल दूर यात्रा की सज्जा।
 बोली मुझसे सती, पोंछ आँसुओं का पानी—
 “सुन सकती हूँ नाथ, कहाँ जाने की ठानी ?
 मैंने उससे कहा—“पूछती हो तुम अब भी ?
 मैं हड़ हूँ, पर देवि, नहीं हूँ पत्थर तब भी।

पुरुषों के ही लिए त्याग तप वा व्रतपालन ,
 पर किस सुख से न हो अहो ! लालों का लालन ?
 साथी मेरा द्रुपद भूप समवय के क्रम में ,
 खेला मेरे साथ पिता के पुण्याश्रम में ।
 जाता हूँ पांचाल आज उसके समीप मैं ,
 कैसे देखूँ बुम्भा बुम्भा-सा स्वकुल-दीप मैं ?”
 “नाथ, किन्तु हो जाय कहीं कुछ बात न वैसी ,
 स्वयं सोचिए, भूप-भिन्नु की मैत्री कैसी ?
 न हो गाय का, पुत्र माय का दूध पिये है ,
 क्या मुहँ पर वह छाप आपकी नहीं लिये है ?”
 “मेरा भी कर्तव्य किन्तु कुछ उसके प्रति है ,
 पाता वय के साथ बात्यबन्धुत्व प्रगति है ।”
 पर मैं भूला, विषय उसीने ठीक विचारा ,
 मैं अपमानित हुआ द्रुपद दुर्मति के द्वारा ।
 “कर ले कुछ दिन और दर्प तू धन का कीड़ा ।”
 यह कहकर मैं लौट पड़ा लेकर निज पीड़ा ।”
 कहा भीष्म ने—“आर्य, हमारे भाग्य बड़े हैं ,
 स्वयं आज आचार्य-चरण जो यहाँ पड़े हैं ।
 बनें आप गुरुदेव, कुमारों को शिक्षा दें ,
 हम क्या देंगे, आप हमें उलटी भिक्षा दें ।”
 हुए बद्ध -से द्रोण भीष्म के नम्र वचन से ,
 अर्जुन पर आकृष्ट प्रथम ही थे वे मन से ।
 “मेरी गुरुदक्षिणा नहीं रत्नाभरणों में ,
 बाँध द्रुपद को शिष्य डाल दें इन चरणों में ।”

कहा भीष्म ने—“कौन अनादर इतना सह ले ,
 आज्ञा हो तो पूर्ण करूँ यह इच्छा पहले ?”
 “नहीं आपके कष्ट - योग्य यह कार्य नहीं है ,
 आवश्यक भी, इसी समय अनिवार्य नहीं है ।”
 यह कहकर आचार्य हुए सन्तुष्ट बहुत ही ,
 जैसे गुरु थे मिले शिष्य जन भी अद्भुत ही ।
 थे वे सभी सुयोग्य, किन्तु अर्जुन की निष्ठा
 उन्हें दिलाकर रही सभीसे अधिक प्रतिष्ठा ।
 नहीं आप गुरुपुत्र धनंजय से बढ़ पाये ,
 अचरज क्या यदि अन्य नहीं ऊँचे बढ़ पाये ।
 एक रात बढ़ गया दीप जब फोंके खाता ,
 तब भी अपना ग्रास देख सुख में ही जाता ,
 समझ इसे अभ्यास परिश्रम किया उन्होंने ,
 और तिमिर में शब्द भेद कर लिया उन्होंने ।
 अन्य शिष्य जब लक्ष्य सहित भू-व्योम निरखते ,
 तब अर्जुन निज लक्ष्य-भिन्न कुछ और न लखते ।
 शस्त्रों के उपरान्त अन्न सिखलाये गुरु ने ,
 सब भर पाया पात्र छात्र जब पाये गुरु ने ।
 द्वेष जलाने लगा सुयोधन को घुस घुसके ,
 गदा युद्ध में भीम प्रतिद्वन्द्वी थे उसके ।
 देख परीक्षा समय शस्त्र-कौशल अर्जुन का ,
 सबने जयजयकार किया विस्मय से उनका ।

एकलव्य

अन्य बहुत राजन्यजात भी हुए द्रोण के शिष्य ,
उन सबके सम्मुख था अपना आशापूर्णा भविष्य ।
अपने अपने मन के मत से ही होकर अनुरक्त ,
कौरव-पाण्डव दो पक्षों में वे भी हुए विभक्त ।

चौंके नागर भी जिस वनचर जन का गठन विलोक ,
हरिण-चर्म बाँधे, हरि को भी बाँध सके जो रोक !
प्रौढ़ शबर रूपी शंकर का बाल्य-रूप-सा वाम ,
आया एक नवयुवक, उसने गुरु को किया प्रणाम ।
कसी-गँसी थी माँस पेशियाँ, श्यामल चिकना चर्म ,
बना आप ही था जो अपना जन्मजात वर वर्म ।
भाल ढँका-सा था बालों में, ढाल बना था वक्ष ,
घर्षित भी भुजदंडों से थे उत्कर्षित युग कक्ष ।
प्रस्तुत शिष्यों ने आपस में किये दृष्टि-संकेत ,
न थी उपेक्षा सहज, इसीसे वे चुप रहे सचेत ।

पर विरक्ति से नहीं, भक्ति से अपना ध्यान समेट ,
 रखी उसने गुरु-चरणों में मंजुल मधु की भेट ।
 कर में क्या, अरू-अधरों पर भी रखे था वह चाप ,
 दृष्टि प्रखर थी, किन्तु मृदुल था उसका सरलालाप ।
 “देव, दास ग्रामीण भी नहीं, वनचर व्याध-कुमार ,
 सहज असंस्कृत, नहीं जानता नागर शिष्टाचार ।
 तब भी चेतन एकलव्य जन रखता है निज चित्त ,
 लाया वही मुझे चरणों में लक्ष्य-निपात-निमित्त ।”
 “स्वस्ति,” द्रोण ने कहा—“किन्तु है धनुर्वेद भी वेद ,
 वत्स, नहीं अधिकारी उसके अराजन्य तुम, खेद !”
 “गुरुवर, नहीं अराजन्यों में क्या ईश्वर का अंश ?
 और नहीं है क्या उनका भी वही मूल मनु-वंश ?”
 “वत्स, विभिन्न किन्तु हम सबके हैं गुण-कर्म-स्वभाव ,
 तो भी लक्ष्यभ्रष्ट न हो तुम, लो असीस, घर जाव ।”
 “कहते हैं गुरु के आसन से आप आज जो बात ,
 मेरे ब्रह्म रूप में भी क्या वही कहेंगे तात ?
 उनके लिए धनुर्विद्या है जो जय-स्तोलुप मात्र ,
 वा जो धिरे सिंह पशुओं से वे हैं उसके पात्र ?
 और अधिक क्या कहूँ, आप ही करें विशेष विचार ,
 कुश-तृण-वारी भी रखते हैं बाणों का अधिकार ।
 वेदों के वक्ता जो भी हों, विद्या सबके अर्थ ,
 रख सकता है बाँध कला को निज तक कौन समर्थ ?
 क्षमा कीजिए क्षोभ, तर्क क्या छेड़ूँगा मैं क्षुद्र ,
 एक बूँद भी नहीं देव, मैं, जब है आप समुद्र ।

फिर भी मुझे असीस बहुत है” करके पुनः प्रणाम ,
 युवक धीर-गति से गर्वित ही लौट गया वनधाम ।
 मानी होकर भी विनीत था एकलव्य धृतचाप ,
 अकृतकृत्य होकर भी मन में उसको हृद्घ्ना न ताप ।
 “सच्ची निष्ठा है मुझमें तो प्रतिमा ही पर्याप्त ,
 जड़ में भी मेरा चेतन है, कसूँ कहीं मैं प्राप्त ।
 ग्लानि छोड़कर पाई उसने निज में नव्यस्फूर्ति ,
 थापी वन में स्वयं बनाकर गुरु की मृगमय मूर्ति ।
 और उसीके सम्मुख उसने अशन-शयन भी भूल ,
 साधन किया बाण-विद्या का इच्छा के अनुकूल ।

राजपुत्र मृगयार्थ गहन में गये एक दिन भोर ,
 उनका एक श्वान जा निकला एकलव्य की ओर ।
 छोड़ सूँघना, लगा भूकने वह निःश्रृंग सपुच्छ ,
 हँसने लगा किन्तु यह घन्वी समझ उसे अति तुच्छ ।
 कुछ विचार कर बोला—“रह रे, उठा न इतना मुण्ड !”
 बायों से भर दिया तूण-सा उसने उसका तुण्ड !
 भागा पूँछ दबाकर कुक्कुर निज प्रभुओं के पास ,
 उसे देख भूले विस्मय से वे आखेट-विलास ।
 “ऐसा घन्वी कौन !” पार्थ ने कहा खींचकर आह ,
 दुर्योधन के मुख से निकली वही आह बन वाह ।
 कटा तालु तक न था स्वान का, कितना हलका हाथ ,
 एकलव्य के पास गये सब सारभेय के साथ ।

“अहा ! कौन तुम ?” “एकलव्य हूँ, गुरु है द्रोणाचार्य ,
 पर किस सुख से कहूँ, आपका गुरु-भाई हूँ आर्य !”
 “नहीं नहीं” बोला -दुर्योधन—“यह तो है सम्बन्ध ,
 जिसके लिए बहुत होता है थोड़ा भी गुण-गन्ध ।”
 “क्या आतिथ्य करूँ, आज्ञा हो ?” “आज यही पर्याप्त ,
 एक वार आरम्भ हुआ फिर परिचय कहाँ समाप्त ?”
 लौंटे कौरव-पाण्डव, उसका अध्यवसाय बखान ,
 खीझ उठा धक्का - सा खाकर अर्जुन का अभिमान ।
 “एक धनुर्धरता की मेरी पूरी हुई न साध ,
 शेष प्रतिद्वन्द्वी है अब भी, वह भी वन का व्याध !”
 यह कहकर मानी ने गुरु से कहा पूर्ण वृत्तान्त ,
 सुनकर हुए द्रोण भी सहसा अचरज से उद्भ्रान्त ।
 स्वयं देखने गये विलक्षण शिष्य-साधना द्रोण ,
 आश्रम-सा ही लगा उन्हें वह उसका कानन-कोण ।
 एक ओर थी कुंज शिला पर उनकी मूर्ति गभीर ,
 अर्पित थे चरणों में टटके पत्र-पुष्प-फल-नीर ।
 घन्वा की टंकार वहाँ थी घंटा-ध्वनि अविराम ,
 और फलकते बाण-फलक थे पूजा-दीप ललाम !
 भूल रहे थे वृक्षों पर बहु चकाकृति चल लक्ष ,
 मानो उस जन में ही वन में राम रमे प्रत्यक्ष !
 “आज भक्त के यहाँ कहाँ से भूल पड़े भगवान ?
 मेरा सब कुछ स्वयं आपका, मैं क्या करूँ प्रदान ?”
 “मैं उपलक्ष मात्र, साधा है लक्ष्य तुम्हींने आप ,
 गुरु-दक्षिणा न देने का हो तब भी तुम्हें न ताप ।

वत्स, दिखा दो मुझे अगुँठा, तो वह भी भरपूर।”
 “कामा कीजिए क्षण भर” बोला उत्तर में वह शूर—
 “चढ़ा आपकी पुण्य मूर्ति के सिर पर कोई कीट,
 मारूँ तो क्या उस अबोध को, यद्यपि है वह ढीट।”
 यह कह शर सन्धाना उसने होकर कुछ अनिमेष,
 बेधे विना गिराया तत्क्षण अपना लक्ष्य विशेष।
 दिया परक्षण उसने गुरु को आप अगुँठा काट।
 जड़ीभूत रह गये देखते वे दारुण-विभ्राट।
 आँखों में आँसु भर आये, कंठ हुआ अवरुद्ध,
 बड़ी बेर तक बोल न पाये वे प्रख्यात प्रबुद्ध।
 एकलव्य को गले लगाकर कहने लगे सकष्ट—
 “वत्स, वस्तुतः व्याध नहीं तुम, कोई शापभ्रष्ट।
 क्या अचरज, यदि हुए विलक्षण धनुर्धनी गुणवन्त,
 श्रद्धा से अभ्यास साध्य है आत्म-योग पर्यन्त।
 अचरज, मुझसे भी नृपसुत जो कर न सके आयत्त,
 मिला कर्म-कौशल वह तुमको निज लघु करप्रदत्त।
 धनुर्धनी दानी भी तुम-सा नहीं दीखता अन्य,
 नाम मात्र का गुरु होकर भी मैं हूँ तुमसे धन्य।
 हुआ भले अप्रतिम धनुर्धर आज धनञ्जय पार्थ,
 किन्तु योग्यता के भागी सब, है यह बात यथार्थ।
 हाय ! अभी जो हुआ, लगे क्यों उसपर मुझे न लाज ?”
 एकलव्य बोला—“परन्तु मैं उञ्जुण हो गया आज।
 देव न मेरे लिए दुस्ती हों, और क्या कहे दास ?
 जितना हो सकता था, मैंने कर डाला अभ्यास।

मेरी-अर्जुन की क्या तुलना, कितने मेरे शस्त्र ?
 प्रभु की दया-दृष्टि से जब है उन्हें उपस्थित अस्त्र ।”
 दान-मान पाकर भी लौटे दुःखी द्रोण उदास ,
 सामाचार पाकर दुर्योधन पहुँचा उसके पास ।
 बोला—“अर्जुन के कारण ही तुमपर हुई अनीति ,
 तुमको अपना बन्धु मानकर करता हूँ मैं प्रीति ।”
 “अनुग्रहीत हूँ, इस करुणा पर क्रीत न होगा कौन ?
 वैसा धन्वी नहीं आज मैं, तदपि—” हुआ वह मौन ।

धर्मराज से कहा नकुल ने—“हुआ धन्ध का अन्ध ,
 दुर्योधन ने एकलव्य से जोड़ा सम-सम्बन्ध ।”
 “यदि उदारता होती इसमें, तो मैं कहता—धन्य ।”
 धर्मराज बोले—“परन्तु है जड़ में स्वार्थ जघन्य ।
 करना है जब आगे चलकर उसको हमसे युद्ध ,
 तब दल बाँधे क्यों न अभी से वह निज वैरि-विरुद्ध ?
 उस पर प्रेम नहीं, यह हम पर उसका द्वेष महान ।”
 “पर क्या दे सकते थे हम भी उसको सम सम्मान ?”
 हँसे युधिष्ठिर, किन्तु उसी क्षण धीर हुए गंभीर ,
 “सुनो तात, हम सभी एक हैं भव-सागर के तीर ।
 हो शरीर-यात्रा में आगे बीछे का व्ययधान ,
 परमात्मा के अंश रूप हैं आत्मा सभी समान ।
 एकलव्य तो मनुज सुफी-सा सुफमें सबका भाग ,
 मैं सुरपुर में भी न रहूँगा निज कूकर तक त्याग ।

परीक्षा

“अरे मगर-सा खींच रहा है मुझको तल में !”
गुरु समर्थ भी काँख उठे घुस गंगा-जल में ।
जड़ीभूत रह गये शिष्य ऐसे घबराये ,
पर अर्जुन ने त्वरित पाँच शर साध चलाये ।
छूटा गुरुपद ही न, नक की छूटी काया ,
दिव्यायुध का पुरस्कार धन्वी ने पाया ।
इस प्रकार परिपूर्णा हुई जब शिक्षा-दीक्षा ,
तब शिष्यों की प्रकट रूप में हुई परीक्षा ।

रंग - भूमि सज गई ढंग के शृंगारों से ,
वन्दनवारों, पटों, पताकाओं, हारों से ।
सजी वेदियाँ, सजे मंच भी भारी भारी ,
बैठे राजा - प्रजा - वर्ग के बहु नर-नारी ।
दुखी हुए धृतराष्ट्र आज आँखों के मारे ,
गांधारी ने कहा—“श्रवण ही बहुत हमारे ।”

जब शिष्यों के संग आर्य आचार्य पधारे ,
 खिच-से उनकी ओर गये दर्शक - हग सारे ।
 श्वेत केश थे, श्वेत वसन भी थे गुरुवर के ,
 मूर्तिमन्त वे स्मरण - रूप - से थे शंकर के ।
 कार्तिकेय के - से कुमार थे उनको घेरे ,
 सबने षण्मुख - एक एक मुख में ही हेरे !
 खिले मध्य चौगान सरोवर में शतदल ज्यों ,
 हिलते डुलते केश गुच्छ भौरि चंचल ज्यों ।
 गूँज गगन में रहा सुगुंजन - सा जनरव था ,
 कृत्रिम ही क्यों न हो, अंततः वह आहव था ।
 शंखध्वनि के साथ किया विप्रों ने पूजन ,
 मुरज - ताल पर नाच उठा कल मुरली - कूजन ।
 पहिन अंगुलित्राण, कसे कटि-कच्छ युवक दल ,
 चला पंतरे पलट दिखाने को रण - कौशल ।
 धर्मराज को महारथी लोगों ने माना ,
 अश्वत्थामा को सुयोधय गुरु-पुत्र बखाना ।
 खड्गों पर सहदेव - नकुल के बिजली वारी ,
 बोले उनका द्रुद्र देख दर्शक-“बलिहारी !”
 बढ़ बढ़ कर, उठ-बैठ, झपट झट दौंयें-बाँयें ,
 बचा रहे थे कृती काल - जिह्वा - ज्वालाएँ !
 किन्तु अग्नि-कण वृष्टि हुई किन विस्फोटों से ?
 भीम - सुयोधन की सुगदाओं की चोटों से ।
 स्पर्द्धा उनमें बढ़ी परस्पर छा जाने की ,
 होकर भी समबली प्रबलता पा जाने की ।

पाई दोनों विकट भटों ने बड़ी बड़ाई ,
 खेल खेल में किन्तु हो उठी खुली लड़ाई !
 पड़े बीच में कृपाचार्य गुरुवर के साले ,
 टल सकते थे वचन न जिनके उनके टाले ।
 दोनों ने रिस रोक अधर - नख काटे-कुतरे ,
 कोलाहल तब थमा वहाँ जब अर्जुन उतरे ।
 उन्हें देख सब मौन हो गये आँखें खोले ,
 लक्ष काँपते रहे, निरीक्षक हिले न डोले ।
 चला चला कर प्रथम बाण - धारा की टाँकी ,
 प्रस्तर - पट पर पुरुष - मूर्ति अर्जुन ने आँकी !
 छोड़ एक शर अन्य विशिख से उसे बढ़ाया ,
 गिरता था जो, उसे उठाकर और चढ़ाया ।
 इन्द्र - धनुष बन गये गगन में उनके सायक ,
 “साधु साधु !” कह उठे स्वयं सेना के नायक ।
 क्रम से बढ़ने लगी चाप - टंकार निरन्तर ,
 छोड़ किरण - शर जँचे भानु वे स्वर्ण कवचधर ।
 अग्न्यस्त्रों की आग देख सब हुए ससंभ्रम ,
 छूटे फिर वरुणास्त्र और वायव्य यथाक्रम ।
 आघे से भी अल्प कभी संकुचित बने वे ,
 दुगुने से भी अधिक कभी थे स्फीत तने वे ।
 पलट पेंतरे, घेर चतुर्दिक दौड़े द्रुत वे ,
 अभी यहाँ फिर वहाँ, एक भी लगे बहुत वे !
 चक्कर खाते लक्ष्य उन्होंने कहकर छेड़े ,
 छेड़े भर ही फूल और पत्थर भी भेदे ।

लक्ष्य-सूक्ष्मता स्थूल दृष्टि ने भी लख पाई ,
 सम्मुख आती हुई अनी पर अनी मिड़ाई !
 दुर्योधन के बने पार्थ आँखों के रोहे ,
 उनका कौशल देख देख सब दर्शक मोहे ।
 “धन्य धनंजय, मिला तुम्हें जो तुमने चाहा ,
 कितना गौरव - भरा हस्तलाघव है आहा !”

इसी समय ख उठा अचानक एक और से ,
 और उठा नभ गूँज शरासन की टँकोर से ।
 “अर्जुन ने जो किया, कार्य भी कर सकता है ,
 द्रुपद-हेतु भी नहीं किसीसे डर सकता है ।”
 चौक उठे सब सिंहनाद सुन आगत नर का ,
 मानों भू पर उदय हुआ नूतन दिनकर का ।
 होकर भी वह युवा प्रौढ़ि का अधिकारी था ,
 जन्मजात ही दिव्य कवच - कुंडल - धारी था ।
 मन ही मन कह उठे युधिष्ठिर—“अहो ! विषमता ,
 इसमें ईर्ष्या जगी किन्तु मुझमें क्यों ममता ?”
 तब तक उसको लिया सुयोधन ने फट जाकर ,
 पाया मानो आज सभी कुछ उसको पाकर ।
 पहले ही हो गई द्विधा-सी थी सब जनता ,
 रही कहीं भी किसी एक जन की कब जनता ?
 बोले अर्जुन कुपित—“सूतसुत, आगे आजा ,
 औरों को क्या, मुझे शस्त्र-कौशल दिखलाजा ।

मुझे द्वन्द्व के लिए प्रचारित करने वाला ,
 डरने वाला न हो, किन्तु है मरने वाला ।”
 फिर सिंह-सा कर्ण गया था जो ललकारा ,
 “निर्णायक है यहाँ एक यमराज हमारा ।”
 कुन्ती मूर्च्छित हुई अचानक इसी समय में ,
 दोनों ओर विलोक पुत्र-जीवन संशय में ।
 कर्ण उसीका पूत सूत के यहाँ पला था ,
 धर्मराज से बड़ा, भाग्य ने जिसे छला था ।
 विप्र वेष में परशुराम का शिष्य बना था ,
 दम्भी भी दृढ़ चरित अतीव उदारमना था ।
 मंत्र परीक्षामयी बाल्य जीवन की क्रीड़ा ,
 बन बैठी एकान्त आज कुन्ती की पीड़ा ।
 दीख पड़ा सब ओर घोर काला ही काला ,
 करके समुचित यत्न विदुर ने उसे सँभाला ।
 कृपाचार्य ने रोक पार्थ को, कहा कर्ण से—
 “परिचय दो तुम प्रथम कौन हो, चलो वर्ण से ?”
 “मैं मनुष्य हूँ और वर्ण सब देख रहे हैं ,
 पूछो उनसे, लोग मुझे क्या लेख रहे हैं ?”
 “जन समाज में काम नहीं इतने से चलता ,
 लोगों का अनुमान सत्य ही नहीं निकलता ।
 स्वयं कहो तो कौन तुम्हारे लिए विपद है ?”
 “कहता हूँ मैं कौन पुरुष से ऊँचा पद है ?”
 “पुरुषों में भी कर्म - भेद से पंक्ति - भेद है ,
 यदि उन्नत है एक दूसरा पतित, खेद है !”

“देखो मेरे कर्म अभी आगे आते हैं !”
 “देखे हैं, जिस भाँति अश्व जोते जाते हैं !”
 “पिता सारथी किन्तु स्वयं मैं महारथी हूँ,
 तुम्हीं कहो, अब निम्नपथी वा उच्चपथी हूँ ?”
 “सूतपुत्र ने किसी भाँति पाई हो दीक्षा,
 किन्तु यहाँ तो राजपुत्र दे रहे परीक्षा ।”
 क्षण भर रुककर कर्ण चला कुछ कहने ज्यों ही,
 आगे बढ़कर बोल उठा दुर्योधन त्यों ही—
 “कितने राजा रंक, रंक राजा होते हैं,
 पद पाते हैं योग्य, अयोग्य उसे खोते हैं ।
 फिर भी पीतल कहा जाय सच्चे सुवर्ण को,
 तो देता हूँ अंग-राज्य मैं अभी कर्ण को ।”
 “पर देने के पूर्व भीम से पूछ न लोगे ?
 स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोगे ?”
 यह कहकर सक्रोध भीम ने गदा उठाई,
 इतने ही में एक वहाँ कातर ध्वनि आई ।
 श्लथ दुकूल स्वेदाक्त यष्टि-अवलम्बी अधिरथ,
 पहुँचा करके पार कष्ट से ही अपना पथ ।
 पकड़ कर्ण को लिपट गया वह भावुक भोला,
 “वत्स, शान्त हो आज—” विनय-सा करके बोला ।
 “जो आज्ञा !” कह वीर कर्ण ने भुक्ता दिया सिर,
 बोल उठे आक्रोश-वचन यों भीमसेन फिर—
 “यही ठीक है, धनुष छोड़कर कोड़ा भाँको,
 राजा तो बन चुके, चलो अब घोड़ा हाँको ।”

वचनवद्ध था कर्ण शान्त, बोला अधिरथ ही—
 “सुनो तात, हम सूत धरेंगे तब भी पथ ही ।
 स्वकुल-कर्म में मुझे सदा गौरव ही दीखा,
 शूर सारथी विना रथी भी पंगु सरीखा ।
 चंचल पशु को हमीं मार्ग पर ले जाते हैं,
 रण में रिपु का घाव हमीं पहले खाते हैं ।
 वत्स, जानते नहीं आज तो, कल जानोगे,
 विजय-मूल तुम स्वयं सारथी को मानोगे ।”
 कहा भीम ने—“तात, वृद्ध हो वन्दनीय तुम,
 पर कुल-कर्म-विहीन काट डाले न कुलद्रुम ।”
 कोलाहल के बीच हुआ यों उत्सव पूरा,
 पर बहुतों ने कहा—“खेल रह गया अधूरा !”

कहा नकुल ने—“भार्य, कर्ण का मन कैसा है ?
 मुझे नहीं कुछ समझ पड़ा, यह जन कैसा है ?”
 धर्मराज ने कहा—“तिरस्कृत है यह मानी,
 क्रूर कृपण है इसी हेतु होकर भी दानी ।”

याज्ञसेनी

कर्णाजुन की हुई परीक्षा गुरु-दक्षिणा चुकाने में ,
हुए समर्थ न कौरव धरकर द्रुपदराज को लाने में ।
द्रोण समान न हो, फिर भी था यज्ञसेन संगी उनका ,
उसे बाँधना काम कर्ण का न था, किन्तु था अर्जुन का ।
गुरु-चरणों में किया उपस्थित जब अर्जुन ने जीत उसे ,
उन्हें दया आगई देख कर व्रीडित, विवश, विनीत उसे ।
“मैत्री होती है समान से, द्रुपद, तुम्हारी ही यह उक्ति ,
इससे अर्द्ध राज्य लेकर ही देता हूँ मैं तुमको मुक्ति ।
बचपन का साथी न सही, मैं एक अतिथि तो आया था ,
तुम दानी भी हो न सके मैं याचक बना बनाया था ।
वीर, एक दो विन्दु मात्र से क्षत्र जन्म तुमने पाया ,
किन्तु द्रोण भर विप्र वीर्य से निर्भित है मेरी काया ।”
“विजयी आप, विजित मैं, मेरी आज आपसे क्या समता ?
फिर भी शिरोधार्य है मुझको क्षेमंकरी क्षमा-क्षमता ।”
मिट्टा द्रोण का द्वेष, द्रुपद में जगी किन्तु ईर्ष्या भारी ,
वैर उभय पक्षों को पीड़ित करता है वारी वारी ।

“धिक मेरे क्षत्रिय होने को, यदि मैं यह अपमान सहूँ, इसका कुछ प्रतिकार न करके जीते जी चुप बैठ रहूँ। धिक अलज्जता का यह जीना, विष पीना अर्थात् इससे, मरना सहज, कठिन वह करना, जीने योग्य बनूँ जिससे। यहूँच द्रोण में परशुराम की परम्परा-सी सक्रिय है, अब भी उसके आयुध-बल से आकुल मेरा क्षत्रिय है। मैं भी ब्राह्मण का बल लेकर काढूँ काँटे से काँटा, धन अब भी साधन है मेरा, जिसने जन से जन बाँटा ! नहीं असम्भव कुछ जगती में, फिर हताश होऊँ मैं क्यों ? मित्रता नहीं समय ही फिर फिर तो उसको खोजूँ मैं क्यों ?”

यज्ञपेन यह सोच वैश्य की वशिष्ठवृत्ति रख कर मन में, अर्थ-सिद्धि के लिए नगर से गया तापसों के वन में। वनना पड़ा शूद्र सेवक भी उसको उपयाजक सुनि का, एक पतन के साथ दूसरा औरों का क्या, सुरधुनि का ! हुए तपस्वी तुष्ट किन्तु सब सुनकर वे नृप से बोले,—

“पहले किसने दर्प दिखाया, सोचो हे भावुक भोले ! तुमने जो कुछ किया उसीका दिया द्रोण ने विनिमय तात ! करके अब फिर घात आप ही उपजाते हो तुम प्रतिघात । धैर करो तो वैरी होगे प्रिय न बनो क्यों करके प्रेम ? अपना क्षेम तभी सम्भव है, जब हो औरों का भी क्षेम । सम्मति सूचक नहीं तुम्हारा उष्ण साँस वाला यह मौन, समझा कहौँ चोट खाया मन, व्यर्थ उसे समझावे कौन ! इन जाता जन का स्वभाव है जो है उसका कुल - संस्कार ; जीत प्रकृति के ही पौरुष की होती है, संयम की हार !

किन्तु एक अचरज है यह भी, मनःपूत जो मुझे न हो ,
समाचरे उसको मेरा ही सोदर निस्संकोच अहो !
कहूँ अर्थ को यदि अनर्थ मैं, तो मैं ही विद्वित हुआ ,
जिसमें सचमुच ही पागल-सा लोक आप ही लिप्त हुआ ।
बता दिया मैंने उपाय सो राजन्, यही बहुत जानो ,
अपना मत भी जता दिया है, मानो चाहे मत मानो ।”
मुनि का कहा उपाय भूप ने किया, छोड़कर उनकी राय ,
और दान-सम्मान लाभ-वश हुए याज मुनि सुलभ सहाय ।
हम त्यागें भी, किन्तु सहज क्या हमें त्यागती है तृष्णा ,
जन्मे नृप-सुत-सुता यज्ञ से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा ।
और हुआ विश्वास द्रुपद को—“होगी मेरी इच्छा पूर्ण ,
मेरा पुत्र करेगा मेरे चरम शत्रु का चिर मद चूर्ण ।”

स्वयं द्रोण ने उस बालक को धन्वी किया धनंजय-सा ,
और चुकाया पूर्व बन्धु को अर्द्धराज्य का विनिमय-सा ।
अनजाने अपनी विपत्ति जन अपने आप बढ़ाते हैं ,
किंवा वे निज धर्म-कर्म पर, बढ़कर स्वबलि चढ़ाते हैं ।
कृष्णा ने गुण-रूप-शील का नया गीत ही रचा दिया ,
उसी सती की मनोव्यथा ने महा प्रलय-सा मचा दिया ।
निष्ठा और प्रतिष्ठा को भी मिली उसीमें अपनी पूर्ति ,
प्रकट हुई किसके पुण्यों से रमणी की अन्तर्मणि-मूर्ति ।

लाक्षागृह

“धन्य युधिष्ठिर, धन्य धर्म नर देह धरे !”
चरचा करने लगे प्रजाजन प्रेम-भरे ।—
“सिंहासन पर उन्हें देख हम भर पावें,
अन्ध वृद्ध धृतराष्ट्र क्यों न अब वन जावें ?”
यथा रीति तब धर्मसूनु युवराज बने,
उनके यशोचितान त्रिदिव तक फैल तने ।
जिन्हें बड़े भी जीत न पाये थे रण में,
उन्हें उन्होंने हरा दिया छोटे क्षण में ।
मिले अनुज वन उन्हें चार पुरुषार्थ चुने,
कौरव यह सब देख और भी जले-भुने ।
दुर्योधन ने शकुनि-कर्ण से मंत्र किया,
फिर उनके प्रतिकूल नया षड्यन्त्र किया ।
उलटे लक्षणा देख विदुर सब जान गये,
भाल-पटल का लेख अटल वे मान गये ।
पुत्र-मोह वश अन्ध भूप को सोच हुआ,
पक्षपात प्रत्यक्ष न हो, संकोच हुआ ।

उन्हें विदुर का नहीं कणिक का मन्त्र रुचा—
 “छल है केवल एक सफल बल बचा-खुचा ।
 उड़ता पंछी फँसे, कपट का जाल बुनो ।”
 बोले तब वे धर्मराज से—“लाल, सुनो,
 स्वजनों का सामीप्य सघन हो सड़े नहीं,
 नित्य नया-सा रहे, पुराना पड़े नहीं ।
 सहें भले ही बन्धु-विरह की व्यथा सभी,
 रहें किन्तु कुछ दूर परस्पर कभी कभी ।
 दुर्योधन के और तुम्हारे बीच नया,
 आकर्षण ही सुभे इष्ट है पूर्णतया ।
 रहो वत्स, तुम तनिक चारणावत जाकर,
 आश्रो पाँचों पलट पुनर्नवता पाकर ।
 देखूँ, कै दिन अलग अलग तुम लोग रहो,
 कब दोनों के उपालम्भ मैं सुनूँ अहो !
 मेला भी इन दिनों वहाँ भर रहा भला,
 बहु क्रय-विक्रय खेल-कूद कल कुतुक कला !
 सुनता हूँ, श्रोतसुक्य उधर है तुमको भी,
 यों रुचि रखकर नहीं कहीं भी तुम लोभी ।
 बने वहाँ नव भवन, निदेश दिया मैंने,
 तुम सबके अनुरूप प्रबन्ध किया मैंने ।
 चतुर पुरोचन सचिव प्रथम ही वहाँ गया,
 तुम देखो, मैं सुनूँ सदैव नया नया ।”
 ‘जो आज्ञा’ को छोड़ युधिष्ठिर क्या कहते ?
 सुजन शील-वश दहन-दुःख भी हैं सहते ।

जब अम्बा युत चले पुरी से पांडु-तनय ,
हुए विदुर अति व्यथित देख झल और अनय ।
सावधान कर उन्हें उन्होंने बता दिया ,
जाना था जो गुप्त रूप से, जता दिया ।
“कब न पकड़ ले आग प्रकट जो स्नेह यहाँ ,
बना तुम्हारे लिए लाख का गेह वहाँ ।
किन्तु अन्त में अवश सभी पछताते हैं ,
लाख यत्न भी एक छिद्र रख जाते हैं ।
उसी छिद्र से निकल विज्ञ बच आते हैं ,
धीर-वीर ही जूझ जूझ जय पाते हैं ।
पद पद पर है विपद, सचेत रहो सदा ,
बाधा भी है अगद रूपिणी यदा-कदा ।”
बहुत लोग थे, विदुर भिन्न भाषा बोले ,
धर्मराज ही अर्थ-अनर्थ समझ डोले ।
किन्तु शांघ्र कर लिया उन्होंने चित्त कड़ा ,
अहो अर्थ से भी अनर्थ का बोध बढ़ा !
किसको उनके विना हस्तिनापुर भाया ?
ब्रह्म रहित-सी रही वहाँ कोरी माया !
फूल वारणावत न समाया अपने में ,
मिला उसे वह जो अलभ्य था सपने में ।
चूका नहीं परन्तु पुरोचन पापमना ,
अग्नि-गर्भ-गिरि-तुल्य उच्चगृह वहाँ बना ।
लाख-तेल से लिप्त भित्तियाँ चमक उठीं ,
दर्पण ऐसी छतें-गच्चें दृढ़ दमक उठीं ।

इतने पर भी किन्तु न उसका यत्न फला ,
विदुर-भृत्य ने वहाँ पहुँच कर उसे छला ।
उसने उसमें एक अलक्ष्य सुरंग रचा ,
जिसमें घुस कर अलग निकल कर जाय बचा ।
आग लगी, घर जला, सुघर पांडव न जले ,
गेह-गर्भ-पथ धरे चतुर वे निकल चले ।
निकल न पाया, जला पुरोचन ही जीता ,
मरता जलता वही द्वेष-विष जो पीता ।
कौरव भीतर सुखी, दुखी थे बाहर से ,
नीचे ऊपर शीत-तप्त तप के सर-से ।
भेद विदुर ने व्यथित भीष्म को बता दिया ,
पर देकर धृतराष्ट्र संग कुछ शोक किया ।
दुर्योधन ने कटा पाप-कंटक जाना ,
पर दिखावटी दुःख शोक उसने माना ।
“हाय हमीं हतभाग्य !” विलख बोले पुरजन—
“नहीं एक भी धर्मराज, सौ दुःशासन !”

हिडिम्बा

विदुर कृपा से कर छद्म-घर छार-खार ,
वन में प्रविष्ट पांडुपुत्र हुए गंगा-पार ।
भीम ने बनाया मार्ग बीहड़ में बढ़के ,
कुन्ती जा सकी उन्हींके कन्धों पर चढ़के ।
माँ को लिये वे, दिये सहारा भाइयों को भी ,
गिनते न मार्ग में थे खड्ड-खाइयों को भी ।
देखते उन्हें थे वन - जन्तु सुविस्मय से ,
किन्तु दूसरे ही क्षण भागते थे भय से !
घने घने वृक्ष आतपत्र लिये आते थे ,
निज फल-फूल उन्हें भेट दिये जाते थे ।
कंटक भी इनके पदों को धर रहते ,
शल्य-विद्ध मन में वे उनसे क्या कहते ?
केकी गति धरते थे, पिक स्वर भरते ,
उनके विनोद का प्रयास-सा थे करते ।
वे आखेट-मग्न मान सकते थे आपको ,
भूलते परन्तु कैसे माँ के मनस्ताप को ।

उतरी थकान, जो चढ़ी थी उन्हें वन में,
 प्राप्त हुए व्यास नये प्राण-से पवन में।
 श्वास खींच बोले बली—“अम्बा-आर्य आ जावें,
 तो वे पुनर्नवता तुरन्त यहाँ पा जावें।”
 रुक न सके वे वहाँ, लौटे वायु-बल से,
 पात्र के अभाव में दुकूल भर जल से।

माता और आता यहाँ हारे थके सोये थे,
 भावि गति खोजते-से आप भी वे खोये थे।
 प्रहरी हो भीम क्या क्या सोचा किये मन में,
 सँभ को ही रात हुई उनको गहन में।
 धारे गगनस्थली ने तारे-रत्न चुनके,
 चमके वे नूपुरों की रुन-शुन चुनके।
 सुन पड़ी राग की नई-सी टेक उनको,
 दीख पड़ी सुन्दरी समक्ष एक उनको।
 उत्थित वसुन्धरा से रत्नों की शलाका थी,
 किंवा अवतीर्ण हुई मूर्तिमती राक्ता थी।
 अंग मानो फूल, कच मृग, हरी शाटिका,
 कर-पद-पल्लवा थी जंगम-सी वाटिका।
 ओस सुसकान वन ओठों पर झाई थी,
 सुरभि - तरंग वायुमंडल में छाई थी।
 चौक उठे भीम, रह वे न सके स्थिर भी,
 खिच थे भले ही अविनीत न थे फिर भी।

झोटों पर तर्जनी धरे वे बड़े धीरे से,
 “देवि, कौन है तू यहाँ ?” बोले हँस हीरे-से—
 “जागें नहीं कच्ची नींद माता और आता ये,
 आप कष्ट में भी शरणागतों के आता ये।”
 “धन्यवाद ! देवि - पद दान किया तुमने,
 वस्तुतः मैं राक्षसी हूँ, मान दिया तुमने।
 स्वीकृत इसीलिए मैं करती हूँ इसको,
 अन्यथा मैं अपने समक्ष गिनुँ किसको ?”
 “राक्षसी इसीलिए क्या तू जो है निशाचरी ?
 यद्यपि दिवा-सी यह दीप्ति तुम्हें भरी !
 फूटा जिसे देख यहाँ पत्थर में सोता है,
 ऐसा रस-रूप यदि राक्षसी का होता है,
 तो थी राक्षसों के प्रति मेरी आन्त धारणा,
 तन्वि, तुम्हें योग्य नहीं यह वन-चारणा।”
 “मानती हूँ इसको गुणज्ञता तुम्हारी मैं,
 दुगुनी कृतज्ञ हुई बलि, बलिहारी मैं !
 मेरा बड़ा भाग्य यह, जो मैं मन भा गई,
 वन घर मेरा, तुम्हें देखा और आ गई।
 अपने अतिथि का सुभीपर न भार है,
 कह दो, अपेक्षित तुम्हें क्या उपहार है ?
दुःख में पड़े हो तुम सर्व सुख सेवी-से।”
 “तो आलाप करता हूँ मैं क्या वन-देवी से ?”
 “देवी ही सही मैं तब मेरे देव तुम हो,
 कामलता हूँ मैं, तुम्हीं मेरे कल्प द्रुम हो।”

“सुन्दरि, क्या सत्य ही तू कोई अन्य बाला है ?
 रूप से जो ज्वाला और वाणी से रसाला है ।”
 “मैं हूँ”—हँस बोली वह “जो भी तुम जान लो ,
 हानि क्या मुझे यदि निशाचरी ही मान लो ?
 कल्प-सा किया है स्वयं मैंने निज काया का ,
 यातुधानी हूँ न, योग रखती हूँ माया का ।”
 “तो तू अपने को भले शूर्पणखा मान ले ,
 लक्ष्मण-सा धीर मैं नहीं हूँ, यह जान ले !”
 “शूर्पणखा तक ही तुम्हारा बड़ा ज्ञान है ,
 वे हो तुम, जिनमें अतीत ही महान है !”
 “लक्ष्मण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी है ?
 तब भी प्रशंसनीय सत्य-निष्ठा तेरी है ।
 शूर्पणखा, ‘राक्षसी मैं,’ थी कह सकी कहाँ ,
 किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्या यहाँ ?”
 बोली चढ़ी भृकुटी उतार कर ललना—
 “चाहो तो कहो तुम भले ही इसे छलना ,
 प्रिय-रुचि हेतु चुना मैंने यह चोला है ,
 नरवर मेरा अहा भारी भला भोला है !”
 “भोला ? भली, ‘मुग्ध’ कह तो भी एक बात है ,
 रूठे वह क्यों न सीधा सीधा यह घात है !”
 “रूठना भी उसका क्या जो उदार चेता है ,
 चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है !
 देवों की अपेक्षा दैत्य हमसे निकट हैं ,
 नर तो निरीहिता में दोनों से विकट हैं !

चाहिए उन्हें तो किसी दिव्य की अधीनता ,
 दीनता कहूँ मैं इसे किंवा आत्म-हीनता ?
 अस्तु और वेत्ता नहीं, संकट समीप है ,
 सोदर हिल्डिम्ब मेरा रक्षः-कुल-दीप है ।
 उसने मनुष्य-गंध पाके मुझे भेजा है ,
 आके तुम्हें देख कैसा हो उठा कलेजा है !
 मारने को आई थी, बचाऊँगी तुम्हें अहो !
 होने से विलम्ब किन्तु डरती हूँ; जो न हो ।”
 “प्रेम करने वा कृपा करने तू आई है ?
 जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है ?”
 “इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय ! तुम ,
 खो न बैठो आप निज रक्षा का उपाय तुम ।
 मैं भी उससे न बचा पाऊँगी तुम्हारे अंग ,
 भाग चलो प्यारे, हठ छोड़ अभी मेरे संग ।”
 “भाग चलूँ ? छोड़ माता-भ्राता, वे जियें-मरें ,
 राक्षस नहीं हैं हम, तू ही कह, क्या करें !”
 “राक्षस न होना किसी भाँति तो तुम्हें खला !
 कौन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भला ?”
 “इन्द्रियों के भोग की क्या बात कहूँ तुझसे ,
 प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुझसे ।”
 “मुक्ता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चुगने ?
 प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने ।”
 “यदि यह बात है तो चिन्ता भय छोड़ दे ,
 मेरे नरनाम में अभी से जय जोड़ दे ।

जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है,
भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है।”

आगया इसी क्षण हिडिम्ब शमदूत-सा,
भीरुओं की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा !
बोला दूर से ही वह—“व्यर्थ होगा भागना !”
सोते हुआ को भी इस वार पड़ा जागना ।
एक वार काँप के हिडिम्बा हुई जड़-सी,
आई स्वजनों में अकस्मात् झंझा झड़-सी ।
भुक भुक भोंके भेल ज्यों त्यों वन ठहरा,
वज्रदन्त वाला बड़ काला घन घहरा ।
“तू बलि बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है !”
भीम हँसे “आगया मृगव्य आप मेरा है ।
अन्य बलिदान वाली पूजा है अशक्तों की,
ईश चाहता है आत्म-बलि ही स्वभक्तों की ।
राक्षस, सहायता मैं दूँगा तुम्हें इसमें,
आज तुम्हें छोड़ के विनोद मेरा किसमें ?”
यह सुन आग हो हिडिम्ब बड़ गरजा,
बीच में हिडिम्बा ने विरोध कर वरजा—
“सावधान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में !”
“लाई क्लिब रूपता तभी तू निज तन में ?”
रुष्ट हुआ राक्षस—“क्या बकती है तू अरी,
धिक धिक, राक्षसी हो, मर्त्य पर ही मरी ।

खोके हा ! निजत्व तूने अच्छी यह सज्जा की ,
 होके स्वयं हीन मुझे कैसी लोक - लज्जा दी ।”
 “आगे मुझे मार !” “नहीं पीछे तुझे मारूँगा ,
 और निज कुल को कलंक से उबारूँगा ।”
 भीम बोले—“अन्य जन्म लेके कुछ करना ,
 सम्प्रति तू निश्चित ही जान निज मरना ।”
 राक्षस बहन को हटाके भिड़ा भीम से ,
 कौशल में बल में वे दोनों थे असीम-से ।
 भीम के लिए न रण-रंग-रस तिक्त था ,
 भाइयों का साहस बढ़ाना अतिरिक्त था ।
 लड़ लड़ जाते क्रुद्ध गंडकों से मुंड थे ,
 टाँगें मारते थे मत्त वारणों के शुंड थे ।
 कर धरते थे कर किंवा अजगर थे ,
 करते अमानुषिक नाट्य वे दो नर थे !
 रक्खी गुणग्राहकता पार्थ ने लड़ाई की ,
 निज पर भेद भूल दोनों की बड़ाई की ।
 शत्रु की प्रशंसा जो वृकोदर को खटकी ,
 ग्रीवा धर उसकी उन्होंने खींच भटकी ।
 धौंघे मुँह नीचे गिर उठने न पाया वह ,
 रह गया लेके भग्न कटि की स्वकाया वह ।
 पीठ पर पैर रख, हाथ डाल दोनों और ,
 मोड़ा उसे भीम ने, हुआ तड़ाक शब्द घोर ।
 मरते हिडिम्ब ने कहा सो सबने सुना—
 “योग्य ही बहन, तूने वर अपना चुना ।”

“हाय भैया ! किसने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी ?”
 खींची अनुजा ने साँस, अग्रज ने छोड़ दी ।
 क्रुद्ध भीम भूले भाव राक्षस की जाई के,
 बोले—“भगिनी भी संग जायगी क्या भाई के ?”
 धर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने,
 गर्व से सराहा उन्हें एक एक भ्राता ने ।
 “अम्ब, अम्ब, आर्य, आर्य, आज्ञा मिले, जावे भीम,
 दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम ।
 मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो,
 राज्य धर्मराज का हो. निष्कंटक देश हो ।
 चिन्ता की युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके,
 शान्त किया भीम को हिडिम्बा ओर देखके ।
 “भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं अभी,
 तो भी जानने की बात जान गई तू सभी ।
 भेद खोल देने से निवारें तुम्हें कैसे हम ?
 आप बचने के लिए मारें तुम्हें कैसे हम ?
 वैरी की बहन भी तू स्त्री है, प्राण तेरा हो,
अपने समान हमें क्यों न प्राण तेरा हो ?
 बाधा है लिखी-बदी-सी हमको अराति की,
 रह तू सुरक्षित ही रक्षणीया जाति की ।
 “आर्य शंका मुझसे करें न किसी बात की,
 हममें प्रवृत्ति नहीं ऐसे घृण्य घात की ।
 प्रेम-वैर दोनों हम सीधे साध लेते हैं,
 अन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं ।

किर भी चिता की बात जोहरा आता है,
उससे यहीं तक अभागिनी का जाता है।
हाय ! इसमें भी वृथा तुमको न हो कहीं।”
“नहीं, नहीं” बोल उठे पांडव—“नहीं नहीं।”
मित्र सम शत्रु का संस्कार किया सबने,
और किर निर्भर का मार्ग लिया सबने।

तोड़ लिये किसने वे तारे इम बंच में,
फूले मणि-पद्म थे जो कालिमा की कच में।
साथ थी हिडिम्बा, रुक बोली उससे पृथा—
“पुण्यजने तू यों कष्ट करती है क्यों वथा।”
“पुण्यजना—पापमना—क्या हूँ, नहीं जानती,
पुण्य-पाप दोनों को सहैतुक मैं मानती।
कुछ भी सही मैं किन्तु मेरे भी हृदय है,
औरों का नहीं तो मुझे अपना ही भय है।
न्याय से उन्हींपर न भार मेरा साग है,
रक्षक जिन्होंने एक मात्र मेरा मारा है ?
सोदर के वैर हेतु मैं भी ब्रूझ सकती,
किन्तु कुछ और भी समझ ब्रूझ सकती।
वैर की यथार्थ शुद्धि वैर नहीं, प्रेम है,
और इस विश्व का इसीमें द्विपा क्षेम है।
उठ चली जाति-तिरस्कार भयहीन मैं,
आप अहम्भाव कर बैठी हूँ विलान मैं।

तो भी यहीं चाहती हूँ भव में मैं मरना,
 जीवन का याग निज भोग मुझे करना।”
 “किन्तु हम मानव हैं और तुम—” “राक्षसी ?”
 बोली आँठ काट वह और भी कमी-कसी।
 “यदि तुम आर्य हो तो दो हमें भी आर्यता,
अपनी ही उच्चता में कैसी कृतकार्यता ?
 और राक्षसी भी मैं, असुन्दरी क्या बेसी हूँ ?
 सम्मुख उपस्थित हूँ, खोटी, खरी जैसी हूँ।”
 “कृत्रिम” “तो खोल दूँ यथार्थ की भी गठरी ?
 अम्ब, है अकृत्रिम तो हड्डियों की ठठरी !
 कर - पद - अधर - कपोल - नख रँगना,
 इष्ट नूपुरों के संग काँची - हार - कँगना।
 नथ-तरकी ही तो अकृत्रिमता लाती है,
 जब वह नाक-कान दोनों कटवाती है !
प्राणि मात्र सहज प्रवृत्तियों में एक-से,
राक्षस भी चलते हैं अपने विवेक से।
 होकर मैं राक्षसी भी अन्त में तो नारी हूँ,
 जन्म से मैं जो भी रहूँ, जाति से तुम्हारी हूँ।
 कर सकती हो अविश्वास कैसे मेरा तुम ?
 तोड़ दिया मैंने अम्ब, छोड़ो क्षुद्र घेरा तुम।
 भार नहीं हूँगी मैं तुम्हारे भीम के लिए,
 विचरूँगी व्योम में भी उनको लिये दिये !
 निश्चित समय जहाँ आया लौट आऊँगी,
 केवल उन्हें ही तुम्हें सौंप नहीं जाऊँगी,

और एक जन को भी, जिसको जन्गी मैं ,
 और फिर मरके भी अमर बूँगी मैं ।
 पुत्रों के तुम्हारे वह पौत्र काम आवेगा ,
 और आगे मेरी भावनाओं को बढ़ावेगा ।”
 “मान लो, परन्तु भीम प्रत्याख्यान कर दे ?
 भंग यह सारा स्वप्न और ध्यान करदे ।”
 “तब भी मैं पतित न हूँगी किसी पाप से .
 उजल उठूँगी शुचिस्नेह के प्रताप से ।
 निष्फल भी सच्चा प्रेम त्यक्त कहाँ होता है ।”
 “तीर्थ ही बनाता वह, व्यक्त जहाँ होता है ।”
 “असुरों से नाता नहीं जोड़ते क्या सुर भी ?
 पूर्य है पुलोमजा से इन्द्र-अन्तःपुर भी ।
 और यदि शर्मिष्ठा तुम्हारी पुरखिन है ,
 तो तुम्हें हिडिम्बा को निभाना क्या कठिन है ।”

कुन्ती ने विचार कर पूछा युधिष्ठिर से ,
 देखा एक वार भली भौँति उसे फिर से ।
 स्त्री का गुण रूप में है और कुल शील में ,
 पद्मिनी की पंकजता डूवे किसी भील में ।
 “तुम्ह-सी बहू भी मुझे सहज मिली अहा !
 पूर्य काम हो तू !” यों उन्होंने उससे कहा ।
 हाथ उसका तो नहीं भीम को घरा दिया ,
 भीम का ही पाणि उसे ग्रहण करा दिया ।

हिडिम्बा

बिचरे हिडिम्बा-संग भीम कुछ दिन यों ,
बीतते हैं ऐसे दिन रात पल-छिन ज्यों ।
सुफल घटोत्कच था इस नव कार्य का ,
राक्षस के बल में समाया शील ध्रार्य का ।

वक-संहार

वह विप्र का परिवार था ,
शुचि लिप्त घर का द्वार था ,
पूजा - प्रसूनाकीर्ण थी हृद् देहली ।
आगत अतिथियों के लिए ,
शीतल पवन सुरभित किये ,
मानों प्रथम ही थी पड़ी पुष्पांजली ।

द्विजवर्य विघ्नो से रहित ,
वेदी निकट, शिशु सुत सहित ,
सानन्द संध्योपासना था कर रहा ।
परितृप्त गृह-सुख-भोग से ,
मन्त्र-स्वरों के योग से ,
मानों भुवन की भावना था हर रहा ।

था पास ही तुलसीघरा ,
 जो वायु-शोधक था हरा ,
 सुमुखी सुता थी दीप उस पर धर रही ,
 बस, ब्राह्मणी निश्चल खड़ी ,
 मुकुलित किये आँखें बड़ी ,
 कैसे कहें, किस भाव से थी भर रही ।

थी शान्ति पूरे तौर से ,
 ध्वनि सुन पड़ी तब पौर से .
 “गृहनाथ हैं ? मैं अतिथि हूँ, सुत साथ हैं ।”
 भट ब्राह्मणी चौकी, चली ,
 कह कर मधुर वचनावली ,
 “आओ, अहा ! हम सब विशेष सनाथ हैं ।”

सचमुच सनाथ हुए सभी ,
 ऐसे मनुज देखे कभी ।
 कुन्ती सहित पाण्डव अतिथि थे वे नये ।
 लाक्षाभवन के साथ ही
 आशा जला कुरुनाथ की ,
 इस एकचक्रा नगर में थे आ गये ।

जय भारत

रुचिकर वहाँ का वास था ,
आदेश भी था व्यास का ,
इससे वहीं रहने लगे वे प्रीति से ।
भिक्षान्न ले आते स्वयं ,
माँ को खिला खाते स्वयं ,
फिर द्विज-निकट अभ्यास करते रीति से ।

द्विज और भी हर्षित हुआ ,
उनपर समाकर्षित हुआ ,
शास्त्राब्धि - मन्थन अमृत हित होने लगा ।
विष-विघ्न भी जाता कहाँ ,
वक्-रूप में निकला वहाँ ।
वह धैर्य विप्र-कुटुम्ब का खोने लगा ।

जिसमें न हो सबका निधन ,
प्रति दिन पुरी से एक जन
उपहार था उस दैत्य को जाता दिया ।
अब विप्र की वारी पड़ी ,
कैसी कठिन थी वह घड़ी ,
भय-शोक से फटने लगा सबका हिया ।

माँ-बेटियाँ रोने लगीं ,
 अति कातरा होने लगीं ,
 सुत युक्त ज्ञानी द्विज सहज गम्भीर था ।
 पर मृत्यु का संवाद था ,
 सुख पर विशेष विषाद था ,
 बस, एक के हित अन्य आज अधीर था ।

कुछ देर सन्नाटा रहा ,
 तब शान्ति से द्विज ने कहा,—
 “सम्पूर्ण जीवन सौख्य मैं हूँ पा गया ।
 भागी हुआ भव-भाग का ,
 अब तृप्त हूँ, गृह त्याग का
 मेरे लिए उपयुक्त अवसर आ गया ।

निश्चिन्त हो घर-वार से ,
 बन कर विरत, संसार से
 सम्बन्ध अपना आप ही मैं तोड़ता ।
 फिर आत्म-चिन्तन-लीन हो ,
 दृढ़ योग-मुद्रासीन हो ,
 मैं यह विनश्वर देह यों ही छोड़ता ।

अब काम यह भी आयगी ,
निज को सफल कर जायगी ,
मैं आज जाऊँगा स्वयं वक के निकट ।
तुम लोग शोक करो न यों ,
मत हो अधीर, डरो न यों ,
जब प्राकृतिक है तब मरण कैसा विकट !”

तब ब्राह्मणी बोली—“रहो ,
स्वामी. न तुम ऐसा कहों ।
जीती रहूँ मैं और तुम जाकर मरो ।
इससे अधिक परिताप की ,
क्या बात होगी पाप की ?
कह कर इसे सुझको न धर्मवृत्त बरो ।

निश्चिन्त मर कर भी अभी ,
तुम हो नहीं सकते कभी ,
चिन्ता रहेगी हम अनार्थों की सदा ।
पर कर नहीं सकता हरण ,
गृह-शान्ति यह मेश मरण ,
कारण कि होगी दूर कुल की आपदा ।

कुछ काम संकट में सरे ,
 इस हेतु धन-रक्षा करे ,
 दारादि की रक्षा करे धन से सदा ।
 आचार यह अति शिष्ट है ,
 पर आत्मरक्षा इष्ट है ,
 धन से तथा दारादि से भी सर्वदा ।

मैं सुत-सुता भी जन चुकी ,
 कुल-वर्द्धिनी हूँ बन चुकी ,
 मेरे विना अब हानि क्या संसार की ?
 इस हेतु जाने दो मुझे ,
 यह पुण्य पाने दो मुझे ,
 जिससे कि सुरक्षा हो सके परिवार की ।”

तब शील - सद्गुण - संयुता
 कहने लगी यों द्विजसुता ,—
 “हे तात, हे माँ. तुम सुनो मेरी कही ।
 सूभी मुझे वह युक्ति है ,
 जिससे सहज ही युक्ति है ,
 आनन्द-पूर्वक मैं. बताती हूँ वही ।

कल हो कि आज, कि हों कभी ,
पर जानते हैं यह सभी ,
है दान की ही वस्तु कन्या लोक में ।
तो त्याग तुम मेरा करो ,
आपत्ति यों अपनी हरो ,
मैं भी बनूँ कुल-कीर्ति-धन्या लोक में ।

यदि तुम नहीं तो माँ नहीं ,
तुम हो जहाँ, वे भी वहीं ,
माँ के बिना बच्चा कहीं बच पायगा ?
भाई गया तो क्या रहा .
सम्पूर्ण कुल का कुल बहा ।
हा ! कौन किसको पिंड फिर पहुँचायगा ?

पर मैं मरूँ तो रलानि क्या ?
सब तो बचेंगे, हानि क्या ?
इससे मुझे बलि आज होने दो न क्यों ?
लघु लाभ का क्यों लोभ हो ,
गुरु हानि का जो चोभ हो ,
लघु हानि कर गुरु लाभ हो तो लो न क्यों ?

-मैं त्याग के ही अर्थ हूँ ,
 बच भी रहूँ तो व्यर्थ हूँ ।
 फिर क्यों न मुझको आज ही तुम त्याग दो ?
 यह और आगे की सभी
 मिट जायँ चिन्ताएँ अभी ।
 मैं माँगती हूँ, पुराय का यह भाग दो ।”

करुणाश्रु जल बहने लगा ,
 द्विजवर्य फिर बहने लगा ,
 “डालो न मुझको मोह करके मोह में ।
 यह कथन है समुचित तुम्हें ,
 है इष्ट मेरा हित तुम्हें ,
 पर लाभ क्या इस व्यर्थ के विद्रोह में ?

पाणिग्रहण जिसका किया ,
 सब भार जिसका है लिया ,
 कैसे उसे मैं मृत्यु-सुख में छोड़ दूँ ?
 होमाग्नि-सम्मुख विधिविहित ,
 जिसको किया निज में निहित ,
 सम्बन्ध उस सहवर्षिणी से तोड़ दूँ ?

हा ! और यह कुलपयिका ,
मेरी विनीता वालिशा ,
निज मुख वृथा हो आँसुओं से भी गही ;
यह आँख मेरी दूसरी ,
द्विज - पाँख मेरी दूसरी ,
मेरे लिए है आप ही हत हो गही ,

पर, पुत्रि. इसमें सार क्या ?
तेरा यहाँ अधिकार क्या ?
तू हर सकेगी दूसरे घर की क्या ?
अधिकार पालन मात्र का
मुझको कि लालन मात्र का ,
सचमूच पराई वस्तु है तू अर्था ।

ब्राह्मणि, सुनो, तुम गुणवती ,
बहु विध कला-कुशला सती ,
निर्वाह का क्या सोच सालेगा तुम्हें ?
करके उचित परिचालना ,
इस पुत्र को तुम पालना ।
होकर युवक यह आप पालेगा . तुम्हें ।

बैठी बहन के स्कन्ध पर
 रक्खे हुए निज वाम कर ,
 कुल-दीप-सा बालक खड़ा था स्थिर वहाँ ।
 पाकर समय उसने कहा ,
 थी तोतली वाणी अहा
 “मालूँ अचुल को मैं अभी, वह है कहाँ ?”

थी शोक की द्यार्ई घटा ,
 उसमें उठी विद्युच्छटा ।
 रोते हैंमे, हैंसते हुए रोये सभी ।
 तब ब्राह्मणी ने सिर धुना ,
 वह शब्द कुन्ती ने सुना ।
 वह वायु-गति से आप आ पहुँची तभी ।

“यह शोक कैसा है अरे !
 तुम लोग क्यों आँसूँ भरे ?
 आपत्ति क्या तुम पर अचानक आ पड़ी ?
 क्या भय उपस्थित है कहो ,
 आत्मीय हूँ मैं भी अहो !
 जो कर सकूँ, सबद्व हूँ मैं सब घड़ी ।”

जब भारत

तब विप्र ने वक की कथा ,
अपनी तथा सबकी व्यथा ,
उसको सुनाई दुःख से, निवेद से ।
सारी अवस्था जानकर ,
अति दुःख मन में मानकर ,
कहने लगी कुन्ती वचन यों खेद से,—

“यह राज्य हा ! असहाय है ,
मरता, न करता हाय है ।
मुझसे कहो, राजा यहाँ का कौन है ?
कुछ यत्न वह करता नहीं ,
कर्त्तव्य से डरता नहीं ?
मरती प्रजा है और रहता मौन है ?

सबके सदृश उस भूप की ,
उस पाप के प्रतिरूप की ,
वक के लिए वारी कभी पड़ती नहीं ?
जुझे कि निज पद त्याग दे ,
सबके सदृश बलि - भाग दे .
न्यायार्थ क्यों उससे प्रजा लड़ती नहीं ?

पर है यहाँ की जो प्रजा ,
 जो है बनी बलि की अजा ,
 वह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है ।
 डालें नहीं तो यदि अभी ,
 भर धूल सुट्टी भर सभी ,
 तो धूल में मिल जाय वक, सो स्पष्ट है ।

जो हो, कहो हे भूमिसुर ,
 तुम छोड़कर यह पापपुर ,
 अन्यत्र ही न चले गये कुल-युक्त क्यों ?
 पृथ्वी पृथुल है, पार क्या ,
 ऐसा यहाँ था सार क्या ?
 जाते कहीं होते न तो वक-भुक्त यों ।”

द्विज ने कहा, कुन्ती रुकी,—
 “जो बात निश्चित हो चुकी ,
 किस भाँति मैं उससे भला मुहँ मोड़ता ?
 खोटा-खरा जैसा सही ,
 वक संग समझौता यही ,
 सबने किया, कैसे उसे मैं तोड़ता ?

जन एक देता प्राण है ,
होता सभीका प्राण है ,
सबके लिए निज नाश करना भी भला ।
किस भौति फिर मैं भागता ,
निज जन्मभू को त्यागता ?
दस भाइयों के साथ मरना भी भला ।”

“भूदेव, हों यह बात है ,
पर सख्य क्या उत्पात है ।
निज जन्मभू की भी दुहाई व्यर्थ है ।
क्या जन्मभू है हाथ सो ,
निज मृत्युभू बन जाय जो !
विस्तीर्ण वसुधा भर हमारे अर्थ है ।”

रुक तनिक फिर बोली पृथा—
“अनुशोचना अब है वृथा ।
कुछ हो, सभी निश्चिन्त-तुम वक से रहो ।
जब है तुम्हारे एक सुत ,
तब पाँच हैं मेरे अयुत ,
दूँगी तुम्हें मैं एक उनमें से अहो !”

इस वार दो आँसू चुए
 सब लोग विस्मित-से हुए ।
 द्विज ने कहा—“यह क्या अरे, यह क्या शुभे !
 तुम अतिथि, मुझको मान्य हो ,
 तेजोनिधान वदान्य हो ।
 कंटक हमारा क्यों तुम्हें इतना चुभे ?

देवी ! कहो, तुम कौन हो ?
 क्यों मूर्ति बन कर मौन हो ?
 इढ़ता नहीं देखी कहीं ऐसी कभी ।
 अच्छा रहो, यह तो सुनो ,
 तुम कौन सुत दोगी, चुनो ,
 दोगी तथा कैसे कहो यह तो अभी ?”

“हे विप्रवर ! पूछो न यह ।”
 कुन्ती सकी आगे न कह ,
 वह वाष्प-वेग न सह वहाँ से गत हुई ।
 ठहरी न वह, न ठहर सकी ,
 अति कार्य कर मानों थकी ।
 बाहर अटल थी किन्तु भीतर हत हुई ।

जय भारत

“केवल कहा ही है अभी ,
अविशिष्ट है करना मर्गी ।
पर मन, अभी से तू विकल होने लगा ।
ऐसे चलेगा काम क्या ?
तेरा रहेगा नाम क्या ?
आरम्भ में ही हाय ! तू रोने लगा ।

स्वामी गये शिशु छोड़कर ,
राजत्व उनका जोड़कर ,
वह भी गया, अब हाय ! क्या सुत भी चले !
प्रभु, क्यों सुभे इतना दिया ,
जो फिर सभी लौटा लिया ,
छलकर सुभे क्यों आप अपने से छले ?”

हठ भक्ति रख भगवन्त में ,
हलकी हुई वह अन्त में ,
हाँ, बढ़ गई उसकी सहज गम्भीरता !
जब वीर पुत्रों से मिली ,
तब फिर तनिक काँपी हिली ।
पर, अन्य क्षण मानों प्रकट थी धीरता !

जो था हुआ सब कह गईं ,
 सुत-समिति विस्मित रह गईं ।
 बोले युधिष्ठिर तब कि “माँ, यह क्या किया ?
 पर-हेतु मरने के लिए ,
 निज सुत, विना अकथक किये ,
 किस भाँति भेजेगा तुम्हारा यह हिया ?”

“सुभको समझ पड़ता नहीं”
 माँ ने दिया उत्तर वहीं ।
 “यह हृदय ऐसा ही बना है, क्या कहूँ ?
 ऐसा जटिल, पूछूँ किसे ,
 विधि ने बनाया क्यों इसे ,
 अबला रहूँ मैं और हा ! सब कुछ सहूँ ?

यह दैव का अन्याय है ,
 पर वत्स, कौन उपाय है ?
 पृथ्वी न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा ।
 रण में मरण तक के लिए ,
 पति-पुत्र को आगे किये ,
 करती विसर्जित गर्व कर हम कर्कशा ।”

सहदेव तब आगे बढ़ा -
“माँ, दो सुके ऊँचा बढ़ा।”
माँ ने कहा—“बेटा, तुम्हें बलि दें, रही,
दो पुत्र भाद्री ने जने,
दो ही रहें मेरे बने,
अब इस विषय में कुछ न तुम सुझाते कहो।”

तब वीर अर्जुन ने कहा,
“माँ, तुम सुके भेजो, अहा !
सब जानते हैं पार्थ मेरा नाम है।”
पर भीम ने रोका उन्हें,
सभ्रम अवलोकता उन्हें,
“ठहरो तनिक तुम, भीम का यह काम है।

खुजर्ली मिटैगी कल जरा,
हो जायगा भुजबल हरा,
दुर्दान्त पापी दैत्य मारा जायगा।
पक्वाच जो बक के लिए,
बलि-संग जाते हैं दिये,
माँ, स्वादु उनका भी सुके हो आयगा।”

सब भय हँसी में उड़ गया ,
पर दिन वहाँ दल जुड़ गया ।
जनरव उठा—“वक मर गया, वक मर गया !”
हँस भीम बोले—“तात हो !
कर घात कोई रात को
उसको नगर के द्वार पर है धर गया ।”

लक्ष्य-वेध

“उतरा है मेरा भार अहा !”
पाकर माँ ने मन्तोष कहा—
“पाया जिस पुर में प्यार घना
हमसे उसका उपकार घना ।
ध्रुव बहुत रह लिये यहाँ, चलो ,
निर्भय हो, चाहे जहाँ चलो ।
घर से निकलों का लाभ यही ,
घूमें वे जितनी अधिक मही ।
नव दृश्यों से निज स्वागत हो !”
तब धर्मराज बोले नत हो—
“जो-आज्ञा, माँ, किस ओर चलें ?
निज मुक्त चतुर्दिक फूल फलें ।”
“गुण-रूप-शील सब में धन्या
पांचाल राज्य की मख-कन्या
कृष्णा का सुना स्वयंवर है ,
वह भूमि भाग भी सुन्दर है ।

यह मेला भिन्न प्रदेशों का ,
 बहु वर्ण-रूप बहु वेषों का
 चल देखो तुम भी क्यों न वहाँ
 सर्वाधिक सुकृती कौन कहाँ ।”

जाना था फिर भी खेद हुआ ,
 स्वजनों का-सा विच्छेद हुआ ।
 इतने दिन जो रह लिया गया ,
 सन्तोष उसी पर किया गया ।
 पाकर पथ-संगी नये नये ,
 सुख-पूर्वक ही वे लोग गये ।
 रस पाकर पंथ-कथाओं का
 करते विस्मरण व्यथाओं वा ।
 बहु गिरि - वन - गाँव - नदी - नाले ,
 उनके पड़ाव-से थे डाले ।
 तप ने छाया का काम किया ,
 जिसने उनको विश्राम दिया ।
 रवि-चन्द्र वही थे उगे जगे ,
 कालक्रम से कुछ नये लगे ।
 पानी न लगा उनको श्रम से ,
 श्रम खला न मारुत के क्रम से ।
 वे ठहरे, ठौर पवित्र हुए ,
 गंधर्व शत्रु फिर मित्र हुए ।

जय भारत

ऊँचे उनके प्रारब्ध हुए ,
श्रृषि शौम्य पुगेहित लय हुए ।
नव नव अनुभव सत्तान भिन्ने ,
अद्भुत उदार आनयाप रिन्ने ।
सुख सुखि वसिष्ठ की उवाचनया ,
नयनाम्बु सुविष्टिर का न थमा ।

मुनि वर वसिष्ठ-सुत शक्ति सदाप ,
जाते थे वन-पथ से सहस्रय ।
मिल गया उन्हें अमिषुख आगत ,
कल्माषपाद नृप मृगया रत ।
वह पैर पटक कर आहट कर ,
बोला—'बटु, पथ छोड़ी हटकर !'
उत्तर पाया—'मैं वष्ट करूँ ,
क्या तुमको धर्मभ्रष्ट करूँ ?
तुम भूप, किन्तु ब्राह्मण हूँ मैं ,
तुम से पथ न लूँ. तुम्हें दूँ मैं ,
तो विनय तुम्हारा हत होगा ,
मेरा गौरव भी गत होगा ।'
'मैं शासक हूँ,' 'यह जान लिया ,
पर किसने यह पद तुम्हें दिया ?
हम वेदविदों के ही तप ने ,
तुम शासक किन्तु प्रथम अपने !

तुम मार्ग छोड़ तुड़वाते हो ,
 विधि स्वयं तोड़ तुड़वाते हो !
 पर भूलो तुम निज धर्म भले ,
 मुझसे मेरा अधिकार पले !”
 मद-मत्त नृपति तब तप्त हुआ ,
 कर कशाघात अभिशप्त हुआ ।
 “तूने यदि यही मार्ग खोजा ,
 तो जा, तू राक्षस ही हो जा !”
 नृप ने नवीन उत्पात किया ,
 राक्षस हो मुनि का घात किया !
 “ले तब यह राक्षसत्व मेरा ,
 हो तूस रक्त पीकर तेरा !”
 यह करके भी क्या तुष्ट हुआ ,
 वह दुष्ट और भी रुष्ट हुआ ।
 शक्त्यनुज अशेष वशिष्ठ तनुज
 खा गया मार कर मनुज-दनुज ।

मुनि आत्मघात भी कर न सके ,
 सुत-शोक-दग्ध भी मर न सके ।
 जड़ न थे, चेतना थी उनमें ,
 भरपूर वेदना थी उनमें ।
 फिर भी उनमें प्रतिशोध न था ,
 होकर भी मानो बोध न था ।

सम्मुख थी विधवा बहू मती ,
 मर सकी न वह भी गर्भवती ।
 अवशेष उन्हींमें था कुल का ,
 ज्यों स्वाति शुक्ति-मुट में दुलका !
 राक्षस उसकी भी सह न सका ,
 आक्रमण विना वह रह न सका ।
 कैप उठी बधू घन-गर्जन सुन ,
 बोली वक्षिष्ठ से वह सिर धुन—
 “हा तात ! तुझे पिय प्राण नहीं ,
 पर अब निज कुल का प्राण नहीं ।
 निष्क्रिय तुम हाय ! शक्ति रहते ,
 तपते हो और स्वयं बहते ।
 तुम करो एक हुंकार यहाँ ,
 तो इस राक्षस की द्वार कहाँ ?
 क्या कहूँ और, अनुरोध धरो ,
 क्षण शोक छोड़ कुछ क्रोध करो ।”
 “हा बहू, आज मैं क्रोध करूँ ,
 अथवा लज्जा से डूब मरूँ ?—
 मेरे महान मनु का मानव ,
 बन बैठा आज यातु-दानव !
 मैं लूँ इसमें प्रतिशोध स्वयं ?
 पर यह तो है हतबोध स्वयं !
 मैं क्रोध करूँ वा दया करूँ ?
 पर पहले तेरा प्राण हरूँ ।”

तब तक राक्षस आ गया निकट ,
 वर्धित जिसके नख-केश विकट ।
 खर दृष्टि और स्वर दुद्धर था ,
 परिणत पशुत्व में ज्यों नर था !
 मुनि बोले—“हा हतभाग्य, ठहर !”
 रुक गया वहीं वह हहर-थहर ।
 “मैं तुम्हें शाप क्या दूँ, वर ले ,
 अपने को फिर मनुष्य, कर ले !”
 लेकर स्वकमंडलु से थोड़ा ,
 उसपर मुनीन्द्र ने जल छोड़ा ।
 जल पहुँचे, तब तक पाप धुले ,
 उस शाप-वृद्ध के भाग्य खुले !
 तब वह सोता-सा चौंक पड़ा ,
 निज स्वप्न सोच रह गया खड़ा ।
 फिर चिह्नाया—“मैं जला जला !”
 वह मनोरत्नानि से गला गला ।
 “हा देव ! मुझे मारो मारो ,
 इस जीवनाग्नि से उद्धारो ।
 यह भूल गया तुम-सा बुध क्यों ,
 जो बीत चुका उत्तर्का सुध क्यों ?
 यदि सुम्ह-सा अधम अनाचारी ,
 गुरुदेव-दया का अधिकारी ,
 तो जिऊँ भूल निज दानवता ,
 जो लजे न मेरी मानवता ।

हे देव, मिले विस्मरण मुझे,
अन्यथा भला है मरण मुझे।”
रोकर पैरों पर भूप पड़ा,
मुनि भूल गये निज क्लेश कड़ा।
“हा तात, उठो धीरज धरके,
जीतो निज पाप पुण्य करके।
फँस कर जद्य बचे पंक से तुम,
उबरो अब निज कलंक से तुम ?
यह जीवन क्या मरणार्थ मिला,
वा तारणार्थ तरणार्थ मिला !
आवे तब मृत्यु भले आवे,
क्यों अमृत - पुत्र मरने जावे ?
तुम जियो और निज धर्म धरो,
सौ वर्षों तक शुभ कर्म करो।”
सुन सबके अश्रु लगे गिरने,
“आहा हा !” कहा सुधिष्टिर ने।

मुनि पौत्र पराशर ख्यात हुए,
नृप-दोष उन्हें जब ज्ञात हुए,
सहसा उनमें प्रतिशोध जगा,
दोषी उनको सब लोक लगा।
“वह ब्रह्म-तेज अब भी वैसा,
द्विज जामदग्न्य में था जैसा।

उन्मद न भले अंकुश माने ,
 पर कुश-बल पुनः जगत जाने ।
 दादाजी ऊँचे उठें, चढ़ें ,
पर दंड न हो तो दोष बढ़ें ।
 उत्पन्न करें जो यों मद ही ;
 मिट जावें क्यों न राजपद ही ?
 मेरी जननी वैधव्य सहे ,
 तो फिर सधवा ही कौन रहे ?”
 बोली विधवा माँ विलख अहो ,—
 “हा वत्स वत्स, ऐसा न कहो ।
 हम ऋषि-मुनि हैं, राजन्य नहीं ,
 हमको कोई जन अन्य नहीं ।
 जो गये, रहे वे आने से ,
 क्या हमें किसीके जाने से ?
 समझो समान सबको जी से ,
 पूछो दयालु दादाजी से ।
 तुम न हो किसी जन के तापक ,
 होना है तुम्हें व्यवस्थापक ।
 कोई क्यों सुम्न-सा दुःख सहो ,
 सब सुखी रहो, सब सुखी रहो ।”
 कुन्ती बोली—“बस, और नहीं ,
 उमड़े जी में अब ठौर नहीं ।
 हो गई पूर्ण वह कथा वहीं ,
 बिलमी निद्रा उस रात कहीं ।”

उठ बोला घृष्टदुम्न बली ,
 थी गिरा घहरती घनावर्ती—
 “नीचे प्रतिविम्ब निरख जल में
 भेदे जो लक्ष्य नमःस्थल में ,
 वर वही द्रौपदी पावेगा ,
 शर सूक्ष्म छिद्र से जावेगा ।
 ले पाँच बाण वह वीर बढ़े ,
 जिससे पहले यह चाप चढ़े ।”
 सब चित्र लिखे-से सुनते थे ,
 सिर हिला हिला कर सुनते थे ।
 क्षण भर सचाटा-सा छाया ,
 सहसा किसमें साहस आया ?
 फिर एक साथ बहु वीर उठे ,
 होकर अधीर-से धीर उठे ।
 आस्फानल चारों ओर हुआ ,
 बहु भिन्न रवों का रोर हुआ ।
 सब नृप जब थे वर-पात्र बने ,
 हरि साक्षी द्रष्टा मात्र बने ।
 जो चाप चढ़ाने गया प्रथम ,
 वह चतुर देख निष्फल निज श्रम ,
 सहसा बन गया निपट भोला ,
 माथे का स्वेद पीछे धोला —
 “धन्वा मैं यन्त्र - भेद कुछ है ,
 लज्जा क्या, मुझे स्वेद कुछ है ।

बल नहीं, यहीं कुछ कौशल है।”
“हाँ निश्चय ही कोई द्युत है।”
यह कहा अन्य निष्फल जन ने,
पर सुना न उसके ही मन ने।
कितनों ने केवल ‘अहा’ कहा,
कोई नत भस्तक मौन रहा।
बल किया एक ने, धनुष भुका,
पर वह दबाव सह कर न रुका।
दे उसने ऊपर को भटका,
घरने वाले को घर पटका।
जो कहा दर्शकों ने हँस कर,
गिरते ने वही कहा फँस कर।
रव हास्य - रुदन का एक ‘हहा’,
कहने से अर्थ-विभेद रहा।
तब तुच्छ समझ भवको रज-सा,
उठ गर्वित कर्ण चला गज-सा।
जब तक न लक्ष्य उसने साधा,
दी स्वयं बधु ने ही बाधा।
“मैं वरूँ भले भिक्षुक वर को,
वर नहीं सकूँगी इस नर को।
मैं राज-भुता, यह सूत-तनय,
क्या नीति करेगी आप अनय?”
रख दिया कर्ण ने धनुष वहीं,
“सचमुच तू मेरे योग्य नहीं।

तू मन से भी अबला नारी ,
 जा भिन्नक वटु पर ही वारी ।”
 गर्वित ही गया कर्ण दानी ,
 उपहास्य हुआ क्या वह मानी ?
 इसके पीछे आश्चर्य बड़ा ,
 द्विजवटु ही आता दीख पड़ा ।
 वह भिन्नक, दाता से बढ़कर ,
 झुक गया चाप उससे चढ़कर ।
 सब सभा देख कर चकित हुई ,
 स्थिरदृष्टि द्रौपदी थकित हुई ।
 स्मर के-से वे शर पाँच लगे ,
 जन तपे क्यों न जब आँच लगे !
 धन्वी सुमन्त्र-सा घूम फिरा ,
 वह चुप, सब बोले ‘लक्ष्य गिरा’
 भ्रमलक्ष्य गिरा, भ्रम - केतु उठा ,
 पर क्या वर के ही हेतु उठा ?
 रह गये सभी आँखें खोले ,
 हँस हेर हली से हरि बोले—
 “भैया, क्या अब भी संशय है ,
 यह विजयी स्वयं धनंजय है ।”
 “तब दुगुना हर्ष” हली बोले—
 “पर कुरुकुल सावधान हो ले ।”

जय भारत

जय माला कृष्णा ने डाली ,
उठ मिली पार्थ को पुलकाली ।
मानो दो भुज गल-हार हुए ,
फिर भी क्या वे स्वीकार हुए ?
हँस वार वीर ने हीरे-से ,
भुक कहा बधू से धीरे-से ।
“मैं हूँ निज धर्मदेव-सेवी ,
तुम मिलीं मुझे मेरी देवी ।
पर ठहरो यह जन-रव कैसा ,
लगता है कुछ आहव ऐसा ।”
वे ही थे सबके लक्ष हुए ,
ब्राह्मण - बाहुज दो पक्ष हुए ।
विप्रों ने निज महत्त्व माना ,
अपमान क्षत्रियों ने जाना ।
ध्वज तुल्य द्विजों के पट फहरे ,
क्षत्रिय सरोष घन से घहरे ।
“द्विज भी यदि करे शस्त्र धारण ,
तो वह भी सहे मरण - मारण ।”
दृग चौक धनंजय के चमके ,
भुज ठोक भीम तड़के तमके ।
“सब्रद्ध सदा हम भय - मेदी ,
ब्राह्मण क्यों नहीं धनुर्वेदी ।
भृगुराम, द्रोण हैं, हम भी हैं ,
रखते शम-दम विक्रम भी हैं ।

तुम 'कौन कौन' हो क्या कहते ,
 सुर भी. इस भू पर हैं रहते ।
 है इष्ट सहज ही शान्ति हमें ,
 पर कठिन न समझो कान्ति हमें ।
 आक्रान्ता नहीं प्रकृति से हम ,
 सबके शुभेच्छु धी - धृति से हम ।
 पर यदि कोई आक्रमण करे ,
 तो हमें दोष क्या, लड़े-मरे ।”
 हरि सहित बीच में लोग पड़े ,
 फिर जयी हुए वे विना लड़े ।
 शिशुपाल कर्ण मगधेश बली ,
 सब रुके किसीकी कुछ न चली ।
 बहुतों को पहले ही भय था ,
 अज्ञात शक्ति से संशय था ।
 जय-दृष्टि धनंजय ने फेरी ,
 प्रत्यक्ष विजय - लक्ष्मी हेरी ।
 “मैं पार्थ” कही भुक्त मृदु वाणी ,
 “तुम डरी तो नहीं कल्याणी ?”
 गद्गद कृष्णा कुछ कह न सकी ,
 हिल गई मात्र ग्रीवा उसकी ।
 वह और समीप खिसक आई ,
 पातिव्रत पर प्रियता छाई ।
 दीखा सर्वत्र सुहाग भरा ,
 अम्बर तक था अनुराग भरा ।

ध्रुव तारक दुगुना चमक उठा ,
 सन्ध्या का माया दमक उठा ।
 “क्या लाभ यहाँ की हलचल से ,
 हम बचें श्यों न इस कल कल से ?”
 “प्रस्तुत ही प्रभो, मुझे जानो ,
 अनुचरी, सहचरी जो मानो ।”
 गज-गमन सिखाती-सी वर को ,
 चल पड़ी बधू उसके घर को ।
 वर मार्ग दिखाता था आगे ,
 भय-विघ्न प्रथम ही थे भागे ।

बढ़ धर्मराज ने कहा प्रथम ,
 “माँ देखो, क्या कुछ लाये हम ।”
 “सब मिला-मुझे, जो तुम आये ,
 पाँचों मिल भोगो, जो लाये ।”
 “माँ,” कहा भीम ने “हरे. हरे ,
 यह तुमने क्या कह दिया अरे ।”
 सिर उठा उठी माँ घबराई ,
 त्यों ही समझ कृष्णा आई ।
 “माँ, यह कृष्णा,” कह पार्थ रुके ,
 लेने उनकी पद धूलि भुके ।
 कृष्णा भी भुकी यथा द्वाया ,
 माँ सन्न रही यह क्या माया ।

बल करके सँभल उसी पल में ,
 भर कृष्णा को अंकस्थल में ,
 वात्सल्य दुग्ध भर अंचल में ,
 वह बह-सी चली नयन जल में ।
 “आगई राजलक्ष्मी मेरी ।”
 “आयें, परन्तु बन कर चेरी ।”
 कृष्णा विनम्र हो सुसकाई ,
 इतने में एक गिरा आई ।
 “बच निकले जो दुर्योधन से ,
 वे धरे गये निज हरिजन से !”
 “आहा ! यह मेरा माधव है ,
 सौभाग्य निरन्तर नव नव है ।”
 फिर फिर कुन्ती के चक्षु चुए ,
 तब तक आ हरि ने चरण छुए ।
 हँस मिले यथाविधि वे सबसे ,
 बोले—“सचिन्त था मैं कब से ?”
 “शुभचिन्तकता तव तात वही ,
 हम सबकी संरक्षिका रही ।
 तब तो यह सुख का सिन्धु मिला ,
 मेरी गोदी में इन्दु खिला ।
 पर नयी समस्या भी सुन लो ,
 सब उसका समाधान गुन लो ।
 “माँ, देखो हमने क्या पाया ,
 कहता अजातरिपु था आया ।

निकला सहसा मेरे सुख से ,
जो पाया, मिल भोगो सुख से ।
‘हा’ कहा भीम ने उसको सुन ,
तब आया बधू सहित अर्जुन ।
शंकित है मनःप्राण मेरा ,
क्यों कर हो परित्राण मेरा ।”

पीली - सी पड़ी बधू निकला ,
तनु रक्त घर्म बन वह निकला ।
वह संभल गई गिरती गिरती ,
तब भी अथाह में थी तिरती ।
बोले धर्मात्मज धृतिशाली ,
वर पार्थ बधू है पांचाली ।
दो वरज्येष्ठ का पद पावें ,
दो देवत्व पर बलि जावें ।
भोगें यों पाँचो सुख इसका ,
ताकें सदैव शुभ सुख इसका ।”
सुन धर्म - वचन हरि सुसकाये ,
तब अर्जुन यों आगे आये ।
“मैं कृष्णा को लाया भर हूँ ,
परिवेत्ता नहीं सुदेवर हूँ ।
अब शेष आर्य शासन लाना ,”
“पर क्या वह मुझे अलग पाना ।

लूंगा क्या राज्य अकेला मैं ,
 मिल कर ही खाया - खेला मैं ।”
 रुक गये युधिष्ठिर यह कह कर ,
 विधि बोल रहा था रह रह कर ।
 हरि बोले- “मेरी भली बुद्धि ,
 जो हो सकता था वही हुआ ।
 पूछेंगे हम द्वैपायन से ,
 उन सब ज्ञानों के गायन से ।
 तूमसे भी व्यग्र द्रुपद का मन ,
 अब चलो चलें हम राजभवन ।
 मैं कह आया उनसे जैसा ,
 वे देखें, वह यथार्थ वैसा ।
 कृष्ण, मेरे मुनि के होते ,
 क्यों प्राण बहिन, तेरे रोते ।
 फिर कहे न कोई कुविचारी ,
 तू मन से भी अबला नारी ।”
 “क्या करना होगा तात, मुझे ?
 बतला दो सीधी बात मुझे ।
 यह खिसक रहा भूतल मेरा ,
 आदेश तुम्हारा बल मेरा ।”
 “आदेश व्यासजी ही देंगे ,
 हम सब सहर्ष उसको लेंगे ।
 सम्मान उचित उनकी धृति का ,
 मैं भावुक हूँ जिनकी कृति का ।”

“भावुक वा स्वयं भान उनके ?”
हँस पड़े जनार्दन यह सुनके ।
“हो चाहे पंच - पुरुष - भार्या ,
तू आर्याओं की भी आर्या ।”

इन्द्रप्रस्थ

“जिनका अशौच हम लोग थे मना चुके ,
और प्रजा संग राज-शोक थे जना चुके ,
प्रकट हुए वे अकस्मात् निज प्रेत-से !
पापी बच निकले हैं जलते निकेत से ।
शेष थी कपाल-क्रिया-होनी अभी उनकी !
उसके विना क्या गति होगी कभी उनकी ?”
दाँत पीस दुर्योधन डोल उठा कक्ष में ;
“किंवा स्वयं दैव है क्या पांडवों के पक्ष में ।
तो क्या नर - यत्न व्यर्थ, भाग्य ही प्रधान है ?
कर्ण, निज पौरुष का यह अपमान है ।”
कर्ण बोला—“पौरुष प्रकट ही हुआ कहाँ ?
कौशल ही काम नहीं देता है जहाँ-तहाँ ।
छोड़कर आश्रय अनावश्यक बल का ,
देखा जाय क्यों न परिणाम सीधे बल का ?
वीर की ही वसुधा है, वीरव्रत पालें हम ,
हाथ हैं तो कर्म की भी रेख मिटा डालें हम ।

भाल पीटने से भाल-लेख नहीं मिटता .
 दुर्बल ही दैव के प्रहार से है फिटता ।
 पांडवों से दंड लिया जाय इसी बात का .
 छिप क्यों उन्होंने हमें दोषी किया घात का ।
 उनसे निपटने को इतना ही थोड़ा क्या ,
 सन्धि ही सुलभ नहीं, विग्रह का तोड़ा क्या ?”
 हंस के शकुनि बोला—“युद्ध अभी टाल दो ,
 द्रौपदी को लेकर लड़ें वे भेद डाल दो ।
 सुन्द उपसुन्द सम पाँचों वे लड़ें मरें ,
 देखें हम तट से, भवाच्चि जैसे वे तरें ।”
 “किन्तु उन भाइयों में भेद कौन डालेगा ,
 संग किस पांडव का द्रौपदी को सालेगा ?
 जब वह पाँच पति मान चुकी एक वार .
 तब इस लाभ को क्या छोड़ेगी किसी प्रकार ?
 उनकी अभेदता उसीमें तो खुली खिली ,
 भाग्य से ही वे उसे मिले, वह उन्हें मिली ।
 व्यर्थ यह चेष्टा, व्यर्थ इसका स्मरण भी ,
 जीवन भी एक और उनका मरण भी ।
 जितना विलम्ब होगा साधना में लक्ष्य की ,
 होगी उतनी ही बल - वृद्धि उस पक्ष की ।”
 दुःशासन बोला—“वे बचे तो बचे पाँच से ,
 दग्ध हुआ एक सदाचार उन पाँच से ।
 पाँच वर एक वधू कैसी कृतकार्यता !
 इससे अधिक और होगी क्या अनार्यता !”

उसने बनाया मुहँ मानो सना कीच में ,
 उसके विरुद्ध यों विकर्ण बोला बीच में—
 “मानी गई मों की वह आज्ञा अनजानी भी ,
 और व्यवस्थापक थे व्यास ऐसे ज्ञानी भी ।
 कहते हैं, पाँच वार वर था महेश का ,
 और अनुमोदन था आप हृषीकेश का ।
 पाण्डवों के मन में ग्लानि नहीं होती है ,
 तो मैं मानता हूँ, धर्म-हानि नहीं होती है ।
 क्या व्रत नियम में ही धर्म नहीं पलता ,
 और अपवाद तो है सब कहीं चलता ।
 पाँच तत्व से वे एक, आत्मा वह उनकी ,
 यों वे मानते थे क्या न उसको अर्जुन की ।
 व्यक्तिगत रूप में रहें वे निज विधि से ,
 मर्यादा स्वयं ही तो बँधी है नीरनिधि से ।”
 दुःशासन बोल उठा उग्र उष्ण भाव से—
 “लोग बल पाते हैं बड़ों के बरताव से ।”
 “भैया वे बड़े हैं जिन सद्गुणों को जोड़ के ,
 लोग बल पायेंगे इसीमें इन्हें छोड़ के ।
 तो वे जिस राज्य के हों, सारा दोष उसका ,
 रिक्त जन - शिक्षा के लिए है कोष उसका ।
 गारुडिक-सा जो साँप धरने को धावेगा ,
 अपने ही आप वह मरने को जावेगा ।
 विष को भी अमृत भिषग्वर बनाते हैं ,
 अज्ञ अनुकारी निज मृत्यु ही बनाते हैं ।

द्रौपदी से तुलना क्या साधारण नारी की ,
 जननी है यज्ञवेदी जिस सुकुमारी की ।
 बान है युधिष्ठिर की जो कुट्ट भी लेंगे वे ,
 उसमें समान भाग भाइयों को देंगे वे ।
 जो हो, पुरुषों में प्रेम - वैर सब ठीक है ,
 स्त्री तो हम सबकी समान लज्जा-लीक है ।”
 दुर्योधन बोला—“यह आपस का युद्ध है ,
 मत क्या विकर्ण, तेरा कर्ण के विरुद्ध है ?”
 “दीजिये न आर्य, कोई आज्ञा मुझे चुन के ,
 मैं सौभ्रातृ से ही तो प्रभावित हूँ उनके ।”
 “मानता हूँ, मन से तू मेरा अनुगत है ,
 तो अब वही हो अंगराज का जो मत है ।”

देता रहा मोह जिन्हें अन्त तक यन्त्रणा ,
 अन्धनृप को भी जँची कर्ण की कुमन्त्रणा ।
 किन्तु भीष्म-द्रोण का समर्थन भी इष्ट था :
 उनसे न पूँछना तो पूछने से क्लिष्ट था ।
 भीष्म बोले—“मेरे प्रिय दोनों पक्ष एक-मे ,
 दोनों का भला है आज एक के विवेक से ।
 सर्वनाश रोकने को यों भी अर्द्ध त्याज्य है ,
 स्वत्व से भी दोनों का समान यह राज्य है ।”
 द्रोण बोले—“तुमने तो मेरी बात कह दी ,
 दुर्योधन, वरस, कही मानों पितामह की ।

ये गुरु-जनों के भी तुम्हारे गुरुजन हैं ,
 इस घर के ही नहीं, धरती के धन हैं ।”
 “वस्तुतः” विदुर बोले—“दुर्योधन, सुन लो ,
 अर्द्ध जो नहीं तो सर्व, दो में एक चुन लो ।
 दर्प रहने दो, नय-विनय न छोड़ो तुम ,
 दौड़े मन उचित दिशा में, उसे मोड़ो तुम ।
 कर्णों से सुनो भी किन्तु नेत्रों से निहारो तुम ,
 हार के भी जीतो, कभी जीत के न हारो तुम ।
 भूटे तर्क त्याग सच्ची श्रद्धा से विचारो तुम ,
 डूबने चला है कुल, तात, उसे तारो तुम ।
 सारा देश दग्ध होगा इस गृह-दाह में ,
 कौन उहरेगा सार-धारा के प्रवाह में ?
 वे आदर्श, वे संस्कार, हा ! वह परंपरा ,
 खोकर मिली भी तो रहेगी धूल ही धरा !
 भोगोगे तुम्हीं तो, रहे राज्य युधिष्ठिर का ,
 भार ही बढ़ेगा उस भावुक के सिर का ।
 होता कुल-धर्म यदि बाधक उसे नहीं ,
 पाते सिद्ध रूप में ही साधक उसे कहीं ।
 होता है कभी ही कहीं ऐसा कृती लोक में ,
 नर वह दुर्लभ है अमरों के अोक में ।
 उसकी दया को भले दुर्बलता कह लो ,
 उसके समान एक वार भी तो रह लो !
 वार वार द्वेष कर देखा तुमने जहाँ ,
 एक वार प्रेम करके भी देख लो वहाँ ।

माइयों से मिलने को कौन तुम्हें रोकेगा ?
जाने से सुमार्ग में किसीको कौन टोकेगा ?
पौत्र हो उन्हींके तुम, आता है कल्पना,
त्याग दिया आप ही जिन्होंने राज्य अपना ।
राजा भावि वैमात्रेय बन्धु को बना दिया,
औरस विवाद से विवाह भी नहीं किया ।
भाग्य से वे हममें विराजमान अब भी,
उनकी कृपा से ही हुए हैं हम सब भी ।
श्रुत नहीं, साक्ष्य युत उनका जो त्याग है,
सोचो यह स्वार्थ क्या तुम्हारा दाय भाग है ?
लाभो निज तात का ही त्याग टुक लक्ष में,
सौपा था जिन्होंने राज्य योग्य भ्रातृ पक्ष में ।
क्या पिता की भूल मान तुम यों सुधारोगे ?
जान रखो, दुष्कृत से जीत के भी हारोगे ।
प्रज्ञाचक्षु पृथ्वीनाथ, आप भी विचारिये,
ऐसी कुल-रीति पर क्या कुछ न वारिये ?
किन्तु यहाँ खोना नहीं, सब कुछ पाना है,
अब भी अनीति हो तो फिर क्या ठिकाना है ?
भाग्य है जो पांडु-सुत जीते हैं भले भले,
लोग कहते थे—'वे हमारे छल से जले ।'
और जो उन्होंने द्रौपदी-सी बहू पाई है,
सोचिए तो, इसमें भी अपनी बड़ाई है ।
उनको बुला के अर्द्ध राज्य अभी दीजिए,
और सर्वनाश से सभीको बचा लीजिए ।

न्याय निरतों को कभी निर्बल न जानिए ,
 पार्थ को नहीं तो कृष्ण को तो पहचानिए ।”
 बोले धृतराष्ट्र—“बात ठीक है विदुर की ,
 व्यक्त करूँ कैसे भावना मैं इस उर की ?
 आधा राज्य लेके पाँच पांडव सुखी रहें ,
 आधा रहे सौ के लिए, मेरे मान्य जो कहें ।
 जाओ, तुम्हीं लाओ उन्हें देकर उलहना ,
 ‘तुम घर छोड़ कहाँ घूमा किये ?’ कहना ।
 ‘तुमने पुरोचन को जीता भी जलाया हो ,
 तो भी क्यों न तुम पर मेरी क्षमा छाया हो ?’
 आगे कुछ कहना वा सुनना नहीं मुझे ,
 आपस की आग जलने से पहले बुझे ।
 दुर्योधन तुल्य मुझे पांडव भी प्यारे हैं ,
 किन्तु भाई भाई कहाँ होते नहीं न्यारे हैं ?”
 विहँसे विदुर भीष्म और देख भेद से ,
 लाये वही पांडवों को जाकर अखेद से ।

इन्द्रप्रस्थ राजधानी निर्मित हुई नई ,
 खण्डव की भीषणता भस्म हो कहाँ गई ।
 वन वह हिंस्र, नाग, दस्युओं का वास था ,
 पाण्डव कृपा से वहाँ पौरों का विलास था ।
 रात रहती थी जहाँ घात भरे दिन में ,
 परिणत दीखा वह नन्दन विपिन में ।

जय भारत

तुम हुए अग्नि देव. नर बन आये वे .
दिव्य पुरस्कार रथ और चाप लाये वे !
पूरा प्यार पार्थ पर अपना जना गये .
आप - सा उन्हें भी वे 'धनंजय' बना गये !
प्राण भिक्षा दी थी जिसे धीर धनंजय ने ,
एक ऐसा धाम रचा शिल्पि वर मय ने ,
आ न सका वैजयन्त तुलना में जिसकी .
ऊँचा ही टँगा रहा, कथा क्या और किसकी ?

वनवास

धर्मराज पति हुए, फली-फूली मही ,
वर्षा पर ही उपज न अवलम्बित रही ,
मणि खनियों ने, लाल जननियों ने जने ,
भर भर जन मांडार बड़े छोटे बने !

रहे एक के साथ द्रौपदी जब जहाँ ,
जाय अवि भर तब न अन्य आता वहाँ ।
जावे तो वनवास वर्ष बारह सहे ,
नृप नियमित तो प्रजा क्यों न नियमित रहे ?
स्तेन्य देन्यगत नहीं, व्यसन भी घोर है ,
पकड़ा जाता किन्तु अन्त में चोर है ।
धरा गया भी गया न वह तस्कर धरा ,
जिसने गोधन एक विप्रजन का हरा ।
द्विज ने सीधे पार्थ-समीप पुकार की ,
आशा थी तत्काल वहाँ उद्धार की ।

सुन आतुर हो पार्थ शत्रु लेने चले .
 पुरुषार्थी भी गये दैव से वे हले !
 रक्षते थे युग धनुर्बाण उनके वहाँ ,
 धर्मराज युत आज द्रौपदी थी वहाँ ।
 फिर भी जाते हुए वहाँ क्या वे रुके .
 देख अजिर में धर्मराज को फट मुके ।
 कहें युधिष्ठिर उन्हें देख जब तक 'अये !'
 धनुर्बाण ले लौट वहाँ से वे गये ।
 करके गो-द्विज कार्य सहज ही जब फिरे ,
 उन्हें देख स्वजनाश्रु ये गिरे वे गिरे ।
 डाल घटा पर छटा धूप-सी हास की .
 अर्जुन ने जब कही बात वनवास की ।
 हुए युधिष्ठिर विकल—“जाय यह आपदा ,
 मेरे द्वारा स्वयं क्षम्य हो तुम सदा ।
 दोषी मेरे निकट तनिक भी तुम नहीं ।”
 “पर अपने ही निकट न होऊँ मैं कहीं ।”
 यह कह कर सिर झुका दिया नर-वीर ने—
 “स्वयं आपसे सुना”—कहा फिर धीर ने—
 “देंगे जन दृष्टान्त हमारा कर्म में ;
 चल न पड़े छल-कपट हमीसे धर्म में ।”
 अर्जुन विचलित हुए न उस व्रत-पर्व से .
 गर्वित भी जन व्यग्र बने इस गर्व से ।
 कृती राजकुल स्वकर्तव्य था पालता ,
 पर अर्जुन का सोच शत्रु-सा सालता ।

हुई प्रजा की वृद्धि बुद्धि-बल-वित्त में ,
रक्षक-चिन्ता रही उसे भी चित्त में ।

किसे न दुःखद स्वगृह-यास-वर्जन हुआ ?
पर अर्जुन को संग संग अर्जन हुआ ।
कितने अनुभव और नये परिचय हुए ,
प्रणय पूर्ण सम्बन्ध सहज सुखमय हुए ।
हुई बोधनिधि-वृद्धि नाम-गुण-रूप की ,
मरु-यात्रा भी रही रसाद्र अन्वेष-सी ।
सिन्धु विपुल वा भूमि, उन्हें संशय हुआ ,
जा दोनों ने दूर छोर नभ का हुआ ।
लगी कुतूहलमयी उन्हें वन-रीतियाँ ,
पर वे विस्मित हुए देख हठ नीतियाँ ।
वन की पुर की रहें विभिन्न प्रतीतियाँ ,
पर दोनों में पत्नी एक - सी प्रीतियाँ ।
मिले प्रकट-से पूर्ण प्रकृति-दर्शन उन्हें ,
उपवन लघु ही लगे देख कर वन उन्हें ।
फिर भी वे यह सत्य भूलते क्यों भला-
सहज सृष्टि - संस्कार कारिणी है कला ।
ठौर ठौर पर उन्हें अतीत-स्मृति हुई ,
पूर्वजनों की जहाँ कीर्तिकर कृति हुई ।
गत-चिह्नों ने दिये चरित चुन चुन उन्हें ,
रूप-कल्पना हुई नाम-गुण सुन उन्हें ।

तीन दिशाओं में पयोधि परिखा बने ,
 उत्तर में हिम-दुर्ग, शिखर जिमके तने ।
 बहु वेशों में एक देश दर्शित हुआ ,
 सबमें एक निजत्व उन्हें स्पर्शित हुआ ।
 मोती का तो मजल ऊपरी भाग भर ,
 पर थे सरम समूल प्रफुल्ल तड़ाग-सर ।
 बने विभिन्न प्रवाह भूमि के हार थे ,
 निर्मल निर्भर मधुर अद्रि-उद्गार थे ।
 कन्द-मूल-फल रुचे स्नेह मय भाव से ,
 व्यंजन भूले उन्हें ग्रहण कर चाव मे ।
 मिला जनों को अभय, उन्हें जय जय भिला ,
 सचमुच शब्दातीत अर्थ संचय भिला ।
 तीर्थ मनुज के सहत् कर्म के क्षेत्र हैं ,
 सफल इसीमे उन्हें देख नर - क्षेत्र हैं ।
 अर्जुन उनका योग छोड़ने क्यों भला ?
 तन का मन का पुलक जहाँ वह-सा चला !
 लाभ हुआ सर्वत्र उन्हें सम्मान का ,
 भरा उन्होंने पात्र मिला जो दान का ।
 प्रश्न उलूपी नागसुता का था कड़ा ,
 उसको भी ऋतु-दान उन्हें देना पड़ा !
 मणिपुर की थी राजसुता चित्रांगदा ,
 भूप उसीको पुत्र मानता था सदा ।
 पहुँच पार्थ ने वहाँ प्रणय-परिणय किया ,
 उसका फल दौहित्र देशपति को दिया ।

सबके पीछे गये धनंजय द्वारका ,
 जो भवाब्धि की तीर तरी जन तारका ।
 हरि-दर्शन कर सफल उन्होंने व्रत किया ,
 फिर प्रसाद-सा प्रेम भरा आदर लिया ।
 उनको लेकर वहाँ महायोजन हुआ ,
 नृत्य - गान - उद्यान - पान - भोजन हुआ ।
 सब दुगुनी - सी छान विचरते - घूमते ,
 बैठे भी वृन्तस्थ पुष्प - से भूमते !
 वन-विहार के लिए गृहस्थियाँ भी गईं ,
 बहु कुमारियाँ सजी-बजी धज धर गईं ।
 उनमें हरि की बहन सुमद्रा की छटा
 बनी पार्थ के मन-मयूर की रस-घटा ।
 उन्हें जड़ित-सा देख अलग हरि ने कहा—
 “कृती, कौन-सा कर्म यहाँ यह हो रहा ?”
 “हरे, हाय अति गहन कर्म गति, क्या कहूँ ?
 अपना प्रेरक सदा तुम्हें समझे रहूँ ।
 रस-विष जो हो, उसे तुम्हींने है भरा ,
 मिट्टी का घट मात्र तुम्हारा मैं खरा !”
 “सचमुच दुर्लभ बहन सुमद्रा-सी भली ,
 जाय न भोली कहीं स्वयंवर में छली ।
 मूर्तिमती यह प्रकट सरलता सुन्दरी ,
 मैं जिस गुण से रिक्त, उसीसे यह भरी !”

सुन अर्जुन हँस पड़े कृष्ण के संग ही ,
 बोले रुक कर तनिक पुनः श्रीरंग ही ।
 “यही उचित है वीर तुम्हीं वर लो इमे ,
 यह पर घर के अर्थ, क्यों न हर लो इमे ?”
 “हर लूँ ?” सहसा चौक पड़े अर्जुन बली ,
 “रहें दूसरे, इसे सहेंगे क्या हली ?”
 “अर्जुन, क्या यह कार्य तुम्हारा चौर्य है ?
 मेरे मत में चरम साहसी शौर्य है ।”
 “धर्मराज से—” “पूछ लिया मैंने कभी ,
 तुमको मेरे हाथ सौंप बैठे सभी ।”
 “भारत जन के तुम्हीं नियोजक हे हरे !”
 अर्जुन नत हो गये भाल पर कर धरे ।
 यथा समय फिर वहाँ सुभद्रा हृत हुई ,
 वन से ही वह चकित मृगी-सी धृत हुई !
 दी अर्जुन ने स्वयं सुरथ को गति नई ,
 सभय सुन्दरी लिपट उन्हींसे रह गई ।
 निकला सुख से यही “अहो, यों मत लड़ो ,
 मुझको लेकर स्वयं न संकट में पड़ो ।”
 समाचार सुन लगी पुरी में आग-सी ,
 सुभट-दृगों में उठी मृत्यु ही जाग-सी ।
 “घाघ्रो, घाघ्रो, धरो, न भागे खल कहीं ,
 पर यह क्या, श्रीकृष्ण बोलते क्यों नहीं ?”
 “मैं क्या बोलूँ, अन्ध-वधिर सब क्रोध से ,
 झोषो-समझो बात, विचारो बोध से ।

अर्जुन-सा वर कहाँ सुभद्रा के लिए ?
 वह सनाथ, क्या अब अनाथ होकर जिये ।
 नहीं एक ही पक्ष कदापि यथार्थ का,
 साहस भी तो तनिक सराहो पार्थ का ।
 बहुमत वाले देख हमें वह डर गया,
 बलपूर्वक यह कार्य वीर ज्यों कर गया ।
 मानी भी स्त्री-रत्न माँगते हैं अहो !
 किन्तु याचना कहीं विफल हो तो कहो ?
 उसका धरना सहज नहीं, यह जान लो,
 लौटा कर तुम उसे उसीसे मान लो ।”
 सुन कर हरि के वचन हुए सब सन्न ज्यों,
 अर्जुन का उद्वाह हुआ सम्पन्न यों ।
 उनका विनय विलोक दोष भूले सभी,
 पाकर मन में तोष रोष भूले सभी ।
 “जीता तुमने क्रोध, काम मैंने कहाँ ?
 दाता ही तुम रहे, गृहीता मैं जहाँ !
 जब आज्ञा हो, धार्य-चरण-दर्शन करूँ,
 जाकर इन्द्रप्रस्थ सोच सबका हूँ ।”
 सुनकर उनसे कहा हली ने प्रेम से—
 “कैसे रोकूँ, रहो कहीं भी क्षेम से ।
 सबसे मेरा यथायोग्य कहना वहाँ,
 शुभचिन्तक हम सभी तुम्हारे हैं यहाँ ।”
 मिलना ही आनन्द, बिछुड़ना खेद है,
 पुनर्मिलन ही इष्ट जहाँ विच्छेद है ।

नई बधू ले पार्थ घूम घर आ गये .
मूर्तिमन्त-सा पुत्रक वहाँ सब पा गये ।
मिल भेंटें जन यथा रीति छोटे-बड़े .
कृष्णा के दो बोल उन्हें सुनने पड़े-
“वन का व्रत ही धन्य, जहाँ मणिपुर मिले !
नूपुर करें पुकार, क्यों न उड़ उर मिले !
पर जब उसके चरण सुभद्रा ने छुए ,
तब उदार आत्मीय भाव ही स्फुट हुए ।
“तू तो मेरी बहन, नागमणि है कहाँ ?”
“आर्ये चिरकिकरी मात्र मैं हूँ यहाँ ।”
गोप सुता-सी सजी मयूर दुकूल में ,
प्रणत संकुचित देख पुनः पद मूल में ।
परम नागरी द्रुपद - सुता ने प्रीति से ,
उसे अंक में भरा, कहा—“रह रीति से ।”

राजसूय

मयकृत भवन यथा जगती के भवनों में था श्रेष्ठ ,
तथा जनों में धर्मराज थे श्रेष्ठ पांडवज्येष्ठ ।
राजसूय ही हो सकता था इसका प्रकट प्रमाण ,
राजरत्न के लिए यही मख था मानों खर शाण ।
किया स्वयं नारद ने उनको प्रेरित इसके अर्थ ,—
“यही उचित आशा रखते हैं तुमसे पितर समर्थ ।”
शान्तिप्रिय नृप हुए विवश-से सुन सुनिवर की बात ,
गये कृष्ण के शरण—“तुम्हीं हो मेरे तारक तात !”
हरि बोले—“पार्थिव महत्त्व का यह मख मुख्य प्रतीक ।”
“पर बल पूर्वक निज महत्त्व क्या मनवाना है ठीक ?”
माधव सुसकाकर फिर बोले—“यह विचार है व्यर्थ ,
स्वयं श्रेष्ठ को चुन लेने में लोक आज असमर्थ ।
आसपास के स्वार्थों तक ही लोगों के व्यापार ।”
“स्वाभिमान रख सकने का क्या उन्हें नहीं अधिकार ?”
“किन्तु बड़े को बड़ा न कहना है अविनय औद्धत्य ,
और मुकरना है यह उससे जो है निश्चित सत्य ।”

“किन्तु परीक्षा-विना सत्य भी मानें क्यों सब लोग ?
 रक्तपात का ही सुझको तो दीख रहा यह योग !”
 हरि हँस पड़े—“तुम्हारी करुणा छिपन लकी इस वार ,
 बनती है उर्वरा किन्तु यह उर्वी इसी प्रकार ।
 चक्रवर्ति-पद-भार तुम्हींको देख रहा है आर्य !
 थोड़े से थोड़े में भरसक कर लूंगा मैं कार्य ।
 सबके पहले मगधराज वह जरासन्ध ही जेय ,
 उसी एक को जीत बनेंगे हम सौ के श्रद्धेय ।
 सौ भूपों की बलि देने का है उसका संकल्प ,
 वह संख्या पूरी होने में शेष आज भी अल्प ।
 बलि-पशु-से निराश बहु नृप हैं उसके कारारुद्ध ,
 मैं भीभार्जुन तीनों उससे मांगें क्यों न निरुद्ध ।
 सौ का घातक एक भरे तो वह क्या थोड़ा श्रेय ?
 घाते में ही प्राप्त समझिए, है इसमें जो प्रेय ।
 मारा उसे न मैंने पहले, बना गले रणाद्धोड़ ;
 पुण्य-लाभ अब होगा निश्चय पूर्ण पाप-घट फोड़ ।”
 “किन्तु जूझने उस उद्भट से भेज तुम्हें इस भौंति ,
 तुम्हीं कहो, प्रकृतिस्थ रहूंगा मैं घर में किस भौंति ?”
 भीम बीच में बोल उठे—“क्या यही यज्ञ का अन्त ?
 तब क्या कभी नहीं जूझेगा जन्म हमारा हन्त !
 निर्भय हो स्वीकार कीजिए अच्युत का प्रस्ताव ,
 बने कर्म-बाधक न आपका अतिस्नेह का भाव ।
 तात, गोद में ही क्या सुझको रखियेगा चिरकाल ?
 किन्तु खिलौना है अब मेरा जरासन्ध का भाल !”

सब हँस पड़े, प्रेम से उनसे बोले तब श्रीरंग—
 “उसने द्वन्द्व किया यदि मेरे वा अर्जुन के संग ?”
 “तो मैं समझूँगा, डर भागा मुझसे वह दुःशील,
 बड़ा देख कर तुम दोनों से मेरा अनडिग डील !”
 फिर सब हँसने लगे ।

किन्तु था जरासन्ध निर्भीक,
 मल्लयुद्ध के योग्य उन्हींको समझा उसने ठीक ।
 वक-हिडिम्ब से भी विशेष वह निकला प्रबल प्रचंड,
 फिर भी बने भीम के दो भुज मानो दो यमदंड ।
 “पा न सकेगी जरा संधि अब जा सीधे परलोक,
 मेरे योग्य सुभट था तू ही, रहा मुझे यह शोक ।”
 कहते कहते भीमसेन ने किया उसे निष्प्राण,
 अनुगत हुए बद्ध नृप उनके पाकर उनसे त्राण ।
 खुले दिग्विजय के चारों पथ धर्मराज के हेतु,
 चारों ओर चार अनुजों ने फहराये निज-केतु ।
 गये न सिन्धु हिमालय तक ही, करके जल-थल पार,
 लाये वे विभिन्न द्वीपों से विजयोचित उपहार ।
 जीत शत्रुओं को मित्रों-सा दिया उन्होंने मान,
 अपना भाग्य बखाना सबका साहस-शौर्य बखान ।
 राजसूय में धर्मराज यों सबको लगे विनीत,
 हारे-भे वे बरत रहे थे जगती भर को जीत ।
 चतुर्वर्ण क्या, आये मख में मित्र तुल्य ही स्तेच्छ,
 स्वागत पूर्वक पाया सबने उच्चातिथ्य यथेच्छ ।

अतिथि मात्र सब देव रूप थे, जो हों आयें-प्रनार्य ,
 द्रोण-भीष्म की देख रेख में भिन्न हुए सब कार्य ।
 भिक्षु-याचकों से लेकर सब आगत अगणित लोग ,
 जब तक खा पी न लें नित्य ही छक्कर छप्पन भोग ;
 तब तक स्वयं न खाकर कुछ भी, करती हुई प्रबन्ध ,
 लेती रही विवश-सी होकर कृष्णा केवल गन्ध !
 दुर्योधन को धर्मराज ने सौंपा इतना भार ,
 लेकर योग्य सहाय सहेंजे वह आगत उपहार ।
 एक स्वर्ग के अगणित भूषण आकर्षक अभिराम ,
 मणि-रत्नों की आभाओं से उज्ज्वलित था धाम ।
 शस्त्र-वस्त्र नव गन्ध-द्रव्य बहु, विन-मूर्तियों-लेख ,
 हुए चमत्कृत लोग अनल्पित पशु-पक्षी ही देख !
 लुब्ध हुआ ईर्ष्यालु सुयोधन देख द्रव्यमय दृश्य ,
 पुंजीभूत विभावसु मानो बना वहाँ सम्पृश्य ।
 धर्मराज का भुक्ति शेष-सा लगा उसे निज भोज्य ,
 जँचा आप ही अपने में वह उनका एक नियोज्य !

“पूज्य जनों के पग धोने का है मेरा अधिकार ।”
 कृष्ण-वचन सुन हुए युधिष्ठिर गद्गद् भान विमार ।
 “धन्य नम्रता के निधान तुम, होकर भी स्वाधीन ,
 कर बैठे हो आप अखिल में अपना अहम् विलीन !
 धन्य हमारी धरा, जहाँ तुम प्रकट हुए प्रत्यक्ष ,
 नम्र भाव धारण कर हम भी साथे अपना लक्ष ।”

कहा भीष्म ने—“हरे, तुम्हारा पाद्यदान यह धन्य ,
 कौन अर्घ्यभागी इस मख का तुम्हें छोड़कर अन्य ?”
 पर इसमें अपमान मानकर क्रुद्ध हुआ शिशुपाल ,
 कृष्ण-भीष्म दोनों से उसने कहे कुवाच्य कराल ।
 “राजाओं के रहते पूजा जाय गोप का बाल ,
 नष्ट भीष्म की अष्ट बुद्धि के साक्षी हों भूपाल ।”
 हरि फिर भी सह लेते चाहे उसकी वाणी वक्र ,
 भीष्म निरादर कैसे सहता उनका चंचल चक्र ?
 “मैं कुछ नहीं जानता तुम्हको !” कहकर वह जड़ जीव ,
 मौन सदा के लिए होगया क्षण में द्विजप्रीव ।
 हरि ने यही कहा—“तू ही क्या, मुझको जाने कौन ,
 जिसको जाने नहीं ठीक से उसको माने कौन ?”
 जो नृप थे शिशुपाल-पक्ष के सभी रह गये सन्न ,
 दुर्योधन भी सहमा-सा था, हुआ यज्ञ सपन्न ।
 यथा योग्य सम्मान लाभ कर गये अतिथि निज गेह ,
 जिन्हें द्वेष था, मिला उन्हें भी धर्मराज का स्नेह ।
 व्यासदेव से कहा उन्होंने—“मैं कृतार्थ हे तात !
 फिर भी लगता है, न खड़ा हो आगे कुछ उत्पात ।”
 “लक्षण तो हैं ज्ञात कलह के” बोले मुनि सविमर्ष ,
 “बारह बाट करें न नृपों को अगले तेरह वर्ष !”
 “प्राप्य सभी कुछ पाने पर भी आगे रहे अरिष्ट ,
 तो उसका निमित्त बन मुझको जीवन हो क्यों इष्ट ?
 देव, देखना चाहूँ मैं क्यों ज्ञाति-नाश का नृत्य ?
 पुत्रवती द्रौपदी सुभद्रा, हम सब भी कृतकृत्य ।”

“जो हो सो हो, कगे स्वयं तुम निर्भय निज कर्तव्य ,
 भोगो भद्र, यथोचित भव में मिले जहाँ जो भव्य ।
 पावें सब निज कर्मों के फल, तुम यों न हो उदाम ,
 डिगे न बाहर के विषयों से भीतर का विश्वास ।”
 हुए विभर्जित व्यासदेव यों देकर उन्हें प्रबोध ,
 दुर्योधन से किया उन्होंने रुकने का अनुरोध ।
 “रहो तात, पुर में चलकर तुम कुछ दिन मेरे संग ,
 बड़ा हमारा जो कुल-गौरव, भोगो उसे अभंग ।
 कृष्ण-कृपा से हम कुरुओं का फैला यशः-प्रताप ,
 मेरा विभव तुम्हारा, मेरे विभव बना तुम आप ।
 खेद-कलह का मूल हेतु वह भेद कहां भरणीय ?
 जो तुम सबको रुचे वस्तुतः सुझे वही चरणीय ।”
 रुकने को था स्वयं सुयोधन, रुका, किन्तु संयोग ,
 विष बन गये उसे वे रणभय राजभवन के भोग ।
 हुआ कक्ष में घुसते उसको द्वार खुला प्रतिभात ,
 लगा धिन्तु उसके ललाट में स्फटिक कपाटाघात ।
 जल में थल का, थल में जल का देख उसे भ्रमभास ,
 रोक न सके दास-दासी भी आकस्मिक उपहास ।
 कौन कहे, वह हुआ क्रोध से वा लज्जा से लाल ?
 किन्तु बुझी कब, जली हृदय में ज्वाला जो विकराल ?

द्यूत

धुँधा रहा था जो भीतर ही गीला-सा ईधन पाकर ,
हुआ प्रज्वलित दुर्योधन का द्वेषानल झोंका खाकर ।
जलने लगा विवश वह उससे, घर आकर भी शान्ति न थी ,
मय-कृत सभा-भवन में उसको आन्ति मिली, विश्रान्ति न थी ।

जुड़ी अन्तरंगों की गोष्ठी, सबने मिल कर मन्त्र किया ,
धर्मराज को सपरिवार आमन्त्रित कर षडयन्त्र किया !
विग्रह नीचे रख निग्रह कर ऊपर दुगुना मेल रचा ,
मोद-विनोद प्राप्त करने के मिष चौसर का खेल रचा ।
हुई वृद्ध की पूर्ति सभा में एक अन्ध नृप के द्वारा ,
दुर्योधन के अर्थ शकुनि ने धर्मराज को ललकारा ।
“जैसी तुम पंचों की इच्छा, द्यूत न हो मेरा व्रत पूत ,
आये विना नहीं रहता हूँ, जब मैं होता हूँ आहूत ।”
यह कहकर वरवृत्त युधिष्ठिर प्रस्तुत और प्रवृत्त हुए ,
अज्ञ-पटल वा अटल नियति के अंकों के नव नृत हुए ।

ये स्वभावतः सरल युधिष्ठिर, किन्तु शकुनि या छँटा छली ,
 चर्दी भृकुटियाँ भीमार्जुन की, तदपि मौन ही रहे बली ।
 हुंकारों के साथ खेल में क्रम से उत्तेजना जगी ,
 क्षत्रियत्व ने हार न मानी, घात संग ही बात लगी ।
 राजपाट फिर अर्जुन और फिर अपने को भी हार गये ,
 जान न पाये, कृष्णा को भी कब वे पग पर वार गये !
 “वह दिग्विजय-विभव, वह सत्ता थी क्या सपने की माया ?
 मेरा कहने को विशेष क्या, शेष नहीं मेरी काया ।
 उसी ऐन्द्रजालिक से क्या मैं अपनी तुलना करूँ यहाँ ,
 जो रच मायापुरी अन्त में खपर फेरे जहाँ-तहाँ ?”
 करुणा-भरी हँसी वह उनकी गीली थी अथवा सूखी ?
 किन्तु भाइयों की आँखें थी भूखी बाधिन-सी रूखी ।
 कहें भीम कुछ तब तक अर्जुन बोले—“छले गये हैं आर्य ,
 पर माँ की आज्ञा-सी हमको इनकी करनी भी स्वीकार्य ।”

इतने पर भी दुर्योधन ने सुख-सन्तोष नहीं पाया ,
 जाकर दुःशासन कृष्णा को वृक बकरी-सी धर लाया ।
 खेल-बल से व्याकुल कुल-ललना बाष्प-वेग से बकरी-सी ,
 अपने खिंचते केश-जाल में तड़प रही थी शफरी-सी !
 “सुभे एक वस्त्रावस्था में नीच खींच लाया यह घेर ,
 अन्धराज्य में क्या कोई भी नहीं देखता यह अन्धेर ?
 पाप-सभा में ये गुरुजन भी बैठे हैं निश्चल नत भाल ,
 नेत्र मूँद मानें कपोत ज्यों नहीं कहीं भी व्याल-विडाल !”

कहा कर्ण ने—“पद्म-पराजिता दासी होकर इतना दर्प ?”
 “अरे दर्प तो तब करती मैं जब मेरे कच बनते सर्प !
 राजसूय मख में मन्त्रों के जल से जो अभिविक्त हुए ,
 उसके रक्त-विना न बँधेंगे जिससे ये अविविक्त हुए ।
 बल से जीत न सके जिन्हें खल, दलने चले उन्हें झल से ?
 किन्तु कहाँ तक काम चलेगा ऐसे क्लृप्त कौशल से ?
अर्द्ध-नग्न-सी सुभे देखकर आँखें जुड़ा रहे जो आज ,
सावधान हो जाय उन्हींसे उनकी कुल-बधुओं की लाज !”
 सहसा उठा विकर्ण सभा में दुर्योधन का ही भाई ,
 “निश्चय यह आर्या अपरय थी, हतधृत होकर ही आई ।”
 झिड़का उसे कर्ण ने—“बैठो, कितनी बुद्धि तुम्हारी है ?
 हार खिलाड़ी ने अपनी ही नारी तो यह हारी है ।
 चारवधू को लज्जा कैसी, इसको नंगा नचने दो ,
 दुःशासन, यह एक वसन भी तुम क्यों इसका बचने दो ?”
 केश छोड़कर दुःशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया ,
 सिमिट संकुचित हो कृष्णा ने आप आपको जकड़ लिया ।
 “मैं पद्म योग्य न थी अथवा थी, यह विवाद की बात रहे ,
 पर न सहेगा कभी धर्म यह अनाचार, सो ज्ञात रहे ।
 यह कर्षण यह धर्षण मेरा हो सकता है अधिक्त कर्म ,
 तो क्यों वृथा ओड़ रक्खा है उद्धत पशु ने हत नर चर्म ?”
 थाप मारकर दुर्योधन ने इसी समय जंघा ठोकी ,
 भीमसेन के उर की आँधी रुकती अब किसकी रोकी ?
 “दुःशासन का हृदय दीर्घ कर, उसका रक्त न पी जाऊँ ,
 तो साक्षी दिक्काल, रहो तुम, मैं न वीर की गति पाऊँ ।

दुर्योधन की जाँघ न तोड़ूँ तो मैं अपना सिर फोड़ूँ ,
 यदि मैं कभी प्रतिज्ञा छोड़ूँ तो पितरों से मुहँ मोड़ूँ ।
 यहाँ हमारे होते कृप्या जिनके कारण हुई अनाथ ,
 तुम सहदेव, अग्नि लाभो मैं अभी जला दूँ उनके हाथ ।”
 “हाय आर्य !” अर्जुन बोले—“क्या उचित अवज्ञा गुरुजन की ?
 यह करके क्या तुम न करोगे दुर्वृत्तों के ही मन की ?”

उधर द्रौपदी का दुकूल जब तक न दुष्ट ने हरण किया ,
 नारी ने नर से निराश हो नारायण का शरण लिया ।
 “हा हृदयस्थ हरे ! तुमको भी यदि अभीष्ट यह गति मेरी ,
 तो फिर सुभक्तों ही क्या लज्जा, कहे और क्या गति मेरी ?
 रे नर, आगे नरक-वाहन में तू निज मुख की लाली देख ,
 पीछे, खड़ी पंचमुख शिव पर नम्र कराला काली देख !”
 सहसा दुःशासन ने देखा अंधकार-भा चारों ओर ,
 जान पड़ा अम्बर-सा वह पट, जिसका कोई ओर न छोर ।
 आकर अकस्मात् अति भय-सा उसके भीतर पैठ गया ,
 कर जड़ हुए और पद काँपे, गिरता-सा वह बैठ गया ।
 दासी का कर धरे इसी क्षण देवी गान्धारी आई ,
 चौंक सँभल कर पाप-सभा ने पुनः सभ्यता - सी पाई ।
 सबने उससे उसने सबसे यथायोग्य व्यवहार किया ,
 प्रणत पदों पर पांचाली को हाथ उठा कर अभय दिया ।
 सिहर अंधपति से वह बोली—“सफल अंधता अपनी आज ,
 नहीं देखते अपनों से ही हम जो अपनी लुटती लाज ।”

नाथ, किन्तु क्या श्रवण-शक्ति भी अकस्मात् तुमने खोई ,
सुनी नहीं क्या, आ घर में घुस अभी शिवा जो है रोई ।
भाई मे पितृकुल, पुत्रों से पतिकुल मेरा नष्ट हुआ ,
अंतर्दामी को ही अवगत, मुझको कैसा कष्ट हुआ ।
जो कुछ होना है उसको तो जान गया यह चित्त अहो ,
तुमसे मुझे यही कहना है, तुम तो यहाँ निमित्त न हो ।
सूक्ष्म धर्म-गति का विचार तो कर सकते हैं वृद्धाचार्य ,
पर क्या यह सब कर सकते हैं वे भी, जो है अधम अनार्य ?
हाय ! लोक की लज्जा भी अब नहीं रह गयी लज्जित क्या ,
आज बहू का तो कल मेरा कटि-पट नहीं अरजित क्या ?”
“देवि ठीक ही कहती हो तुम, मैं अंधा भी देख रहा ,
अपने चारों ओर, अन्त तक अपनों का रण-रक्त बहा ।
पुत्र-भोह उससे भी दुस्तर मज्जित करता है मुझको ,
सबल तुम्हारा मातृ-हृदय यह लज्जित करता है मुझको !
बहू द्रौपदी कहाँ, बुलाओ, आ, मेरे कुल की लाली !
पिता पीड़कों का मैं, फिर भी निर्भय हो ओ पांचाली !
सुनने पड़े सभा में मुझको कातर वचन हाय ! तेरे ,
क्यों न दृष्टि के साथ श्रवण भी नष्ट किये विधि ने मेरे !”
आकर कृष्णा पड़ी पगों में, पर क्या वह कुछ बोल सकी ,
बाष्प-वेग से कंठ रुद्ध था, मुख न मानिनी खोल सकी ।
“मुझे तोष देने को कुछ भी माँग बहू, तू निःसंकोच ,
वर, प्रसाद वा पुरस्कार जो उसको लेने में क्या सोच ?”
“तात, तुम्हारी अनुकम्पा ही बहुत मानती हूँ मन में ,
हूँगी मैं कृतकृत्य तुम्हारी आज्ञा के ही पालन में ।

भय दिखला कर अन्धराज को उसने मन की करवा ली ,
 धर्मराज से और एक पण होने की हाँ भरवा ली ।
 जो हारे सो राज्य छोड़ कर बारह वर्ष करे वनवास ,
 एक वर्ष अज्ञात वास में धरा जाय तो फिर वह त्रास ।
 'जो आज्ञा' कह जाने-माने धर्मराज फिर भी हारे ,
 प्रस्तुत हुए अनुज-कृष्णा-युत फिरने को मारे मारे ।
 अन्तरंग यह कांड विदुर ने सुन कर महा विषाद किया ,
 द्रोण सहित देवव्रत को द्रुत जाकर सब संवाद दिया ।
 मानो घर में आग लगी हो, घबराये-से वे आये ,
 देख न सके दृश्य वह सहसा आँखों में आँसू छाये ।
 "मैंने शास्त्र-शस्त्र-शिक्षा का किया सभीके लिए प्रयत्न ,
 आशा थी कुल के गौरव की वृद्धि करेंगे सब कुल-रत्न ।
 पर स्वभाव पर चला किसीका कोई शास्त्र न, कोई शस्त्र ,
 और अन्त में आज हमारी कुल की लज्जा हुई विवस्त्र !
 शूलों पर भी पड़ूँ क्यों न मैं, कैसे रहूँ खड़ा-बैठा ?
 न हो अबतय आज भी तन में, विषम शल्य मन में पैठा ।
 पर मैं नहीं निराश, तुम्हारा गौरव अब भी मेरे साथ ,
 मेरा इच्छा-मरण युधिष्ठिर, अब से रहा तुम्हारे हाथ ।
 घर तो बैठ चुका पहले ही, अब न उठेगा यह हाथी ।"
 "वत्स युधिष्ठिर," कहा द्रोण ने—"मैं भी हूँ इनका साथी ।
 हम दोनों जीकर कदच पर क्यों यह मरण दुःख पाते ,
 इन्द्रप्रस्थ कहीं तुम अपने साथ हमें भी ले जाते ।
 पर अपनी उदारता से ही तुमने हमें यहाँ छोड़ा ,
 करना पड़े जिसे जब जो कुछ, परवशता में सब थोड़ा !"

“आप गुरुजनों की हम सब पर छाँह रहेगी वन में भी ,
तो उससे क्या अधिक चाहिए हमको राज भवन में भी ।
आज्ञाकारी रहें सदा हम ।” नम्र युधिष्ठिर मौन हुए ,
अनुज-द्रौपदी-युक्त उन्होंने उन दोनों के चरण छुए ।

मुहँ ढँककर ही गये विपिन वे कहीं किसीको दहे न दृष्टि ,
घनीभूत-सी माँ कुन्ती में हुई विश्व की करुणा-सृष्टि ।
रहना पड़ा विदुर-गृह उसको रखकर अपनों का अनुगोच ,
राम विना कौशल्या मानो करती थीं सब सूना बोध ।
उनको जाते हुए देख कर और अनर्थ-कथा सुनके ,
चले प्रजा-जन भी दल के दल पीछे पीछे ही उनके ।
जब समझाने लगे युधिष्ठिर, वे आकुल कुछ कह न सके ,
फिर भी कितने ही ऋत्विज जन उन्हें छोड़ कर रह न सके ।

वन-गमन

राज्य मिला, पर यश न मिला दुर्योधन को ,
वश करने में लगा प्रजा के वह मन को ।
उद्धत भी वह अज्ञ न था नृप-कौशल से—
प्रजा राज्य के, राज्य प्रजा के ही बल से ।
द्रोण विनय-वश उसे छोड़कर जा न सके ,
असका मंगल किन्तु पितामह पा न सके ।
पाण्डव पूजित रहे, भले ही छले गये ,
धौम्य पुरोहित सहित वीर वन चले गये ।

पाकर सब संवाद कृष्ण दौड़े आये ,
और बहुत से बन्धु-सुहृदजन मन भाये ।
सब थे सहज सहानुभूति से भरे हुए ,
सबसे मिलकर व्यथित हृदय वे हरे हुए ।
आकर कृष्ण-समीप आर्त कृष्णा रोई ,
“यदि तुम होते नहीं, न था मेरा कोई ।

नारी पर कब कहाँ देव की दृष्टि हुई ?
 मेरी तो अपमान-हेतु ही सृष्टि हुई !
 पाकर ऐसे नाथ अन्यथा मैं अबला,
 नर पशुओं की हुई हाथ क्यों करकवला !
 देखो ये सम्राट दीन से दुर्गत हैं,
 महा हीन भी नहीं छोड़ते निज पत हैं !”
 “पर मैं उसको कर न सकूँगा कभी सहन,
 जिसने यह अपमान किया तेरा बहन !
 अथि भारत-सम्राज्ञि, और क्या कहूँ भला ?
 छले गये वे स्वयं, जिन्होंने तुम्हें छला !”
 “छलियों से भी—” भीम व्यंग्य पूर्वक बोले—
 “क्यों न सरल व्यवहार करें हम है भोले !
 किसी पाप-वश विप्र-वंश से दूर गिरे,
 क्षत्रिय भी हम कहाँ, क्षमाधरे ही निरे !”
 बोल उठे बलराम—“अतीव अनर्थ अहो !
 लगता है, जन-पाप-पुण्य सब व्यर्थ न हो !”
 तब सात्यकि ने कहा—“नहीं, हे आर्य, नहीं,
 पर क्या सबके लिए सुमंथ अनिवार्य नहीं ?
 मिलता सबको स्वफल अवश्य सदैव यहाँ,
 जन को जन के हाथ दिलाता देव यहाँ !
 जाने जिसे अनीति, उसे चुपचाप सहें,
 तो हम निजको नीतिमन्त किस भाँति कहें ?
 दुर्योधन से धर्मराज पण - वद्ध रहें,
 पर हम क्यों उस निन्द्य नियम से नद्ध रहें ?

आज़ा दीजे, अभी खलों पर चढ़ जाऊँ,
 धर्मराज का राज्य जीतकर ले आऊँ।”
 “पर ये क्या स्वीकार करेंगे उसे कभी,
 जिसके लिए न आप युद्ध कर सकें अभी?”—
 कहा कृष्ण ने—“धैर्य न इतना थकने दो,
 कार्य समय सापेक्ष्य, रही, फल पकने दो।”
 “यही बात है तात।” युधिष्ठिर तब बोले—
 “प्रथम हमारा नियम यहाँ पूरा हो ले।
 इष्ट पाप-जय-हेतु पुराय ही, पाप नहीं,
 पा सकते हैं वह सुयोग हम आप यहीं।
 सिंहासन यदि गया, कुशासन मिला मुझे,
 औरों का यह नहीं, स्वशासन मिला मुझे।
 क्या इतना ही आज यथोचित न था मुझे ?
 मुझसे मेरे व्यथित हुए, यह व्यथा मुझे।
 मैंने जो कुछ किया, हो चुका है वह तो,
 जो था मुझको मिला, खो चुका है वह तो।
 इतना भी विश्वास दिलाऊँ मैं कैसे,
 होंगे मुझसे कर्म न आगे भी ऐसे ?
 अनुचित मुझपर द्रुपदसुता का रोष नहीं,
 करदें मेरा त्याग अनुज, तो दोष नहीं।
 मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी सहा,
 तो मेरा क्या गया, मुझे क्या प्राप्य रहा ?
 अब भी समझा नहीं इसे मेरे मन ने,
 माँगा सीधे क्यों न राज्य दुर्योधन ने ?

मुझसे कहते उसे आत्म-संकोच हुआ ,
 वंचक बनते हुए न रंचक सोच हुआ !
 मैं अपने में आप न नियम-विरुद्ध रहा ,
 दूत अपूत, परन्तु स्वयं मैं शुद्ध रहा ।
 नहीं युद्ध भी भला, किन्तु करना होगा ,
 स्वत्व धर्म पर हमें जूझ मरना होगा ।
 करनी होगी तदपि प्रथम सजा हमको ,
 देंगे यों ही नहीं निमन्त्रण हम यम को ।
 यह जो हमको समय मिला, हम बल जोड़ें,—
 भीतर का बल, तभी विजय के फल तोड़ें ।”
 अर्जुन बोले—“भले न समझे बुद्धि कभी ,
 मन से अनुगत मतत आर्य के अनुज सभी ।
 चिन्ता हमको नहीं वंचकों के बल की ,
 क्षुद्र भीरु ही छौंह पकड़ते हैं छल की ।
 उन्हें हमारी हानि अन्त में भरनी है ,
 पर अब निश्चय हमें प्रतीक्षा करनी है ।”
 बोला धृष्टद्युम्न—“कठिन है बात यही ,
 पर जो सबको ग्राह्य, मुझे भी सह्य वही ।”

अतिथि विसर्जित हुए प्रेम - पूजित होकर ,
 हरि सह शिशु-वश चली सुभद्रा भी रोकर ।
 पांचाली से कौन कह सका चलने को ,
 भेजे उसने अनुज - संग सुत पलने को ।

“जीजी, तुम तो सहज नागरी सुकुमारी,
 वृन्दावन - सी घनी बनी सुभको प्यारी।
 उचित नहीं यह एक तुम्हीं सब भार धरो,
 निज सेवा के अर्थ सुभे स्वीकार करो।”
 जब यों रोकर कहा सुभद्रा ने नत हो,
 कृष्णा बोली भेट उसे मर्माहत हो।
 “भद्रे मेरे लिए न कर चिन्ता उर मे,
 वन से भी मैं बहुत सह चुकी हूँ पुर में।
 गोदी में शिशु लिये चली तू भी वन को,
 तो क्या होगा सह्य स्वामियों के मन को ?
 सह तू, रह, संकुचित क्यों न लजवन्ती-सी,
 त्यक्त न हों हम उभय सहठ दमवन्ती-सी।”
 “आयें, शिशु भी आज अभागिन का पिछड़ा,
 सभी पिताओं, सभी भाइयों से बिछड़ा।”
 “मेरी पगली बहन, व्यथा मत दे सुभको,
 मेरे पांचों पुत्र समर्पित हैं तुमको।
 जाते ही तू बुला लीजियो वहीं उन्हें,
 पर न प्यार ही प्यार कीजियो कहीं उन्हें।
 बड़ा चली तू आप बोझ अपना भोली,”
 “अनुग्रहीत मैं हुई” सुभद्रा झुक बोली।

अस्त्र-लाभ

“तुम्हें बहुत, पर मुझे समय लगता है स्वल्प,
फहाँ गये हैं, कौन कहे, कितने युग कल्प ?
हमें पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना है तात !”
धर्मराज ने कही भाइयों से यह बात ।
“अर्जुन, इसके लिए करो तुम तपःप्रयास,
धुम्को यह निर्देश दे गये वेदव्यास ।”
अर्जुन ने सौभाग्य मानकर किया प्रयास,
शुभ शकुनों ने बता दिया भावी कल्याण ।
हिमगिरि-वन में किया उन्होंने तप आरम्भ,
आकर बोला एक विप्र—“यह कैसा दम्भ ?
तप करते हो और धरे हो तुम यह शस्त्र ?”
वे हँस बोले—“नहीं हमारे देव निरस्त्र ।”
“बृंचक भी हैं विबुध परन्तु इसीके साथ !”
“नहीं नहीं, वे महादेव हैं भोलानाथ !”
“तदपि रजोगुण-चिह्न नहीं क्या यह क्रोदण्ड ?”
“आवश्यक यह दुष्ट-दण्ड के अर्थ अस्त्रण्ड ।

अज्ञ - हेतु ही यत्नशील होकर मैं आप :
 कहें आप ही, त्याग करूँ कैसे निज चाप ?
 आज़ा हो, आ सके आपके यदि यह काम ,
 मान्य, इसीसे मिला मुझे गान्धीवी नाम ।”
 तुष्ट हुआ द्विज और दे गया आशीर्वाद ,
 “प्राप्त करो तुम तात, शीघ्र ही शिवप्रसाद ।”

व्रत में रत वे रहे अभिन्नु अयाचक सन्त ,
 उनके तप से पिघल उठा मानो हिमवन्त ।
 जहाँ अप्सरा - विघ्न, वहाँ यह बया उत्पात ,
 वन-विचरणा में किया एक शूकर ने घात ।
 विद्युद्दंष्ट्रा लिये उपद्रव मूर्ति प्रचण्ड ,
 लगा पार्थ को, टूट पड़ा भू पर घन-खण्ड ।
 भागे दन्ती इधर उधर सुन घुर घुर घोर ,
 स्वयं सिंह आ सके न उस उद्धत की ओर ।
 खड़ी सटाएँ देख जटाधर वट - से वृक्ष ,
 काँप उठे, जा चढ़े भाग कर जिन पर शृक्ष ।
 एक कूट के खड्ग हो गये उससे खर्व ,
 उलटे सींगों भगे वन्य सैरिभ गतगर्व ।
 मुख लम्बा कर लपक छोड़ता मुस्तकगन्ध .
 ऋपटा मेदुर सीध बाँध कर मद से अन्ध ।
 झूता भर था धरा, भार से धँसें न पैर ,
 जा सकता था कौन तरलता उसकी तैर ?

सम्मुख आती हुई भूल आपत्ति अथाह ,
 अर्जुन उसे सराह उठे,—बोले वे—“वाह !”
 वाह न सुन कर किये आह सुनने की चाह ,
 दूटा उनपर बाण - वेग से विकट वराह ।
 पर क्या वह सह सका पुरुष के शर की बाढ़ ,
 निज दंष्ट्रा से प्रखर लगी नर की वह दाढ़ ।
 किन्तु पार्थ ने वहाँ विद्ध पाये दो बाण ,
 और सुनाई दिया शंख-सा उन्हें विपाण ।
 बाँक पड़े वे देख उसी क्षण एक किरात ,
 सुदृढ़ लचीले लौह - तुल्य था जिसका गात ।
 वन्यचरों का प्रकट हुआ मानो कुलदेव ,
 बनी बनी वर जिसे नागरिकता स्वयमेव !
 जब दोनों जन मान रहे थे निज अपमान ,
 उसके मुख पर खेल रही थी मृदु मुसकान ।
 उभय भटों की हुई भंयकर - सी वह भेट ,
 “यह मेरा आखेट,” “कहाँ तेरा आखेट ?”
 बचनों से आगया कर्म में वाद-विवाद ,
 बाण रूप रख चला पार्थ का क्रोधोन्माद ।
 पर विशिखों ने किया प्रकट विस्मय बाहुल्य ,
 जब वे निष्फल गये भिल्ल-तनु पर तृण-तुल्य !
 विस्मय-से भी अधिक लगा उनको अपमान ,
 भुजबल का ही शेष भरोसा रहा महान ।
 मल्ल-युद्ध की ठान जा भिड़े उससे पार्थ ,
 हार जीत की वही कसौटी एक यथार्थ !

पर विषज्ञ के महावज्ञ पर भिलमिल भूल ,
 उनपर हँसने लगे मंजु माला के फूल !
 “यह माला तो वही, सुभीसे जो अव्याज ,
 पार्थिव-पूजन-समय चढ़ी थी शिव को आज !”
 बस बिजली-सी कौंध गई, बिसरा सब वैर ,
 हाथ जोड़ रह गये पकड़ वे हर के पैर ।
 “मैं प्रसन्न हूँ, रहा ठीक ही मेरा स्वाँग ,
 तुम्हें पाशुपत दिया, और जो चाहे माँग !”
 “विभो, भवानी-सहित मिले भव, अब क्या शेष ?
 सब जीवन का सार रूप यह एक निमेष !”
 “विजयी हो,” कह हुए उधर हर अंतर्भूत ,
 रथ ले आया इधर वहाँ सुरपति का सूत ।
 “शिव-दर्शन का सुफल उपस्थित यह हे वीर !
 बनो इन्द्र के अतिथि स्वर्ग में तुम सशरीर !”
 “जो आज्ञा” कह हुए पार्थ प्रस्थित तत्काल ,
 मुका परम सौभाग्य-भार से उनका भाल ।

आया पृथिवीपुत्र, उठा उत्सुक सुरलोक ,
 उसका पथ कब कौन कहाँ सकता है रोक ?
 सुरबालाएँ बनी सुमन बरसा कर मूर्ति ,
 चिर सुर-यौवन, किन्तु रुचिर यह नर की स्फूर्ति ।
 बोला नत सिर सँघ इन्द्र—“तुम यहाँ अबाध ,
 पूर्णकाम हो सप्रयोग दिव्यायुध साध !”

“अनुग्रहीत मैं ।” किया पार्थ ने पुनः प्रणाम ,
और किया आरम्भ यथाविधि अपना काम ।

एक रात उर्वशी अप्सरा - मधि सविलास ,
दिव - विभूति - सी हुई उपस्थित उनके पास ।
आगे बढ़ती हुई तनिक तिरछा तन मोड़ ,
रूप-गन्ध की फलित ललित लपटें-सी छोड़ !
चलती फिरती कल्पलता रस - रंग - विभोर ,
आकर्षित - सी हुई आप नव नर की ओर ।
मंदिर दृष्टि से मनःसृष्टि के स्वप्न बिखेर ,
विह्वल होती हुई आप भी उनको हँर !
नूपुर - रव से सुखर बनाती मृदु सुसकान ,
नर को करने चली अप्सरा सुधा - प्रदान !
मधु लाया क्या यह अपूर्व मद की छवि भौंक ,
उठी मदन की प्राण - प्रतिष्ठा जिसमें भौंक !
गगन-सिन्धु ने दिया उन्हें यह रत्न विशेष ,
सुर भी जिसको देख रह गये थे अनिमेष !
ठहर गई थी लहर चंचला की - सी कान्ति ,
मानो कान्ता न थी, किन्तु कान्ता की आन्ति !
तनिक झुकी थी घरे भरे यौवन-घट भार ,
माँग रही थी अलस इंगितों में आधार !
चौंके अर्जुन एक वार उसको अवलोक ,
फिर भी वे स्थिर रहे चपल उत्सुकता रोक ।

उनको विस्मित देख सुतनु सस्मित तत्काल
 बोली उन पर डाल दशन - किरणों का जाल—
 “तुम उदास-से मुझे दीख पड़ते हो शूर !
 हुई यहाँ भी नहीं मनोबाधा क्या दूर ?”
 “उस बाधा का देवि, अवनि पर ही उपचार ,
 स्वर्ग - भोग का कहाँ आज मुझको अधिकार ?
 अब भी मेरे आर्य-चरण वन - कंटक - विद्ध ,
 और—” “और क्या, कहो अहो ! यदि न हो निषिद्ध ।”
 “मैं किस मुँह से कहूँ याज्ञसेनी की बात ,
 बीत रहे हैं किस प्रकार उसके दिन रात ।
 त्रिविधि पवन में यहाँ उसीकी ठंडी साँस ,
 गड़ती है इस व्यग्र हृदय में गहरी गाँस ।
 नन्दन - वन के फूल फूल में व्यथा-विभोर ,
 उसका मुख ही ताक रहा है मेरी ओर !
 इसी ताप से पड़ न सका ठंडा यह देह ,
 मृत्यु विना क्या भोग्य अमृतमय यह शुभ गेह ?”
 “पर क्या निश्चित नहीं लिया-सा वह प्रतिशोध ?
 उसमें अब भी तुम्हें हो रहा संशय-बोध ?
 इस शरीर से सुलभ नहीं निश्चय यह धाम ,
 क्या इसका अपमान उचित है हे वरवाम !”
 “मैं ऐसा हतबुद्धि नहीं, यद्यपि हतभाग्य ,”
 “तो आओ प्रिय, दूर करो मिथ्या वैराग्य ।”
 “सुन्दरि, समझो नहीं मुझे तुम ऐसा अन्ध ,
 जो मैं देख न सकूँ शक्र से निज सम्बन्ध ।

तुम मेरी जन—” “रहो, न लो जननी का नाम ,
उसकी तुलना रहे, सुभे उससे क्या काम ?
मैं किसकी माँ-बहन ! और पत्नी भी चाह !
एक प्रेयसी मात्र, करूँ जिसकी भी चाह !
पर मैं इतनी सुलभ नहीं, समझो यह ठीक ,
अपना सच्चा स्वप्न न कर दो आप अलीक !
तप करते हैं और साधते हैं जब योग ,
पाते हैं तब कृती भाग्य से ऐसा भोग ।”
“रहें तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ ,
पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ ।”
“तब तुमको यह नहीं सोहता नरवर-वेष ,
क्लीब - रूप में रहो, और क्या कहूँ विशेष ।”
“स्वस्तिवाद-सा शिरोधार्य है यह अभिशाप ,
किसी रूप में रहूँ, किन्तु निर्भय-निष्ठाप ।”

तीर्थयात्रा

“आर्य, अर्जुन के विना सब रिक्त-सा है ,
काल कटु था ही, अधिक अब रिक्त-सा है ।
हाय ! जैसों के लिए वैसे न होकर ,
आज हम ऐसे हुए सर्वस्व खोकर !”
काम्य वन में भीम को यों देख अस्थिर ,
सहनशील असीम-से बोले युधिष्ठिर—
“तात, छलियों से छले जाकर छके हम ,
किन्तु निज में तो भले ही रह सके हम ।
यदि खलों के साथ निज सौजन्य खोते ,
तो उन्हीं जैसे स्वयं क्या हम न होते ?
भेद हममें और उनमें फिर कहाँ था ?”
“भेद ? सचमुच !” भीम बोले—“वह यहाँ था !”
बीच में ही द्रौपदी कहने लगी यों—
वह भरी थी ही, उमड़ बहने लगी यों—
“भेद भी क्या, एक हैं जब राज्य-भोगी ,
दूसरे अपदस्थ - अवश - अकाल-योगी !

जो हुआ सी हो गया मेरा, रहे वह ,
 पर तुम्हारा पतन मन कैसे सहै यह ?
 हाय ! हारे ही नहीं तुम तो थके हो ,
 लुब्ध तक होते नहीं, इतने दूके हो !
 द्वार पर जिनके मतंगज भूमते थे ,
 और जिनके नख चमूपति चूमते थे ,
 घूमते कुश-करंटकों में रज-मने हो ;
 और सहवासी श्रृगालों के बने हो !
 कौन था, जिनका अनुग्रह जो न चाहे ?
 बन कृपा-भाजन न अपने को सराहे ?
 आज वे दयनीय सत्रके हो रहे हैं ,
 बेच घर-घोड़ा गहन में सो रहे हैं !
 किन्तु यह सब देखकर जब जी रही मैं ,
 और कर्षित चीर अपना सी रही मैं ,
 तब अहो ! धिक्कार दूँ मैं और किसको ?
 मैं वही हूँ, मृत्यु भी आई न जिसको !
 निम्न गति जल की, अनल की उच्च गति है ,
 प्रकृत तप से भी तुम्हें मानो विरति है !”
 “देवि, तप ही आज मेरा जी जुड़ाता ,
 पर अनल की उष्णता भी जल बुझाता !”
 “हाय नाथ, भले तुम्हें व्यापे न बाधा ,
 आप ही तुमने उसे है आज साधा ।
 किन्तु जो ये दो अनुज कोमल कुसुम-से ,
 क्या नहीं उच्छिन्न-से है आज तुमसे !”

“हाय देवि ! हमें न यों लज्जित करो तुम ,
 कब समय आवे, समर-सज्जित करो तुम ।
 हम यहाँ भी आर्य की ही गोद में हैं ,
 यदि तुम्हारा दुख न हो तो मोद में हैं ।”
 कह चुके जब यों नकुल-सहदेव मिलकर ,
 फूल-से महके युधिष्ठिर आप खिलार—
 “भाग्यशाली और किसका क्रोड़ ऐसा ?—
 है जुड़ा जिसमें अनोखा जोड़ ऐसा ।
 याज्ञसेनि, नहीं सुभीपर त्रास आया ,
 राम ने भी एक दिन वनवास पाया ।
 यातना भोगी तुम्हींने क्या अकेले ?
 जानकी ने भी भयकर कष्ट भेले ।
 साध्वि, सावित्री न क्यों तुमको कहूँ मैं ?
 चाहता हूँ, सत्यवान बना रहूँ मैं ।
 तुम जहाँ हो, मृत्यु-बाधा भी हरोगी ,
 धैर्य रखो, हम तरेंगे, तुम तरोगी ।
 स्वबल से ही धर्म पलता है जनों में ,
 एक रस है शील भवनों में—वनों में ।
 दुःख पहले और पीछे सुख भला है ,
 पुत्र-दर्शन प्रसव-पीड़ा में पला है ।
 गर्त में अब भी नहीं नल-सा गिरा मैं ,
 हार एकाकी कहाँ मारा फिरा मैं ?
 आज भी तुम और भाई साथ मेरे ,
 और हैं वे द्वारका के नाथ मेरे ।

अश्रु निकले थे सभा में जो तुम्हारे ,
 तुम बहे समझो उन्हींमें शश्रु सारे ।
 वे हमारे मार्ग के तारे सुमानी ,
 निज प्रहरणों पर उन्हींका प्रखर पानी ।
 'यदि खलों से भी भला वर्ताव होगा ,
 तो भलों के प्रति अलग क्या भाव होगा ?'
 भीम का यह तर्क कोरा तर्क रूखा ,
 'हंस-मानस क्या वकों के हेतु सूखा ?
 सुजनता सर्वत्र अपनी रीति होगी
 सज्जनों के साथ समधिक प्रीति होगी
 श्रेष्ठ निष्किय भी कुटिल उद्युक्त से मैं ,
 सत्य से सम्बद्ध अन्ध्र मुक्त से मैं ।'"

मान्य लोमस मुनि वहाँ सहसा पधारे ,
 कर चुके थे तीर्थ जो दो वार सारे ।
 वे सुखद संवाद लाये थे त्रिदिव से ,
 "पा चुके हैं पार्थ पाशुपतास्त्र शिव से ।
 हो रहे देवायुधों में अब निपुण्य हैं ,
 साथ ही वे सीखते गन्धर्व - गुण्य हैं ।"
 कर्णगत सबके हुई ज्यों अमृत-धारा ,
 गर्व से सबको युधिष्ठिर ने निहारा ।
 फिर विनत हो अतिथि का आभार माना ,
 मूल्य अर्जुन के विरह का प्राप्त जाना ।

सदय मुनि बोले—“रुचे तो कुछ विचर लो ,
 तीर्थ-यात्रा क्यों न तुम इस बीच करलो !”
 “प्राप्त यह तो पूर्ण से भी अधिक हमको ,
 कौन छोड़ेगा भला निज पुण्यतम को !
 पूर्वजों के त्याग-तप की स्मृति वहाँ है ,
 चारणा है, धारणा है, धृति वहाँ है ।
 नियम - संयम - साधना - क्षमता - क्षमा है ,
 और अपनी पुण्यभूमि - परिक्रमा है ।
 मार्ग - दर्शक आप - सा ज्ञाता रहेगा ,
 विषय का विश्वस्त व्याख्याता रहेगा ।
 यों कहीं भी तीर्थमय हैं आप योगी ,
 पर किसे नव लाभ की लिप्सा न होगी !”
 धर्मस्तुत प्रस्तुत उसी क्षण थे समुत्सुक ,
 पर चले शुभ योग में सब तीन दिन रुक ।
 गोमती में निखर सरयू में नहाये ,
 फिर सभी संगम-सुधार्थ प्रयाग आये ।
 मग्न हो काशी-सदृश शिव की दया में ,
 श्राद्ध करके उन्मृग-से उभरे गया में ।
 मिलन गंगा और सागर का जहाँ था ,
 चार रस भी हो उठा मधुमय वहाँ था !
 एक तनु में ही न पाकर तोष गंगा ,
 बन गई शततनु, सहस्र-तरंगभंगा !
 दृष्टि-गति उस दृश्य ने किसकी न हर ली ?
 कह युधिष्ठिर ने ‘अहा !’ फिर आह भर ली—

“हाथ जल से भी मनुज-कुल आज पिछड़ा ,
जल मिला जल से, मनुज से मनुज विछड़ा !”

घूमकर चारों दिशाओं में यथाविधि ,
प्राप्त कर तप-त्याग की अनुपम कथा-निधि ,
वात्य वय-सा चाव फिर पाकर निराला ,
निज अगत-गत सब उन्होंने देख डाला !
की न तीर्थों की उन्होंने मात्र यात्रा
और भी उनकी बढ़ा दी मान-मात्रा !
प्राकृतिक सौन्दर्य से वे भान भूले ,
वन बसे मन में, रहे चिरकाल फूले !
देखते थे दृश्य नित्य नये नये वे ,
अन्त में गिरि गन्धमादन को गये वे ।
सहज था किसको वहाँ का पन्थ चलना ?
घन गहन में दृष्टि किरणों का निकलना !
अद्रि स्वागत कर उठा हिम-हास करता ,
था निसर्ग वहाँ निरन्तर वास करता !
आ गये कैसे, कहाँ से, कब, कहाँ वे ,
आप अपने को विचित्र लगे वहाँ वे ।
प्रकृति-पूरुष-दुर्ग-सा सम्मुख खड़ा था ,
किन रहस्यों से भरा, कितना बड़ा था !
“अनुज, लगता है मुझे इस ठौर ऐसा ,
मनुज का संसार है संकीर्ण वैसा !

केश क्या, निज रोम तक इसने पकाये ,
 काल कितने देख इसको अकचकाये ।
 सिद्ध योगी-सा समाधि-निमग्न है यह ,
 भूमि से उठ गगन से संलग्न है यह !
 देवदारु - समान ऊँचे और मोटे
 वृक्ष इसके निकट छत्रक - तुल्य छोटे !
 मग्न - से होकर जलद स्रोतस्वरों में ,
 मकड़जाल बने पड़े हैं गह्वरों में !
 बाहु नभ में और पद पाताल में हैं ,
 प्रकट कटि-पट विटपियों के जाल में हैं ।
 शैलराज सहस्र शीर्षोपम बड़ा है ,
 वरद विभु-सा अभय - मुद्रा में खड़ा है !
 सरस शत शत निर्भरों के नीर से है ,
 द्रवित-सा यह प्राण और शरीर से है !
 ठौर अन्तर्बहिर् तृष्णा-शान्ति का यह ,
 है ठिकाना एक ही अक्लान्ति का यह ।
 डाल दरियों पर घटाओं की ज्वनिका ,
 सभ्य श्वापद भी बना इसकी अवनि का !
 एक रव की गूँज कितने ठौर से है ,
 बन गई वसुधा बनी इस मौर से है !
 उठ तपन को यदि न शान्त किये रहे यह ,
 लोक उसका तेज तो कैसे सहे वह !
 शून्य भरकर यह रजत-मन्दिर बड़ा है ,
 मिहिर हीरक-कलश-सा इस पर चढ़ा है !

अवनि-अम्बर का यहाँ मध्यस्थ अपना ,
 सुन रहा है ध्यान से हँसना-विलपना ।
 बहुत से अभियोग हम थे संग लाये ,
 पर यहाँ तो एक से अपने-पराये !
 संग हैं संस्कार, हम जायें जहाँ भी ,
 खल रहा अपमान कृष्णा का यहाँ भी !
 द्रौपदी की ही कमक है शेष सुभमे ,
 अन्यथा किस पर यहाँ विद्वेष सुभमे ?
 भीम, अपनी कुल-बधू अति मृदुलगात्रा ,
 कर सकेगी यह यहाँ किस भौंति यात्रा ?”
 भीम अग्रज से कहें कुछ ध्यान करके ,
 सुन पड़े तब तक वचन उनको अपर के—
 “तात, अम्बा के लिए चिन्ता नहीं है ,
 इन दिनों उनका बड़ा बेटा यहीं है !”
 आ, घटोत्कच नत हुआ सहसा पदों में ,
 चमक बिजली-सी गई उन गद्गदों में ।

प्रव्रज पशु से थे मनुज-से अंग उभके ,
 और भी कुछ पुण्यजन थे संग उसके ।
 “वत्स, ऐसे ही हमारे प्रिय रहो तुम ,
 पवन से सर्वत्रगति सक्रिय रहो तुम ।”
 द्रौपदी सहसा लूता-सी आज फूली ,
 प्यार कर उसको तनिक निज दुःख भूली ।

“साथ क्या जननी नहीं ?” “पश्चिम गई है ,
 खोजती फिरती बधूटी नित नई है !”
 हँस पड़ी सुन द्रौपदी, कुछ झुक गई वह ,
 आप कुछ कहने चली पर रुक गई वह ।
 बात आकर रह गई उसके नयन में—
 “सफल हो वर-चयन तुस्य बधु-चयन में !”
 “राजसूय-समाप्ति पर हम इधर आये ,
 दृश्य हिमगिरि के मुझे भरपूर भाये ।
 आप सब भी तीर्थ करते आ मिले हैं ,
 क्लान्तिवश कृश किन्तु सुख क्यों अनखिले हैं !”
 “ओह ! तब तुम्हको पता क्या, लाल मेरे ,—
 पकड़ कर खींचे गये हैं बाल मेरे !”
 “अम्ब, तुम क्या कह रही हो ? हाय ! बोलो ,
 दीन-सी क्यों हो रही हो ? भेद खोलो !”
 “तात, उस दिन तू हमारे साथ रहता ,
 तो मुझे विश्वास है, तू तो न सहता !”
 कह सकी वह कुछ न, किसने क्यों सताया ,
 धर्मसुत ने ही उसे सब कुछ बताया ।
 काठ था ही, हो उठा वह आग सुनकर ,
 पीस पहले दौँत बोला सीस धुनकर—
 “हाय ! ये दुष्कृत असम्भव दानवों से ,
 हम निशाचर ही भले तुम मानवों से !
 तुम बँधो, मैं क्यों बँधूँ उस पाप-पण से ,
 तात, अब मुझको कहाँ अवकाश रण से ?

पाँ, डरो मत, मैं शक्रेला क्या करूँगा ,
 यदि मरूँगा. मार कर ही मैं मरूँगा ।
 पापियों में बल कहाँ, वे क्या लड़ेंगे ?
 चौक कर सोते न सोते उठ पड़ेंगे ।
 रात का दुःस्वप्न मैं उनका बनूँगा ,
 और उनका दिन दहाड़े ही हनूँगा ।”
 बल रहे थे नेत्र उसके दो कुजों-से ,
 फस धरा उसको युधिष्ठिर ने भुजों से ।
 रोक पाई कठिनता से दीर्घ बाहें ,
 “वत्स, हम जो कह चुके उसको निवाहें ।
 शुद्ध यदि अनिवार्य है तो हम करेंगे ,
 शूर - वीर - समान मारेंगे - मरेंगे ।
 जात, तेरा शौर्य-वीर्य सराहता हूँ ,
 इन्द्र भी निर्द्वन्द्वता से चाहता हूँ ।
 शीघ्र मध्यमतात तेरे आ रहे हैं ,
 तीर्थ का फल-सा उन्हें हम पा रहे हैं ।
 अन्ततः तब तक हमारे साथ रह तू ,
 और अपनी अम्बिका का भार सह तू ।”

वस्तुतः सबको वहाँ उसका स्मरण था ,
 कष्ट-कीलक वह कवच चिन्ता-हरण था ।
 दीर्घ कन्धों पर चढ़ाये द्रौपदी को ,
 लौघता वह सहज कुल्या कह नदी को ।

“अम्ब, ऊँचे फल मुझे अब तोड़ देना,
सूँघती हो फूल तुम सो आप लेना !
श्रवण तो मैं बन गया हूँ आज आधा,
किन्तु दशरथ-बाण की है पूर्ण बाधा !”
“बुप, अरे, ऐसा विनोद भला नहीं है !”
“अम्ब, मुझमें सरल सत्य, कला नहीं है !
कौरवों के हैं सुने वे कर्म जब से,
हो रहे हैं बिद्ध मेरे मर्म तब से !
अनृत लगता है मुझे जीना जगत में,
मैं समाना चाहता हूँ शुद्ध सत में !
किन्तु माँ, यों ही नहीं यह जन मरेगा,
प्रथम, जो कर्तव्य है, उसको करेगा !”
“वत्स, तू तो कर रहा है बाध्य मुझको
सोचने को—बया क्षमा ही साध्य मुझको !”
“माँ, क्षमा है दरुड में ही पापियों की,
अन्यथा अभिवृद्धि पर - संतापियों की !”
“वत्स, तब जी तू इसीके अर्थ जग में
बन्धनों की मुक्ति तो है एक डग में !
देख वह मधु-चक्र तू जी तो जुड़ाना,
पर कृपा कर मच्छिकाएँ मत उड़ाना !”

मार्ग ही राक्षस न आगे थे बनाते,
कन्द मूल फलादि भी वे खोज लाते ।

किन्तु देख प्रचण्ड झँधी और पानी
 एक दिन कल्पान्त ने भी हार मानी ।
 ले उठी थी भूमि उर्ध्वश्वास उखड़ा ,
 रो उठा था व्योम का प्रति रोम दुखड़ा !
 बोर हाहाकार दोनों कर रहे थे ,
 तिमिरि में नव जन्तु जीते मर रहे थे !
 राजसों ने कोट-सा अपना बनाया ,
 और ज्यों त्यों कर नरों ने त्राण पाया ।
 आपको भी देख पाना था न कोई ,
 गिर स्वयं विजली कहीं थी आज खोई !
 उपल की-सी कटिन जल-धारे विपम थी ,
 कंकरो की कोटि बौद्धारें विपम थी ।
 अब महागिरि भी कहाँ तक थिर रहेगा ?
 दो भयों में पड़ रहेगा वा बहेगा !
 भाग्य ने ही घूम दायें और बायें
 गिर रही थी टूट कर लघु-गुरु शिलार्ये ।
 मृत्यु की थी आज सबकी प्राण-तृष्णा ,
 प्रथम मरने को हुई हतचेत कृष्णा ।
 “पुण्य-पथ में मरण भी मंगल हमारा !”
 धर्मधन बोले—“यही तो धन हमारा ।”
 याज्ञसेनी पर उन्होंने हाथ फेरा ,
 अन्त में मिटने लगा उनका अँधेरा ।
 पौ फटी, स्थिर हो प्रकृति फिर मुसकराई ,
 और सबने सहज सुख की सौंस पाई ।

शान्ति धारण की मरुद्गण ने, वरुण ने,
स्वर्ण-पट सबको दिया आकर अरुण ने।
“तू न होता आज, क्या होता न जाने।”
“कौन माँ है, जो न बेटे को बखाने ?
किन्तु तुमने आह ! मेरी पीठ ठोकी !”
जो हँसी आई घटोत्कच ने न रोकी।
बदरिकाश्रम पहुँच वे सब कष्ट भूले,
गन्धमादन के फलों के बीच फूले।*

एकदा वन में वृकोदर थे विचरते—
विमन-से वे हो गये कुछ ध्यान करते।
एक अजगर ने उन्हें इस बीच घेरा,
और चौंका कर चलित-सा चेत फेरा।
निकट थे अग्रज, चिहुँक सुन दौड़ आये,
ग्रस्त उनको देख आकुल अकचकाये।
पर सँभल बोले—“सरीसृपराज, सुनलो,
भीम को दो मुक्ति वा निज मृत्यु चुनलो।
हम नहीं वे नर, जिन्हें वन जन्तु खा लें,
निहत भी हम भानु-मण्डल भेद डालें !
लाभ क्या हमको तुम्हारे मारने से ?
काम है निज प्राण-धन ही धारने से।”
“साधु साधु ! परम्परा मेरी बनी है,
आज उसमें धर्मनन्दन - सा बनी है।

वत्स, तुमको देख मेरा शाप छूटा ,
मैं नहुष पूर्वज तुम्हारा, पाप छूटा ।
लोक में करनी रही मेरी अधूरी ,
तात, करनी है तुम्हें वह आप पूरी ।
नत हुए अप्रज अनुज यह सुन सजल-से !
“तात, हमको मिल गये तुम तीर्थ-फल-से ।
दर्शनों का लाभ यह लेकर फिरें हम ,
धों उठें, जिसमें न फिर उठ कर गिरें हम ।”

धर्म-कर्म सुगांग तट पर सांग करते ,
बाट में वे थे धनंजय की विचरते ।
चौक उठती द्रौपदी कुछ बात कहते ,
श्रुति-नयन उसके सदा सौत्कर्य रहते ।
प्राण ने भी सजगता उस दिन दिखाई ,
सुरभि उसको खींच गगांतीर लाई ।
कमल एक सहस्रदल उसने निहारा ,
रूप-गंध-सुवर्ण पर क्या कुछ न वारा ।
प्रिय पुरोगम-सा उसे प्यारा लगा वह !
धूपमय निर्धूम दीपक-सा जगा वह ।
पैठ कर जल में उसे उसने उठाया ,
स्वामि-योग्य अपूर्व यह उपहार पाया ।
लौट भट उसने युधिष्ठिर को दिया वह ,
चकित हर्षित हो उन्होंने भी लिया वह ।

“मूल सह कुछ और ऐसे फूल पाती ,
तो उन्हें अपने यहाँ भी मैं लगाती !
पर न हो यह हेम-मृग ही अन्य कोई !
तो इसे लेकर न होगा धन्य कोई !”
मुसकराई द्रौपदी हँस भीम बोले—
“किन्तु क्यों प्रिय प्राप्य छोड़े जूझ जो ले !
तुम रहो निश्चिन्त, मैं बढ़ खोज आऊँ ,
यत्न में ही रत्न है, तो क्यों न पाऊँ ?”

भीम थे वे आप, किसका भय उन्हें था ?
वे जिघर भी जायँ जय ही जय उन्हें था ।
किन्तु सम्मुख कौन वह पथ में पड़ा था ?
चकित थे वे, वृद्ध भी कितना बड़ा था !
“कौन नर-वानर विलक्षण है अरे तू ?
मार्ग है यह, घर नहीं है, हट परे तू !”
वृद्ध ने यह सुन अलस-से पलक खोले ,
और मुख से व्यंग के ही बोल बोले—
“मार्ग ! पर परलोक का ही मार्ग यह तो ,
क्यों स्वजीवन से उठा तू ऊब, कह तो ?
तरुण है तू, लौट घर जा. भोग भव को ,
नष्ट मत कर, कष्टकर माँ के प्रसव को !”
“ठहर, मैं आया नहीं उपदेश सुनने ,
लाख काँटों में मुझे है फूल चुनने !”

“वृद्ध का अपमान, अच्छा शिष्ट है तू !
 चपल यौवन से अहा ! आविष्ट है तू ।
 कह दिया मैंने, रुचे सो कर भले तू ,
 अप्सरा ही इष्ट है तो भर भले तू ।
 किन्तु अपने गर्व को कुछ तो घटा दे ,
 हट नहीं पाता स्वयं मैं, तू हटा दे ।”
 झपट पूरा बल लगाकर टेल-टिलकर ,
 भीमसेन उसे हटा पाये न तिल भर ।
 “हो न हो, तब तुम स्वयं हनुमान ही हो .
 हाँ, वही हो तुम, नहीं अनुमान ही हो ।
 मैं तुम्हारा अप्रम अपराधी अनुग हूँ ,
 देख-सा सम्मुख रहा गत-विगत युग हूँ .
 अब उड़ो अथवा मुझे यों ही उड़ाओ .
 किन्तु तब जानूँ, चरण तुम भी छुड़ाओ ।”
 “भीम, सचमुच आज मैं सुख मानता हूँ ,
 पर तुम्हारा दुःख भी मैं जानता हूँ ।
 पैर छोड़ो और मुझको भूरि भेटो ,
 अनुज, निज विस्तृत भुजों में भर समेटो ।
 है युधिष्ठिर वीं युगोपरि धर्मनिष्ठा ,
 पायगा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा ।
 युद्ध में तो सम्मिलित अब मैं न हूँगा .
 पर धनंजय के रथध्वज पर रहूँगा ।
 भूमि पर जब तक बनी है रामचर्चा ,
 ले रहा हूँ मैं उसीमें आत्म-अर्चा ।

रूप रहते भी लिया है नाम मैंने,
 जो किया सो राम का ही काम मैंने।
 मिलन भी उत्सुक भला, प्रस्थान शुभ हो,
 द्रौपदी के अर्थ यह अभियान शुभ हो।
 कठिन उसका व्रत, कहैं कुछ क्यों न अनयी,
 एक प्रभु, पति और प्रिय, दो दिव्य प्रणयी !
 मार्ग दुर्गम है, इधर की ओर जाओ,
 यज्ञ-रक्षित धनद-सर के पद्म पाओ।”
 “हम सभी कृतकृत्य और विशेष कर मैं,
 सहज पा ही-सा गया अब पद्म - सर मैं।
 भाग्य थे मेरे, तभी तो आज जागे।”
 नत हुए फिर बढ़ गये ऋट भीम आगे।

विघ्न जो पथ में पड़े सचमुच बड़े थे,
 तदपि वे उस पद्म-सर-तट पर खड़े थे।
 बाल-रवि-से कंज कितने खिल रहे थे,
 शुचि सलिल की थपकियों से हिल रहे थे।
 अमर उड़ उनके डिठौने हो रहे थे,
 वस्तुतः वे आप टौने हो रहे थे।
 भीम ने घुसकर जहाँ डुबकी लगाई,
 एक पल मैं ही अपूर्वस्फूर्ति पाई।
 यज्ञ-दल ने जो उन्हें सहसा विलोका,
 “कौन है तू घृष्ट !” टोका और रोका।

“नाम तो है भीम, रूप समक्ष मेरा,
पद्म चुनना ही यहाँ धिय लक्ष मेरा।”
“किन्तु यह क्रीड़ा-सरोवर है धनद का।”
“मान मुझको भी वही इस हृद्य हृद् का।
गति जहाँ जिसकी, वहीं है भाग उसका,
प्राप्य है जो, मैं करूँ क्यों त्याग उसका ?
अवनि-अनलानिल-सलिल-आकाश सबके,
अन्यथा सब लोक पाने नाश कबके।”
हो गई तब एक छोटी - सी लड़ाई,
और उनको ही मिली उसमें बड़ाई।
वे जहाँ लौटे, वजे आकाश-आनक,
आ मिले सुरलोक में अर्जुन अचानक !

द्रौपदी और सत्यभामा

देवों से अजेय दैत्यों पर विजय पार्थ ने पाई,
उससे दिव्यायुध-शिक्षा की गुरु-दक्षिणा चुकाई।
तीर्थों में ही नहीं, उन्हींके द्वारा नन्दन वन में
विचर कृतार्थ हुए-से पांडव फिरे द्रैत कानन में।

उनके आने तक ही मानो वर्षा रुकी खड़ी थी,
तप के पीछे ही आ सकती ऐसी सुघर घड़ी थी।
लेकर सुख की साँस स्वस्थ थी आगतपतिका वनिका,
चौमासे भर तक चिन्ता से मुक्त हुई वह धनिका।
भुके घनों को लेने गाढ़ा धुआँ उठा उटजों से,
दिया अघर्ष-सा आर्द्र विपिन ने निज प्रस्फुट कुटजों से।
छप्पर में गोधन सँभालकर वृद्ध कृषक भी गाया—
“आ जा घटा, पूर घट सबके, छा जा मेरी छाया !”
रिम भिम रिम भिम रस की बूँदें बरसी जो ऊपर से,
उठा पुलक रोमांच आप ही एक साथ भू पर से।

उठी गन्ध-गुणमयी मेदिनी पावस के स्वागत में ,
 धूल भाड़ टंडा हो मारुत निरत हुआ निज व्रत में !
 फहरी शान्ति-ध्वजाएँ, लहरी कल कन्दली-कदलियाँ ,
 खिली पल्लवों के हाथों में हँस कदम्ब की कलियाँ ।
 प्रस्तुत हुईं आम-जामुन की सजी डालियाँ-डलियाँ ,
 मुकुट चन्द्रिकाएँ रच लाईं नाच मयूरावलियाँ ।
 उग आये बोये-अनबोये धान्य धन्य धरती के ,
 गोरम की धारों में महके तृण विशेष परती के ।
 डोरे डाल फूलती-फलती बर्दी वीचि-सी वेलें ,
 चढ़ अपनी ही उपशाखायें उच्चस्थान न ले लें !
 फर्दी चंचला की कवरी से मोती की-सी लड़ियाँ ,
 जोड़ जिन्होंने दीं टूटी-सी जलाशयों की कड़ियाँ ।
 छूटीं नभ में बिखर चक्रों की फक फक कर फलभडियाँ ,
 दौड़ी-सी आईं नदियों की मिधु-मिलन की घडियाँ !
 प्रिय से यह प्रिय लगा प्रिया को प्रिय अब जा न सकेंगे !
 हुआ विरह से विषम बधु को, वर घर आ न सकेंगे ।
 दूर कहीं से पिक-केकी को नई कूक उठ आई ,
 चौंक, स्वप्न से भी वियोगिनी गई हूक उठ आई !
 उठे बाँस ऊपर के जल की थाह लगा लेने को ,
 छिपे कन्द भी उभके अपनी चाह जगा देने को ।
 मग्न हुआ-सा वासर अपनी सारी सुध-बुध भूला ,
 धार पवन आसार-जोतियाँ फोंके लेकर भूला ।
 मोद-मंगलाचार हो उठे, बैधी चतुर्दिक दूबा ,
 पी पी कर चहकीं चातकियाँ, रस में कौन न डूबा !

चक्राचौंघ भरकर चपला ने जब द्रुत लय की अति की ,
 धीर ताल में घन-मृदंग ने तब उसकी संगति की !
 ध्वज - वस्त्र सब छाया में भी पुरवैया से जड़े ,
 रुके जहाँ के तहाँ पथिक जन, दादुर उड़ले-कूदे ।
 भरे सलिल से बिल, किलबिल कर निकल सरीसृप डोले ,
 पुलक कण्टकित केतकियों ने सौरभ-सम्पुट खोले !
 यौवन के कुम्भों में मद भर घनी घटाएँ घुमड़ीं ,
 ग्राम दिखाई दिये द्वीप-से, जल-धाराएँ उमड़ीं ।
 कादम्बिनी-स्पर्श से गिरि ने गैरिक धारा त्यागी ,
 अथवा अपना राग जताने चला अचल अनुरागी !
 श्वान-श्रृगाल डरे चिल्लाये खड्ग भरे कौंघे से ,
 चरने लगे महिष-वृष पल भर होकर चकचौंघे-से ।
 छिपे पड़े थे झाड़ी में जो सिंह वृष्टि के कारण ,
 निकल पड़े घन-गर्जन सुनकर, निकट न हो वर वारण ।
 समतल कर दी भूमि शस्य ने लेकर लहर पवन में ,
 लगी पर्या-कुटियाँ नावों-सी हरित सिन्धु-से वन में ।
 मार्कण्डेय सदृश ऋषियों से सुनकर पुण्य-कथाएँ ,
 व्रती पाण्डवों ने पूरी की ऋतु की पर्व-प्रथाएँ ।

जल बरसा कर चित्राम्बर ने फिर मोती बरसाये ,
 भरीं उषा की नलिनांजलियाँ, गये हंस फिर आये ।
 पथ का पंक सूर्य ने सोखा, अमृत चन्द्र ने सींचा ,
 कनक कलम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति ने खींचा !

पांचाली भुक्त शोफाली के फूल चली जब चुनने ,
 सानुराग हँस उन जैसे ही वचन कहे अर्जुन ने—
 “प्रिये, प्यार से दिये हुए वे इन्द्राणी के गहनें ,
 क्यों न तुम्हारे अंग आज इस उत्सव के दिन पहनें ?
 “पर इन केशों का क्या होगा ?” कहा प्रिया ने सहसा ,
 पर सुनने में स्वयं उसे वह लगा आज दुस्तह-सा ।
 “क्षमा करो प्रिय, तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है ,
 मैं क्या करूँ, न जाने मेरा कैसा कठिन दिया है ।”
 “नहीं, भूल थी यह मेरी ही, तुमने ठीक कहा है ,
 अब भी समय नहीं आया वह. यद्यपि पहुँच रहा है ।”
 “तब तक मुझे स्वर्ग की ही कुछ बातें और सुनाओ ,”
 “यही स्वर्ग का गुण है, उसमें नित्य नयापन पाओ ।”
 “इसीलिए क्या मुझे सजाकर नया बनाते थे तुम ?
 निज अतृप्ति में भी करुणा-वश मुझे मनाते थे तुम ?”
 “तुमसे सदा अतृप्त रहूँ मैं. यही कामना मेरी ।”
 “इससे अधिक और क्या चाहे यह चरणाँ की चेरी ?
 किन्तु नाथ, भव तो भव ही है, वह दिव कैसे होगा ?
 सुन सकती हूँ क्या मैं, तुमने उसको कैसे भोगा ?”
 “नहीं भूलता यह सुख मुझको, चाहे जहाँ रहूँ मैं ।”
 “इसको निज सौभाग्य कहूँ वा निज दुर्भाग्य कहूँ मैं ?
 मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर में भी सुख से ।”
 “फिर भी मेरा सुख न मिले क्या प्रिये तुम्हारे सुख से ?”
 “किन्तु अमृत तो यहाँ नहीं है, रहो, वहीं वह छूटा ,
 दोष तुम्हारा ही है तुमने उसे नहीं यदि लूटा ।”

“प्रिये, ‘नहीं’ क्यों मुझे दोष ही जब तुम लगा रहीं हो ?
 मुझे लुटेरा कहो, आपको तुम क्यों ठगा रहीं हो ?”
 “अमरी नहीं मरी हूँ मैं तो !” “समझा कसक तुम्हारी ,
 मान्य शची-सी ही थीं मुझको सुरांगनायें सारी ,
 किन्तु उर्वशी से मैंने वर छोड़ शाप ही पाया ,
 विफल हुआ जो राग जहाँ भी वहाँ द्वेष ही लाया ।
 पर अज्ञातवास में हमको हितकर होगा वह भी ।”
 स्तब्ध हुईं सुन द्रुपद-नन्दिनी, सकी न वह कुछ कह भी ।
 फिर गद्गद हो स्वयं पार्थ से लिपट गईं वह कसके ,
 मिला स्वयं, वे रागी थे जिस परिरम्भण के रस के ।
 पलटा पृष्ठ उसीने “तुमको सुरपुर कैसा भाया ?”
 “ईश्वर की ईश्वर ही जानें, वहाँ अनोखी माया !”
 पर मैं पृथिवी-पुत्र, अन्त में जगती ही गति मेरी ,
 जहाँ साधना है इस तनु की रहे वहीं रति मेरी ।”
 “देवों के चरित्र में तुमने लोकोत्तर क्या पाया ?”
 “अग्रज के प्रति अपनी श्रद्धा मैं दुगुनी कर लाया !
 उनको भी इनका गौरव है, मुझको यही लगा है ।”
 “तुमसे यह सुन कर मुझमें भी नूतन गर्व जगा है ।”
 “फिर भी अद्भुत एक स्वप्न था, जो यह मुझको दीखा ,
 गन्धर्वों का गुण भी मैंने कुछ विनोद-वश सीखा ।”
 “अहा ! इसीमें तो मेरी रुचि, नचो न कुछ, मैं देखूँ ,
 ताण्डव अथवा लास्य, स्वर्ग का लाभ यहीं मैं लेखूँ ।”
 “पहले सिंहासन आने दो, तब अनुशासन करना !”
 “मैं तो सदा तुम्हारी रानी, तुम इससे न सुकरना !”

तुम उससे मेरी असीस कह यही सँदेसा कहना—
 ‘तुम अपने को भी औरों के लिए देखती रहना !’—”
 “उनके मत में उन्हें तुम्हींने अपना भाग दिया है,
 द्वेष-रहित अनुराग दिया है और सुहाग दिया है।
 आई हूँ मैं भी तुमसे कुछ आज माँगने को ही,
 शुभे, हो उठा है मेरा मन मुझसे ही विद्रोही !”
 “सखि, माधव-सा धन पाकर भी इष्ट और क्या तुमको ?
 तिक्त तुम्हारा मन क्यों, उनसे मिष्ट और क्या तुमको ?”
 “जो निधि मुझे मिला, जगती में मिलता है वह किसको,
 किन्तु उसे रख सकूँ यथा विधि, नहीं जानती इसको।
 अहो ! एक को ही जब मानो मैंने रुष्ट किया है,
 पाँच पाँच देवों को तुमने कैसे तुष्ट किया है ?
 कौन यातु-विद्या है ऐसी, कृपया मुझे सिखा दो,
 यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादिक जो हों मेरे योग्य, लिखा दो।”
 “रहो, यातु-विद्या पर तुम यों अपने को न बिकाना,
 मेरी बहन हिडिम्बा है पर तुमको कहाँ ठिकाना ?”
 हुई सत्यभामा हतमति-सी, हँसी द्रौपदी, बोली—
 “नहीं जानती थी मैं आहा ! तुम हो इतनी भोली।
 टुटपुँजिये हैं, जो टौने की माया पर मरते हैं,
 क्या कर सकते हैं वे कायर, जो तप से डरते हैं।
 मेरी तुच्छ कुटी जो तुमको सहज स्वच्छ-सी सूझी,
 इसके लिए स्वकटि कसकर मैं झाड़ू लेकर चूझी।
 बाहर चूर चूर होकर नर बहुधा घर आता है,
 नारी का मुख वहाँ निरख वह फिर नवता पाता है।

यदि ऐसा न हुआ तो सम्झो दोनों बड़े अभागी ,
 दोनों की ही सदगृहस्थता अब भागी तब भागी ।
 कच्चे-पक्के घर विभिन्न हों, पर अभिन्न हैं प्राणी ,
 आगे-पीछे मिलता ही है सबको भोजन-पानी ।
 किन्तु हमारे मधुर भाव के राव-रंक सब भूखे ,
 इतना भी न परोस सकें हम तो सुहाग रस सूखे !
 जब बाहर आती हैं तब हम सज बज कर आती हैं ,
 घर भीतर ऐसी वैसी ही बहुधा रह जाती हैं ।
 पूरा न हो, किन्तु यह आधा उलटा चलन हमारा ,
 घर के वर के लिए बधु का साज बाज है सारा ।
 दास-दासियाँ दिखलाते हैं कोरी प्रभुता जन की ,
 सखी, सच्ची सँभाल हमको ही करनी है निज धन की ।
 अपना जितना काम आप ही जो कोई कर लेगा ,
 फरकर उतनी मुक्ति आप वह औरों को भी देगा ।

भ्रकट किया बहु करपीडन में पौरुष-दर्प नरों ने ,
 उसका विनिमय मुझे दिया है मेरे पाँच वरों ने ।
 किया विनय पूर्वक ही निर्भय जो कुछ किया उन्होंने ,
 स्वयं साक्षिणी मैं, स्मरहर-सा विष यह पिया उन्होंने ।
 मेरी उनकी बात छोड़ दो, उसकी बड़ी कथा है ,
 किन्तु तुम्हारे लिए हृदय से होती मुझे व्यथा है ।
 फिर भी उचित मन्त्र दूँगी मैं, क्यों यह क्षोभ तुम्हें है ?
 कारण, अपने रूप-गुणों के फल का लोभ तुम्हें है !

नारी लेने नहीं, लोक में देने ही आती है,
अश्रु शेष रखकर वह उनसे प्रभु-पद धो जाती है।
पर देने में विनय न होकर जहाँ गर्व होता है,
तपस्त्याग का पर्व हमारा वहीं खर्व होता है।”

वन वैभव

“तुम्हारे भाई बेचारे ,
जुए में जो सब कुछ हारे ,
विपिन में दीन भाव धारे ,
भटकते हैं मारे मारे ।
खबर लें उनकी चलो जरा ,
कि वन में होगा हृदय हरा ।”

“खबर की तुमने एक कही ,
उचित है मामा, हमें यही ।
पिता की आज्ञा किन्तु रही ,
वहाँ मृगया ही मुख्य सही ।”
कर्ण ने कहा—“धन्य लक्ष्मी ,
एक ढेले में दो पक्षी !”

विकट यह तीन टिकट मिल के ,
हँसा फिर खिल खिल कर खिल के
हिलोरें-सी ले हिल हिल के
ताड़-से करके तिल तिल के
सफल करने अभिलाष नथा ,
अन्ध वृष-निकट तुरन्त गया !

कहा दुर्योधन ने—“हे तात ,
लगी है कुछ सिंहीं की घात ।
विपिन में है उनका उत्पात ,
जहाँ है अपना पशु-संघात ।
करेंगे हम मृगया वन में ,
घोष-यात्रा की है मन में ।”

सुना भूपति ने ‘हूँ’ करके ,
“ठीक है” कहा आह भरके ।
“हेतु है किन्तु वहाँ डर के ,
विचारो तुम्हीं ध्यान धर के ।
वहीं पाण्डव भी रहते हैं ,
दुःख मन ही मन सहते हैं ।

देख कर तुमको सम्मुख हाय !
क्रोध उनका न कहीं जग जाय ,
रहेगा तो फिर कौन उपाय ?
न समझो तुम उनको असहाय ,
शक्ति उनकी है सबको ज्ञात ,
सुरों में भी है यश विख्यात ।”

शकुनि ने कहा—“व्यर्थ यह सोच ,
प्रबल हों वे वा पूरे पोच ,
कहूँगा यह मैं निस्संकोच ,
नहीं है उनके मन में मोच ,
न हो जब तक अज्ञात निवास ,
करेंगे वे न विरोधाभास ।”

भूप को देकर यों सन्तोष ,
साथ लेकर बहु जन, धन-कोष ,
दैव का लिये अलक्षित रोष ,
घोष-यात्रा का करके घोष ,
जले पर नमक छिड़कने हाय ,
चला वह कुरुकुल का समुदाय ।

शान्त वन भी तब नगर बना ,
वहाँ जब शिविर-समूह तना ,
उठा कोलाहल घोर घना ,
हुए सब खग-मृग भीतमना ,
जिधर पाण्डव थे, वे भागे ,
खबर-सी देने को आगे ।

आज पाण्डव वन-वासी हैं ,
पास वे दास न दासी हैं ,
न भोगी हैं, न चिलासी हैं ,
उदासी हैं, सन्यासी हैं ,
कहाँ वे विभव विलीन हुए ?
देशपति जो थे, दीन हुए ।

द्रुमों की छाया है गम्भीर ,
बने हैं सुन्दर पर्ण - कुटीर ,
निकट ही लहराता है नीर ,
शान्त रहते हैं पाँचों वीर ,
धर्म-धन की ही तृष्णा है ,
साथ कल्याणी कृष्णा है ।

हाय ! वह कृष्णा कत्याणी ,
शेष है बस जिसमें वाणी ,
कि जो थी कभी महारानी ,
स्वयं अब भरती है पानी ,
किन्तु है मन में मान वही ,
आन हो कि न हो, बान वही !

सती पति - सेवा करती है ,
अतिथियों का श्रम हरती है ,
भव्य भावों को भरती है ,
धर्म अपना आचरती है ,
किन्तु होकर क्षत्रियभार्या ,
दुःख भूले क्या वह आर्या !

पार्थ ने तप कर मन भाया ,
विजय-वर शंकर से पाया ,
शूर वह सुरपुर हो आया ,
वहाँ से दिव्यायुध लाया ,
यत्न यों उनके जारी हैं ,
विरत कब वे व्रतधारी हैं !

वहाँ बहु ऋषि-मुनि आते हैं ,
विविध व्याख्यान सुनाते हैं ।
शान्ति उनसे सब पाते हैं ,
कुदिन यों कटते जाते हैं ,
पुरोहित हैं उनके जो धौम्य ,
कराते हैं सुयज्ञ वे सौम्य ।

देखकर कौरव-दल भय-भीत
भगे जो मृग-विहंग कलगीत ,
जान निज शरण उन्हें सुविनीत ,
हुए चिन्तित वे परम पुनीत ,
तभी आये कुछ वनचारी ,
उन्होंने कथा कही सारी ।

सिहर-सा उठा अशेष समाज ,
द्रौपदी बोली तब सव्याज—
“भाइयों की सुध लेने आज
पधारे हैं कौरव कुल - राज !
मिलूँगी पर मैं कैसे, हाल ,
खिचा है चीर, खुले हैं बाल !”

“उचित आतिथ्य करूँगा मैं ,
हीनता सभी हरेँगा मैं ।
भीम हूँ, कहाँ डरेँगा मैं ,
आज सब विघ्न तरूँगा मैं ,
हैंसें वे, मैं मुहँ तोड़ूँगा ,
न जीता उनको छोड़ूँगा !”

फेर कर तब धीरज के साथ
भाइयों की पीठों पर हाथ ,
विश्व-विश्रुत गुण-गौरव-गाथ ,
बोलने लगे पायडु - कुल - नाथ—
“शान्त हो भाई, कृष्णे, शान्त ,
न हो आतुर तुम यों एकान्त ।

करें तो कर लें वे उपहास ,
पूर्ण हो ले अज्ञात निवास ,
जायँगे तब हम उनके पास ,
और फिर माँगेगे निज न्यास ,
उसे यदि देंगे वे हित मान ,
क्षमा पावेंगे बन्धु-समान ।

किन्तु यदि वे हठ ठानेंगे ,
 न्याय की बात न मानेंगे ,
 समझ रखें, तो जानेंगे ,
 हमें रण में पहचानेंगे ।
 राज्य के , नहीं, धर्म के अर्थ ,
 उठेंगे तब निज शस्त्र समर्थ ।

शान्त हो भाई, कृष्णो, शान्त ;
 न हो आतुर तुम यों एकान्त ।
 अभागा दुर्योधन है भ्रान्त ,
 न हो निज सहनशीलता श्रान्त ।
 तुम्हें है क्रोध, मुझे है खेद ,
 नहीं है उसे हिताहित भेद ।”

इधर कौरव दल गौरव धार ,
 विपिन में करने लगा विहार ।
 गूँजने लगी गान-गुंजार ,
 नूपुरों की नव नव भंकार ।
 कहीं कुंजों में क्रीड़ा भेट ,
 कहीं जल-कैलि, कहीं आखेट ।

उसी वन में था एक तड़ाग ,
जहाँ उड़ता था पद्म-पराग ।
वहाँ का हरा - भरा भू-भाग ,
आप उपजाता था अनुराग ।
चौखटे में ज्यों हरे जड़ा ,
धरा पर हो सुर-मुकुर पड़ा !

चाँदनी छिटकी थी उस रात ,
विचरता था वासन्तिक वात ।
सो रहे थे यद्यपि जलजात ,
वारि में बहु विधु थे प्रतिभात ।
सरस सर की निहार शोभा ,
सुरों का मानस भी लोभा ।

अप्सराओं को लेकर संग ,
नैश निस्तब्ध भाव कर भंग ,
बहाता हुआ रास रस रंग ,
चित्ररथ भरे अपूर्व उमंग ,
चन्द्र - तारों को दे व्रीडा ,
वहाँ करता था जल-कीड़ा ।

अचानक इसी समय अनिवार
 विपिन में करता हुआ विहार ,
 भूमता हुआ कुंजराकार ,
 साथ में लिये, प्रणय-परिवार ,
 स्वयं भी जल-विहार के हेतु ,
 वहाँ पर आ पहुँचा कुरु-केतु ।

उसे गन्धर्वों ने टोका ,
 तर्जनी दिखलाई, रोका ;
 तनिक-सा खाकर तब फोका ,
 क्रोध से उसने अवलोका ।
 उठी जो उसकी भृकुटि कराल ,
 खिचीं सौ तलवारें तत्काल ।

हुआ गन्धर्वों पर आघात ,
 चित्ररथ तक पहुँची यह बात
 कि कोई उद्धत मानव-जात
 मचाता है आकर उत्पात ।
 सिन्धु से उच्चैःश्रवा-समान ,
 हुआ सरनिर्गत वह बलवान ।

अप्सराएँ पृष्करिणी - सी ,
देख भय बाधा करिणी - सी ,
विकल हो हहरी हरिणी - सी ,
काँपती थीं सब तरिणी - सी ।
हाथ से देकर उन्हें प्रबोध ,
चित्ररथ चला गया सकोध ।

पहुँच दुर्योधन सम्मुख शूर ,
घोर नेत्रों से उसको घूर ,
कूकता हो ज्यों कुपित मयूर ,
वचन बोला सुस्वर से क्रूर—
“कौन है तू, ओ उद्धत, घृष्ट ,
यहाँ जो आया मरणाकृष्ट ?”

सुयोधन भी बोला सकोध—
“ज्ञात क्या तुमको नहीं अबोध !
कि करके जिसका मार्ग-निरोध ,
किया है तुमने आत्म-विरोध ।
वही इस पृथ्वी का स्वामी
सुयोधन नृप हूँ मैं नामी ।”

“अरे, तू ही दुर्योधन है ,
दुष्ट - दाम्भिक जो दुर्जन है ,
अनुज जिसका दुःशासन है ,
प्रकट जिसका पामरपन है ,
भाइयों को भिन्नक करके
बना तृप उनका घन हरके ?

मानता हूँ, तू है नामी ,
किन्तु कुल-काल, कुपथगामी ।
आज इस पृथ्वी का स्वामी
बना फिरता है तू कामी ।
पकड़ रखना तू इसका हाथ ,
सती होगी यह तेरे साथ !

मूढ़, तुझ-से कितने भूपाल
हूए, हैं, होंगे विपुल विशाल ।
किन्तु सबसे पीछे है काल ,
रहा इसका ऐसा ही हाल ।
बहुत है यही, कहूँ क्या और ,
तुझे भी है जो इस पर और ।

जय भारत

समय है अब भी चेत अचेत ,
नहीं तो उजड़ जायगा खेत ।
धर्म-पथ धर कर धैर्य समेत ,
लौट जा जीवित नृपति-निकेत ।
हुआ था यद्यपि मुझको रोष ,
क्षमा करता हूँ तेरा दोष ।”

“तुझे तो पर मैं दूँगा दण्ड ,
रहे कोई भी तू पाषण्ड !
सँभल, अब यह मेरा कोदण्ड ,
छोड़ता है चंचल शर चण्ड ।”
बाण यों कहते कहते जोड़
दिया द्रुत दुर्योधन ने छोड़ ।

किये कर्णादिक ने भी वार ,
चित्ररथ सँभला किसी प्रकार ।
किये उसने भी विषम प्रहार ,
कर्ण ही भागा पहले हार ।
वीर ने किये विना विक्षेप ,
किया सम्मोहन शर - निक्षेप ।

शीघ्र उस शर का पड़ा प्रभाव ,
हुआ सब कौरव-दल हतहाव ।
चढ़ा तब गन्धर्वों को चाव ,
उन्होंने किया विकट वत्ताव ।
मुख्य रिपुओं को घा पकड़ा ,
विमानों से बाँधा - जकड़ा ।

कौरवस्त्रियाँ देख यह हाल ,
पीटने लगीं वज्र वा माल ।
विकल थे कौरव क्रुद्ध कराल ,
सिंह ज्यों तोड़ न पाकर जाल ।
हुआ कातर कोलाहल नाद ,
शिविर तक पहुँचा यह संवाद ।

वहाँ थे वृद्ध सचिव वा दास ,
व्यर्थ था उनका रणप्रयास ।
विवश होकर लेकर निःश्वास ,
चले वे धर्मराज के पास ।
किन्तु लज्जित थे मन मन में ,
पुकारें धौर किसे वन में ।

भाइयों सहित द्रौपदी संग ,
पार्श्व में रखे चाप निषंग ,
सुनाकर सुन्दर कथा - प्रसंग ,
दिखाते हुए चर्म के अंग ,
यज्ञ-वेदी के सम्मुख शान्त
युधिष्ठिर बैठे थे विश्रान्त ।

अध्वानक हुआ करुण-चीत्कार—
“दुहाई धर्मराज के द्वार ।
कहें कैसे, हे परमोदार ,
बचाओ अपना कुरु-परिवार ।”
घौंक कर पाण्डव खड़े हुए ,
सचिव थे पैरों पड़े हुए ।

“विजित हैं बन्धु आपके सर्व ,
उन्हें है धौंच चुके गन्धर्व ।
शकुनि, कर्णोंदिक का भी गर्व
हो गया रण में सहसा खर्व ।”
शत्रुधों का सुन यों अपकर्ष ,
वृकोदर बोले शीघ्र सहर्ष—

“शूर-मद था उनको भरपूर ,
हुआ वह आज अचानक चूर ।
चलो, हम सबके काँटे फूर
हुए ऊपर के ऊपर दूर !
लड़ें उनके पीछे हम क्यों ?
करें प्रतिकूल परिश्रम क्यों ?

कहो उनसे, अब धैर्य धरें ,
विमानों में बिचरें, न डरें ।
जायँ, सुरपुर में अमर्य करें ,
स्वर्ग का भी साम्राज्य हरेँ ।
स्वर्ग यदि न भी मिलेगा हाल ,
नरक कोई न सकेगा टाल !”

भीम के ऐसे भाव विलोक ,
हुआ पाण्डव-पति को अति शोक ।
सके वे और न मन को रोक
और यों बोले उनको टोक-
“भीम, शरणागत का अपमान ?
कहाँ है आज तुम्हारा ज्ञान ?

कौरवों ने जो अत्याचार
किये हैं हम पर वारंवार,
करेंगे उनका हमीं विचार,
नहीं औरों पर इसका भार।
कूर कौरव अन्यायी हैं,
हमारे फिर भी भाई हैं।

जहाँ तक है आपस की आँच,
वहाँ तक वे सौ हैं, हम पाँच।
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच,
गिने तो हमें एक सौ पाँच।
कौन हैं वे गन्धर्व गँवार,
करें जो आकर यह व्यवहार ?

वीरता इसे नहीं कहते
कि हम-से पाँच पाँच रहते,
विपद में बन्धु फिरें बहते,
और हम रहें इसे सहते।
दण्ड उनको देने के अर्थ
नहीं है हम क्या स्वयं समर्थ ?

वत्स अर्जुन, सत्वर जाओ ,
और तुम उन्हें छुड़ा लाओ ।
शत्रु समझो तो भी आओ ,
द्विगुण जय यों उन पर पाओ ।
भीम, सहदेव, नकुल, सब लोग
करो जाकर समुचित उद्योग ।”

कहा अर्जुन ने—“जो आदेश ,
किन्तु सब लोग करें क्यों क्लेश ?
द्रौपदी, क्या है राज्य विशेष
बाँध लो चाहो तो तुम केश ।
आर्य के इस सद्भाव - समक्ष
और क्या हो सकता है लक्ष ?”

द्रौपदी ने शोकाश्रु पिये ,
भीम थे भू पर दृष्टि दिये ।
गर्व से ऊँचा शीश किये ,
गये अर्जुन गाराडीव लिये ।
लिया उनको सिर पर पथ ने ,
समादर किया चित्ररथ ने ।

जय भारत

“ मित्र, अच्छे आये इस काल ,
देख लो, निज रिपुओं का हाल ।
तुम्हारे काँटे ये विकराल
लिये हैं मैंने सभी निकाल ।
मिले थे सुरपुर में हम लोग ,
आज फिर आया शुभ संयोग ।”

प्रेम पूर्वक बोले तब पार्थ—
“हुआ मैं आज अतीव कृतार्थ ।
यहाँ है ऐसा कौन पदार्थ ,
करूँ जिससे आतिथ्य यथार्थ ?
किन्तु ये भाई हैं मेरे ,
आप यों जिनको है घेरे ।”

चित्ररथ बोला—“कैसी बात ?
ज्ञात तो हैं इनके उत्पात ?”
कहा अर्जुन ने—“सब हैं ज्ञात ,
विश्व भर में है वे विख्यात ।
किन्तु कहते हैं आर्य उदार—
‘करेंगे उनका हमीं विचार ।’—”

चित्ररथ बोला बाहु पसार—
“नहीं क्या मुझको यह अधिकार ?”
कहा अर्जुन ने उसी प्रकार—
“युद्ध में जाऊँ जब मैं हार ।”
“चाहते हो तो यही यही !—”
चित्ररथ ने यह बात कही ।

कहा अर्जुन ने—“अच्छी बात ,
कीजिए श्रीगणेश हे तात !
किन्तु वे दिव्यायुध विख्यात
ज्ञात हो, मुझको भी हैं ज्ञात ।
समझिए मुझको प्रस्तुत ही ,
वैर-युत नहीं, प्रेम - युत ही ।”

अन्त में होने लगा सुयुद्ध ,
नहीं था फिर भी कोई क्रुद्ध ।
कार्य करते थे विनय - विरुद्ध ,
किन्तु दोनों के मन थे शुद्ध ।
पालने को निज पक्ष पवित्र ,
तर्क - सा करते थे दो मित्र ।

स्वयं वह करता जो जो वार ,
पार्थ करते उसका प्रतिकार ।
न होता उनका विफल प्रहार ,
हुई गन्धर्वों की ही हार ।
देख यह रीति लड़ाई की ,
उन्होंने आप बड़ाई की ।

पार्थ फिर बोले वचन विनीत—
“क्षमा करना मुझको हे मीत !
हार हो चाहे मेरी जीत ,
कार्य था किन्तु न विधि-विपरीत ।
भाव अब भी हैं मेरे भव्य ,
कठिन ही होता है कर्तव्य ।

हुई रक्ताक्त आपकी देह !”
चित्ररथ बोला तब सस्नेह ,
“विजलियाँ चमकी, बरसा मेह,—
तुम ही हूँ मैं हे गुण-मेह !
आत्मजय तुमने पाया है ,
शत्रु का शत्रु हराया है !”

लिये तब कौरव-दल को संग ,
उड़ा था जिसके मुहँ का रंग ,
फिरे अर्जुन ज्यों मत्त मतंग ;
पीठ पर डुलता चला निषंग ।
पहुँच कर पाण्डवराज-समीप
प्रयात वे हुए पाण्डु-कुल-दीप ।

भुका दुर्योधन का भी भाल ,
अंक में भर उसको तत्काल
युधिष्ठिर बोले आँसू डाल—
“कुल व्रत पालो हे कुल-पाल !”
किन्तु दुर्योधन का वह मौन ,
कहेगा सम्मति सूचक कौन ?

दुर्योधन का दुःख

“हँसा गया मैं, हँसने गया था,
अदृष्ट ने आ मुझको रुलाया !
कैसे सहूँ मैं यह घोर लज्जा ?
हा ! मृत्यु अच्छी इसकी अपेक्षा ।
जीना यहाँ इष्ट किसे नहीं है ?
मैं झूझता था उसके लिए ही ।
परन्तु हो जीवन में व्यथा ही,
तो कौन मानी उसको मनावे ?
लो तात दुःशासन, राज्य मेरा,
जो हो, भले हो, मरके बचूँ मैं ।”
आगे न दुर्योधन बोल पाया,
हुआ रुआँवा वह रुद्धकण्ठ ।
दुःखार्त्त दुःशासन ने कहा यों—
“स्वयं तुम्हीं अग्रज, राज्य मेरे ।
समाप्ति में ही सुख जो तुम्हें है
तो क्यों न मैं भी निज भाग पाऊँ ?

मैंने न तो धर्म न कर्म जाना ,
 माना सदा जीवन में तुम्हींको ।
 पीछे तुम्हारे यह देह आया
 परन्तु होगा अब अग्रगामी ।
 इच्छा तुम्हारी अविचारणीया
 होती नहीं, तो फिर सोचता मैं—
 खींचूँ न खींचूँ बल से सभा में
 दुकूल किंवा कच द्रौपदी के ।
 कहे मुझे, जो कुछ लोक चाहे ,
 तो भी इसे कौन नहीं कहेगा—
 भाई नहीं किकर मैं तुम्हारा ,
 मैं चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही ।
 मैंने किया हो अपराध कोई ,
 तो दण्ड दो, मैं फिर शुद्ध होऊँ ।
 आदेश कोई सुन लूँ तुम्हारा ,
 मुझे सदा एक यही प्रतीक्षा ।
 गन्धर्व जो बाँध सके हमें थे ,
 माया न थी क्या वह किकरों की ?
 जो पाण्डवों ने हमको छुड़ाया ,
 तो क्या प्रजाधर्म न वे निभाते ?
 राक्षस चाहे रण से हटा हो ,
 मैं किन्तु क्या साथ न था वहाँ भी ?
 मुझे भले ही तुम तात, त्यागो ,
 मैं तो तुम्हें त्याग नहीं सकूँगा ।

वे आ रहे मातुल और कर्ण ,
 क्या भाग लूँ मैं इस मन्त्रणा में ।
 मैंने कहा, जो कहना मुझे था ,
 मैं अन्त का निश्चय ही सुनूँगा ।”
 स्वज्येष्ठ के छूकर पैर दोनों
 गया भरा-सा भभरा कनिष्ठ ।
 आके किया प्रश्न नवागतों ने—
 “क्या बात है, क्यों तुम उन्मना यों ?”
 “क्या बात मैं और नई बताऊँ ?
 कठोर दुःशासन चाहता है—
 मैं आज के-से अपमान में भी
 जीता रहूँ और सँहूँ तुषाग्नि !”
 “अरे, हुआ तो यह हो गया है ,
 जीना तुम्हें दूभर हो रहा क्यों ?
 जीते रहो तो फिर जीत होगी ,
 मरा प्रतीकार कहाँ करेगा ?
 मनुष्य का जीवन खेल-सा है ,
 पाँसे पड़ेंगे यदि हाथ में हैं ।
 लेखा लगेगा यह अन्त में ही ,
 क्या हार, क्या जीत हुई हमारी ?
 निराश तो जीवित ही मरा है ,
 उत्साह ही जीवन का प्रतीक ।
 बाधा जहाँ, साहस भी वहीं है ,
 असज्ज के अर्थ अवश्य लज्जा ।”

“मामा, सभी मैं यह जानता हूँ,
 परन्तु आशा अब क्या करूँ मैं ?
 जाता नहीं हूँ मरने वृथा ही,
 मैं जा रहा हूँ नव जन्म लेने।”
 “क्या हो गया है यह जन्म व्यर्थ ?”
 राधेय बोला बड़ पास जाके—
 “आशा स्वतः प्रस्तुत में न हो तो
 भविष्य का ही फिर क्या भरोसा ?
 ऐसा हृथा ही करता यहाँ है,
 हृथा तुम्हें ही कुछ क्या अनोखा ?
 खाना पड़ा हो जिसको न खटा,
 मीठा उसे क्या रस दे सकेगा ?
 हटा न था जीवन के लिए मैं,
 निवृत्ति में नव्य प्रवृत्ति मेरी।
 इसे तुम्हारा मन जो न माने,
 तो व्यर्थ है और प्रयास मेरा।
 धिक्कार, मेरे रहते हुए भी
 दीखे तुम्हें जीवन में अँधेरा !
 रहो, तभी राजस भोग भोगूँ,
 आगे तुम्हें दिग्विजयी बनाऊँ।”
 विनम्र-सा कौरवराज बोला—
 “मुझे तुम्हारे बल का भरोसा।”
 रहा न तो भी वह स्वस्थता से,
 खाये विना ही उस रात सोया।

हुआ उसे स्वप्न, सुरारि आये
तथा मिले वे उसकी चमू में ।
अमद्र भी भद्र लगे उसे वे ,
थी आसुरी ही उसकी प्रवृत्ति ।

राधेय ने जो उससे कहा था ,
यथार्थ ही सो करके दिखाया ।
गया बली दिग्विजयार्थ शीघ्र ,
किरीटि की भाँति कृतार्थ लौटा ।
रचा स्वयं भी क्रतु कौरवों ने ,
ज्यों पाण्डवों ने पहले रचा था ।
स्वयं उन्हें भी उसमें बुलाया ,
देखें, नहीं वे विजयी अकेले ।
“सत्कर्म हों सिद्ध सभी तुम्हारे ,
अरण्यचारी हम हैं अभी तो ।”
सन्देश घर्मात्मज ने कहाया ,
रुके यहाँ भी कहते न भीम—
“युद्धाग्नि में आहुति हो तुम्हारी ,
होता बनुँगा उस यज्ञ का मैं ।
विलम्ब थोड़ा उसमें अभी है ,
किया करो, जो इस बीच चाहो ।”

पूरा हुआ जो उस ओर यज्ञ ,
 राधेय से कौरवराज बोला—
 “तुम्हें बधाई पण - पाल मेरे ,
 सहर्ष भोगो अब राज - भोग ।”
 “अभी नहीं,”—गर्वित कर्ण बोला—
 “जीते तुम्हारे अरि आज भी हैं ।
 विशेषतः अर्जुन - सा विपत्ती
 है आज भी अक्षत लक्ष मेरा ।
 मारे विना अर्जुन को स्वयं मैं
 लूँगा न राजोचित खान-पान ।
 हाँ, दान दूँगा उलटा यथेष्ट ,
 माँगे जिसे जो कुछ माँगना हो ।”
 मानी हुआ विश्रुत एक . दानी ,
 तो भी अमर्याद कहाँ न डूबा ?
 छला गया हा ! बलि-सा बली भी ,
 आ इन्द्र ने कुण्डल - वर्म माँगे ।
 रहा विना कुण्डल कर्ण कोरा ,
 था चर्म ही शेष सुवर्म दे के ।
 “मरूँ भले ही, मुकरूँ नहीं मैं ।”
 दानी हँसा, याचक ही लजाया ।
 अमोघ थी जो, वह दिव्य शक्ति
 दे के उसे वासव ने कहा यों—
 “लो, काम देगी यह एक वार
 अव्यर्थ होगा इसका प्रहार !”

वन-मृगी

“अब हम काम्यक वन चलें” युधिष्ठिर बोले ,
वे सजल प्रात के मूर्त्त रूप उठ डोले ।
“देखा है मैंने स्वप्न रात हे आता ,
आकर रोई वन मृगी—‘तुम्हीं हो जाता ।’
पीछे शावक था, किन्तु शुष्क-से स्तन थे ,
असि का-सा पानी धरे विशाल नयन थे ।
कृष्णा-सी कातर करुण दृष्टि थी उनमें ,
अति उपालम्भ की भाव-सृष्टि थी उनमें ।
“हे देव, देखते वंश-नाश ये दृग हैं ,
आखेट आपके हुए हमारे मृग हैं ।
जो बीज मात्र कुछ रहे, उन्हें रहने दें ,
हम भी प्राणी हैं, आप मुझे कहने दें ।
हममें भी है अनुभूति और अभिलाषा ,
पर कहाँ यहाँ वह आप सरीखी भाषा ।
भावज्ञ आप हैं, यही भरोसा भारी ,
हे वाग्मि, न तो हम सुखर न मिथ्याचारी ।

इससे तो अच्छा, हमें हिंस्र पशु खा लें,
 अक्षम्य नहीं वे, यदि न अहिंसा पालें।
 पर दया-धर्म के धाम आप नरवर हैं,
 उनके खूंटों से प्रखर आपके शर हैं।
 मरना सबको है यहाँ, मरेंगे हम भी,
 पर वंश मेटता नहीं किसीका यम भी।
 हम मरें आपके अर्थ, अवश्य मरेंगे,
 पर शेष रहेंगे तभी न शुल्क मरेंगे।
 हम तृण भखते हैं, आप हमें चखते हैं,
 सब अपना जीवन इसी भोंति रखते हैं।
 जग के जीवों में परम जन्तु मानव हैं,
 इनमें दोनों आ मिले देव-दानव हैं।
 मैं आज देव के चरण-शरण आई हूँ,
 पितृहीन दीन शिशु शेष भेंट लाई हूँ।
 इसकी बलि से निज तृप्ति आप कर लीजे,
 इसके-से कुछ जो अन्य, उन्हें वर दीजे।
 शिशु चरणों पर आ गिरा अनाथ-अभागा,
 मैं सिहर उठा तत्काल चौंक कर जागा।
 पद अब भी उसका परस पा रहे दोनों,
 वे मुझे देखते दृष्टि आ रहे दोनों।
 सीमित शुभ सबकी ह्रास-वृद्धि, नर की भी,
 अपनी चिन्ता के साथ उचित पर की भी।
 काटें ही काटें वृक्ष, उन्हें न लगावें,
 तो हम मृग-जल की मरुस्थली ही पावें।

आमिष भोजी पशु अन्न छोड़ जाते हैं,
 हम जर उनका भी अंश मार खाते हैं।
 मेरा मन है, मैं कन्दमूल-फल खाऊँ,
 जीवन को भोजन-लक्ष कभी न बनाऊँ।
 रसना के रहते सहज नहीं रस-वर्जन,
 तब भी इस वन का करो अवश्य विसर्जन।
 पलकर जब तक शिशु हरिण हरित मृदु तृण से
 हो जायँ तरुण ही नहीं, सुक्त पितृ-शृण से।
 आशीष न दें तो त्रास टला वे मानें,
 सम्प्रति निज जीवन यहाँ सुरक्षित जानें।
 वे सुख से विचरें-चरें, उद्वलकर कूदें,
 उठते सींगों से घने घनों को हूदें।^{११}

धाकर नरवर कुछ पुलक और कुछ व्रीडा
 दृग मूँद देखने लगे मृगों की क्रीडा।
 अनुगत कृष्णा युत अनुज संग थे उनके,
 जब चत्ते, शकुन वे ही कुरंग थे उनके।

जयद्रथ

सभी कहीं व्रज की राधा निज धन का ध्यान लगाये ,
भवन भवन में वन वन में है उत्सुक अलख जगाये ।
जहाँ राम की बाट, वहाँ भी रावण आ जाता है ,
वार वार मरकर भी पापी पुनर्जन्म पाता है !

आश्रम में कृष्णा कदम्ब की शाखा धरे खड़ी थी ,
मानो किसी कुशल शिल्पी ने मन की मूर्ति गड़ी थी ।
ढँक न पा रही थीं आँखों को ढली हुई भी पलकें ,
प्राण-प्रतिष्ठा का प्रमाण-सा देती थीं उड़ अलकें ।
पागडव कहीं गये थे, सहसा वहाँ जयद्रथ आया ,
उसने पथ में पड़ी हुई-सी पाई मन की माया ।
“प्रेयसि कृष्णे !” भिन्न कंठ से सुनकर कृष्णा चौंकी ,
मानो मीठी छुरी किसीने आकर उर में भाँकी ।
फटपट पट सँभाल कर उसने देख उसे पहचाना ,
हँस भू-चाप उतार लिया जो अभी अभी था ताना ।

“ओहो ! तुम तो ननदेज हो, यहाँ अचानक कैसे ?
 आओ, किसे पता था, मेरे भाग्य आज हैं ऐसे ।
 स्वामी आते होंगे, तब तक अर्ध-पाद्य मैं लाऊँ ।”
 “रहो, रहो, यह रस खोकर क्यों कोरा पानी पाऊँ ?”
 “जनद दुःशला तो अच्छी है, जो हम सबकी प्यारी !”
 “अच्छी है, पर क्या तुम जैसी ? तुम्हीं कहो सुकुमारी !”
 “आज हँसी के योग्य नहीं मैं, यद्यपि तुम अधिकारी ।”
 “सखि, सचमुच रोना आता है यह गति देख तुम्हारी !
 फूल वही जो काँटों में भी पथ निकाल लेता है,
 धिक अन्वड़ को, तोड़ धूलि में उसे डाल देता है ।
 आत्मा - रस से रत्न - पीठ को जो रंजित करते थे,
 जिनके नूपुर कल हंसों का मद गंजित करते थे,
 वे पद, उन्हें चूम लूँ आहा ! मैं आँखों से धोकर,
 काँटों में रह रहे रक्त के आँसू अब रो रोकर !
 चूड़ामणि-विहीन रूखे-से रहे न जो धुँघराले,
 उतरों गुरियों के उरगों की समता करने वाले !
 अपने इन उलके केशों से, होकर भी वर वामा
 शैवलपूर्ण ग्रीष्म-सरिता-सी तुम हो क्षीणा-क्षामा ।
 शय्य बनाकर जिन क्रूरों ने यह दिन तुम्हें दिखाया,
 क्या उनकी करनी का तुमने लेखा उन्हें लिखाया ?
 विस्मय, उन्हीं अगण्यों को तुम अब भी यों भजती हो,
 कापुरुषों को लक्ष्मी-सी क्यों त्वरित नहीं तजती हो ?
 अभी कुटी क्या योग्य तुम्हारे, सुनो, न भृकुटी तानो,
 सिन्धुराज्य का मणि-सिंहासन अब भी अपना जानो ।”

“तब दुःशला कहाँ जावेगी ? वह कुछ नहीं कहेगी ?”
 “मैं कहता हूँ, सदा तुम्हारी दासी बनी रहेगी ।”
 “आर्या को दासी करते हो, जाति तुम्हारी जानी,
 मेरे प्रभु रखते हैं अब भी मुझे बनाकर रानी ।
 अपने को—सुझको भी हारे, धर्म नहीं वे हारे,
 पंचतत्वमय इस तनु के हैं प्राणों से भी प्यारे ।
 सावधान, मैं सुन न सकूँगी बात और अब आधी,
 अपनी चिन्ता करो, न हो तुम औरों के अपराधी ।”
 “नर ही अपराधी होता है, निरपराध है नारी ।”
 “स्वयं सिद्ध यह सत्य, भले तुम व्यंग्य करो कुविचारी ।”
 “यह भी अंगीकार मुझे है, यदि मैं तुमको पाऊँ,
 दोषी बूँ और फिर भी क्या कोरा ही रह जाऊँ ?”
 सहसा दोनों हाथ दुष्ट ने उसकी ओर बढ़ाये,
 एक कपोती पर मानो दो दुर्द्धर विषधर धाये ।
 करके तब तनु लता संकुचित कुंचित भृकुटी वाली,
 पीछे हट, झोंका-सा खाकर बोली यों पांचाली—
 “ठहर अनार्य दस्यु, तू मेरा नहीं, मृत्यु का कामी,
 दूर नहीं, मैं देख रही हूँ लौट रहे हैं स्वामी ।”
 आकर जो कर धरा ढीठ ने, देकर फट से फटका,
 उसे छुड़ा पद रज में उसको पांचाली ने पटक़ा ।
 फ़पट जयद्रथ बना बाध-सा उसे मृगी-सी धरके,
 रथ में डाल त्वरित तस्कर-सा भागा पर-धन हरके ।
 “आध्रो, अहो ! बचाओ कोई, घातक ने गो घेरी,
 जो कोई भी पुरुष पास हो, उसे लाज है मेरी ।”

हुई जयद्रथ को दुर्गति से आत्मग्लानि भयंकर ,
जाकर किया कठिन तप उसने, प्रकट हुए प्रलयंकर ।
उसको यह वर दिया उन्होंने—“जब अक्सर आवेगा ;
अर्जुन-विना पाण्डवों पर तू एक विजय पावेगा ।”

अतिथि और आतिथेय

पाकर दुर्योधन से तोष ,
दुर्वासा तनुधारी रोष .
तोड़ दया-माया के तन्तु ,
हुए युधिष्ठिर के आगन्तु ।
मुनि थे और शिष्य-समुदाय ,
असमय में हो कौन उपाय ?
केवल मधुर वचन थे हाय ,
जो स्वागत में हुए सहाय ।
शिष्य न थे गुरु जैसे क्रूर ,
वे लज्जित ही थे भरपूर ।
बोला प्रमुख—“सिद्ध हो भोग ,
तब तक स्नान करें हम लोग ।”
“अच्छा !” बोले गुरु गम्भीर ,
गये सभी सरिता के तीर ।
इधर द्रौपदी हुई अधीर ,
भर आया नयनों में नीर ।

अतिथि और अतिथेय

टूट गया साहस का बाँध ,
“दूँ मैं अपना आमिष रौंध ,
सरे कहीं उससे यह काज ,
कैसे रहे हमारी लाज !
नहीं शाप का उतना त्रास ,
यह गार्हस्थ्य धर्म का ह्रास ।
हम हैं अभिशापों के लक्ष्य ,
मिले किन्तु भूखों को भक्ष्य ।
रक्षक धर्म रक्ष्य भी आप ,
मुझे उसीका है संताप ।
नहीं आज घर में कण शेष ,
चिर बाधा का यह विद्वेष !
रिक्त हो चुका मेरा पात्र ,
प्रस्तुत शेष मात्र यह गात्र ।
अब क्या होगा मेरे राम !
बरसा दो कुछ हे घनश्याम !”
“कृष्णे, भय की है क्या बात !
जाओ तुम चारों हे तात !
लाओ जो कुछ हो द्रुत लब्ध ,
द्विपा नहीं अपना प्रारब्ध ।
क्रोधी हों, पर मुनि क्या मूढ़ ?
ज्ञात उन्हें वह भी, जो गूढ़ ।
आज दैन्य में ही हम दूत ,
करें उन्हें श्रद्धा से तृप्त ।”

उधर शिष्य-समुदाय समग्र
था गुरु की लघुता से व्यग्र ।
उसमें चुने चतुर दो चार
मिल कर करने लगे विचार ।
“निश्चय ही यह निर्वृण पाप ,
करने चले जिसे हम आप !”
“करके आतिथेय को नष्ट ,
आतिथि-धर्म भी होगा भ्रष्ट ।”
“देख हमारा दुर्व्यवहार ,
अवश गृही पर अत्याचार ,
कौन करेगा किसी प्रकार ,
आगत का स्वागत सत्कार ?
सफल न हो दुर्योधन दुष्ट ,
और न हों गुरुवर भी रुष्ट ,
निभें युधिष्ठिर-से नर-रत्न ,
एक साथ हैं तीन प्रयत्न ।
आया समझ हमें स्वच्छन्द ,
हुआ उन्हें जो परमानन्द ,
रहा उसीका उनको बोध ,
भूल गये वे काल-विरोध ।
देख हमें असमय समवेत ,
हुआ द्रौपदी का मुख श्वेत ।

दीखा फिर लज्जा से लाल ,
 भुका भार-सा पाकर भाल !
 सान्ध्य प्रकृति प्रतिपल के संग
 पलट शून्य में जैसे रंग ,
 छिपे अन्त में निज मुख ढाँप ,
 भीतर गईं गेहिनी काँप !
 जिनको सारा भूतल भोग्य ,
 क्या वे इस संकट के योग्य ?
 धिक दुर्योधन, धिक हम लोग ,
 धिक यह अक्षेमंकर योग ।
 इस खोटी करनी से ऊब
 मरें भले हम जल में डूब ।”
 किन्तु मग्न होकर निश्चिन्त
 उभरे वे ज्यों प्रस्फुट पद्म ।
 बोले—“क्या विस्मय व्यापार ,
 हुआ स्नान में ही आहार !”
 “सचमुच, सचमुच ।” कह दो वार
 ली गुरु ने भी एक डकार ।
 “दिया कृष्ण ने जिन्हें प्रसाद ,
 दूँ उनको क्या आशीर्वाद ?
 कह आश्रो कोई यह बात—
 “स्वयं तप्त हम सब हे तात !”—”

यत्त

“आहा मेरी अरिणि - मथानी !”
गूँजी वटु की व्याकुल वाणी—
“यह देखो, वह हरिण अभागा
सींगों में उलझाकर भागा ।”
सुनकर सब पाण्डव घबराये ,
धनुर्बाण लेकर उठ धाये ।
मृग था माया मृग-सा सीखा
कहाँ जा छिपा दीखा - दीखा ?
पाँचों उसे खोज थक हारे ,
फिरे गहन में मारे मारे ।
देख एक वट भूत्ते भटके ,
वहाँ साँस लेने को अटके ।
रोम रोम से बहा पसीना ,
चाहा सबने पानी पीना ।
देख प्रथम पादप पर चढ़कर
गये नकुल जल लेने बढ़कर ।

हुआ परन्तु विफल उनका श्रम ,
 अन्य अनुज भी गये यथा क्रम ।
 होकर चिन्ता से अति अस्थिर ,
 चले अन्त में आप युधिष्ठिर ।
 जब तडाग-तट पर वे आये ,
 मृत-से अनुज उन्होंने पाये ।
 हुए स्वयं भी जड़ वे शव-से
 और दग्ध मन के वन-द्व से ।
 फिर भी धीर भाव की दीक्षा ,
 लेने - देने चली परीक्षा ।
 आकृति बिगड़ी न थी किसीकी ,
 उनको आशा बँधी इसीकी ।
 बढ़े वीर पानी लेने को ,
 उन सबको छींटे देने को ।
 शब्द हुआ—“जल पीछे लेना ,
 पहले सुम्को उत्तर देना ।
 न हो अन्यथा अनुजों की गति ,
 देख रहे हो तुम जो सम्प्रति ।”
 “भाई, कह तू कौन कहाँ है !”
 “समझो यज्ञ अलक्ष यहाँ है ।”
 “तो क्या इष्ट अन्य गति सुम्को ?
 किन्तु फूटना है क्या तुम्को ?
 यथा बुद्धि मैं उत्तर दूँगा ,
 तात, त्वरा कर, उपकृत हूँगा ।

तेरी वाणी में जो गुण है ,
रूप दिखाता वह दारुण है ।
किन्तु दीखता मुझे हृदय है ,
निश्चय ही वह करुणामय है ।”
गुह्यक गिरा सौम्य हो आई ,
करका ने ज्यों द्रवता पाई ।
किये प्रश्न उसने मन भाये,—
आप उत्तरों में वे आये ।

“विविध श्रुति-स्मृतियाँ कल्याणी ,
भिन्न भिन्न मुनियों की वाणी ।
गूढ़ धर्म गति, पूछूँ किससे ,
पथ वह, गये महाजन जिससे ।
सबसे निश्चित यही बात है—
काल लगाये हुए घात है ।
कर्मों का ही वहाँ भरोसा ,
यहाँ जिन्हें है पाला-पोसा ।
नित्यप्रति बहु जन मरते हैं ,
तदपि मृत्यु से हम डरते है ।
इससे अधिक कौन विस्मय है ,
जो निश्चित है, उससे भय है !
उर्वी से गुर्वी है माता ,
पिता व्योम से ऊँचा जाता ।

गृहिणी से है गृह की गृहता ,
 सुख है शील, शान्ति निःस्पृहता ।
 लोभ-हानि ही लाभ-वृद्धि है ,
 सत्संगति ही लोक-सिद्धि है ।
 स्थिर वह, जिसे नहीं कुछ देना ,
 सन्तोषी को है क्या लेना ?
 अग्नि विना है क्रोध जलाता ,
 परहित परम तृप्ति का दाता ।
 कुल तो है चारित्र्य हमारा ,
 अविचल क्या है, चलती धारा ।
 क्या है भिन्न गुणों की निजता ,
 शूद्र शूद्रता, द्विज की द्विजता !
 व्यर्थ विशुद्धि गर्व है किमको ?
 जातिवर्ण कहते हैं जिसको !
 काम धर्म से युक्त वहाँ है ,
 पति-पत्नी-व्रत एक जहाँ है ।
 दया-दान में अर्थ - शुद्धि है ,
 मोह नहीं तो विमल बुद्धि है ।
 अविश्वस्त भी जो है प्यारा ,
 वह जन का जीवन ही न्यारा ।
 तप है, जो निज कर्म करें हम ,
 सत्य - अहिंसा धर्म धरें हम ।”
 “साधु, तुम्हारे शुभ विवेक को !
 चारों में तुम चुनो एक को !

उस जन को मैं अभी जिला दूँ ,
 स्फुरित हृदय से हृदय मिला दूँ ।”
 यह सुन पल भर रुके युधिष्ठिर ,
 गद्गद से होकर बोले फिर—
 “जगे नकुल दीपक-सा घर का ,
 प्रिय प्रतिविम्ब श्यामसुन्दर का !”
 “भूल भीम-अर्जुन-से भाई ,
 तुम्हें नकुल की सुध क्यों आई ?
 कहाँ समर्थ भीम - सा आता ?
 और कौन अर्जुन - सा आता ?
 हुए शोक से नष्टस्मृति तुम ,
 फिर से करो विचार लुकति तुम ।”
 “तात, विचार लिया है मैंने ,
 अनुचित नहीं किया है मैंने ।
 दीखे चाहे सुभे अँधेरा ,
 पर आत्मीय धर्म ही मेरा ।
 भीमार्जुन से भी वह पहले ,
 उसकी हानि कौन जन सहले ?
 धर्म-हेतु जीवित मैं जग में ,
 मर भी सकूँ उसीके मग में ।
 रक्षक वही रक्ष्य इस जन का ,
 लक्षक और लक्ष्य जीवन का ।
 मेरी दो माताएँ विश्रुत ,
 जीवित हूँ मैं कुन्ती का सुत ।

जिये नकुल यह माद्री-नन्दन,—
मेरे तस चित्त का चन्दन।”
“जय भारत, जब दृढ़ता-दीक्षित,
हुए तात, तुम सफल परीक्षित।
चारों ही प्राणों से प्यारे,
सभी उठेंगे अनुज तुम्हारे।
आओ, तब तक दुष्करो मेटो,
मन की दुश्चिन्ताएँ मेटो।
मैंने ही था मृग-तनु धार,
मूर्त्त धर्म मैं तात, तुम्हारा।”

अज्ञात वास

पल पल कर होते युग व्यतीत ,
कटते हैं सब तप और शीत ।
सुख-दुःख-दिवस पल-युग-समान
हैं अस्त - हेतु ही भासमान ।

आया समाप्ति पर जब उदास
बारह वर्षों का विपिन - वास ,
दीखा उससे भी सुदुर्द्धर्ष ,
अज्ञात वास का एक वर्ष ।
साथी थे जो कर कठिन टेक ,
मुनि धौम्य सहित ऋत्विज अनेक ,
अब छूटेंगे वे भी समस्त ;
हो गये युधिष्ठिर व्यग्र - व्यस्त ।
“जब गया दैव तक हमें त्याग ,
तब भी अपनाकर सानुराग ,

जो दिया आप सबने प्रसाद ,
 वह अतुलनीय है निर्विवाद ।
 हम थे यद्यपि धन-विभव-हीन ,
 फिर भी मानो चिर - यज्ञ लीन ।
 यह कृपा आपकी ही उदार ,
 लघु हुआ हमारा भूरि भार ।
 चिर संग-वास में सहज चूक ,
 बन जाय वही फिर क्यों न हूक ।
 पर भूल हमारे सुलभ दोष ,
 दिखलाते आये आप तोष ।
 जन रहे कहों तक्र सावधान ,
 हम तो थे विमना विगतमान ।
 अक्षम्य न हो यदि विनय-भंग ,
 चिर वाञ्छनीय यह साधु-संग ।
 हम जिनसे पाते रहे शक्ति ,
 साहस - श्रद्धा - विश्वास - भक्ति ,
 दे चले उन्हें भी आज पीठ ,
 जैसे कोई अकृतज्ञ ढीट ।”
 हो गया युधिष्ठिर - कंठरोध ,
 तब दिया उन्हें सबने प्रबोध ।
 “सच्चे हैं यदि व्रत-नियम-धर्म
 तो वही तुम्हारे त्राण - वर्म ।
 नर - रूप तुम्हारे जो अरिष्ट ,
 उनके प्रति भी तुम साधु-शिष्ट ।

झुव जाने जिनकी बात शत्रु ,
 तुम-से तुम आप अजातशत्रु ।
 तुम धर्म-भीरु हो दृढ़-प्रतिज्ञ ,
 जिज्ञासु-रूप में तत्त्व-विज्ञ ।
 स्वर तुल्य, एक ही सद्विचार ,
 सुन सकते हो तुम वार वार ।
 बहुतों को है इतिवृत्त - बोध ,
 ऐसे भी हैं , जो करें शोध ।
 तुम हो परन्तु वे पुरुष भव्य ,
 रचते हैं जो इतिहास नव्य !
 छिप अवतारों में आप विष्णु ,
 होते हैं लीलाशील जिष्णु ।
 होंगे तुम भी विजयी विनीत ,
 अवशेष एक तप, एक शीत ।
 तुम से, जिनके प्रिय पद्मनाभ ,
 पाया हमने भी सुकृत - लाभ ।^{१९}
 झूकर कराग्र से नम्र शीम
 द्विज गये उन्हें देकर असीम ।

तब किया युधिष्ठिर ने विचार ,
 “दीपक के नीचे अंधकार ।
 हम दूर न जाकर रहें पास ,
 शुभ है विराट नृप-गृह-निवास ।

रखकर मैं अपना नाम कंक ,
 हूँगा नृप का पंडित अशंक ।”
 हँस कहा वृकोदर ने विचार—
 “मैं बना बनाया सूपकार ।”
 अर्जुन बोले—“रख अनर वेष ,
 बन वृहच्चला नर्त्तिक विशेष ,
 पूरा करके उर्वशी - शाप ,
 काटूँगा मैं अज्ञात पाप ।
 यदि राज-सुता कृतकृत्य मान
 सीखेंगी सुभ्रमे नृत्य - गान ,
 तो पाकर स्वयं निरोध - वास ,
 मैं निभ जाऊँगा अनायास !”
 बोले माद्री माँ के प्रतीक—
 “हम अश्वपाल - गोपाल ठीक ।”
 कृष्णा बोली—“हा भारथ भोग्य !
 तुम सब क्या ऐसे कष्ट योग्य ?
 तुम पर भी ऐसी भीर आज ,
 तो मैं क्यों बनूँ अधीर आज !
 रानी की दासी बन सहर्ष
 काटूँगी मैं भी एक वर्ष ।”
 “कृष्णो, सह लो यह शेष ताप ,
 सक्षम हो तुम, अक्षम न आप ।
 निर्दय हो चाहे सदय देव ,
 रक्त्वं स्वधर्म हम सब सदैव ।”

जय भारत

यह विश्चय करके उत्ती रात
हो गये वहाँ से वे प्रयात ।
आश्रम यों सूना था प्रभात ,
ज्यों प्राण रहित रह जाय गात !

सैरन्ध्री

जब विराट के यहाँ वीर पाण्डव रहते थे ,
छिपे हुए अज्ञात वास-बाधा सहते थे ,
एक वार तब देख द्रौपदी की शोभा अति ,
उस पर मोहित हुआ नीच कीचक सेनापति ।
यों प्रकट हुई उसकी दशा दृगोचर कर रूपवर ,
होता अधीर ग्रीष्मार्त्त गज ज्यों पुष्करिणी देखकर ।

यद्यपि दासी बनी वसन पहने साधारण ,
मलिनवेश द्रौपदी किये रहती थी धारण ।
वसन-वहिन-सी तदपि छिपी रह सकी न शोभा ,
उस दर्शक का चित्त और भी उस पर लोभा ।
अति लिपटी भी शेवाल में कमल-कली है सोहती ,
घन-सघन-घटा में भी घिरी चन्द्रकला मन मोहती ।

सतियाँ पति के लिए सभी कुछ कर सकती हैं ,
 और अधिक क्या, मोद मान कर मर सकती हैं ।
 नृप विराट की विदित सुदेष्णा थी जो रानी ,
 दासी उसकी बनी द्रौपदी परम सयानी ।
 थी किन्तु देखने में स्वयं रानी की रानी वही ,
 कीचक की, जिसको देखकर, सुध-बुध सब जाती रही ।

कीचक मूढ़, मदान्ध और अति अन्यायी था ,
 नृप का साला तथा सुदेष्णा का भाई था ।
 भट - खानी वह मत्स्यराज का था सेनानी ,
 गर्व सहित था सदा किया करता मनमानी ।
 रहते थे स्वयं विराट भी उससे सदा सशंक-से ,
 कह सकते थे न विरुद्ध कुछ अधिकारी आतंक से ।

तृप्त न होकर रम्य रूप - रस की तृष्णा से ,
 बोला वह दुर्वृत्त एक दिन यों कृष्णा से—
 “सैरन्ध्री, किस भाग्यशील की भार्या है तू ?
 है तो दासी, किन्तु गुणों से आर्या है तू ।
 मारा है स्मर ने शर मुझे तेरे इस भ्रू-चाप से ,
 अब कब तक तड़पूँगा भला विरहजन्य सन्ताप से ।”

“सावधान हे वीर, न ऐसे वचन कहो तुम ,
मन को रोको और संयमी बने रहो तुम ।
मेरा भी है धर्म उसे क्या खो सकती हूँ ?
अबला भी चंचला कहाँ मैं हो सकती हूँ ?
मैं दीना-हीना हूँ सही, किन्तु लोभ, - लीना नहीं ,
करके कुकर्म संसार में सुभको है जीना नहीं ।

मेरे प्रभु हैं पाँच देव प्रच्छन्न निवासी ,
तन - मन - धन से सदा उन्हींकी हूँ मैं दासी ।
बड़े भाग्य से मिले मुझे ऐसे स्वामी हैं ,
धर्म - रूप वे सदा धर्म के अनुगामी हैं ।
इसलिए न छोड़ो तुम मुझे, सह न सकेंगे वे इसे ;
श्रुत भीम-पराक्रम-शील वे मार नहीं सकते किसे ?”

कीचक हँसने लगा और फिर उससे बोला—
सैरन्ध्री, तेरा स्वभाव है सचमुच भोला ।
तुझसे बढ़कर और पुण्य का फल क्या होगा ?
जा सकता है यहीं स्वर्ग-सुख तुझसे भोगा ।
भय रहने दे, जय बोल तू, मेरा कीचक नाम है ,
तेरे प्रभु - पंचक से मुझे चिन्त्य पंचशर काम है ।

मैं तेरा हो चुका, तू न होगी क्या मेरी ?
पथ - प्रतीक्षा किया करूँगा कब तक तेरी ?
आज रात में दीप शिखा-सी तू आ जाना ,
दृष्टि-दान कर प्राण-दान का पुण्य कमाना ।
जो मूर्ति हृदय में है बसी, वही सामने हो खड़ी ,
आ जावे भटपट वह घड़ी यही लालसा है बड़ी ।”

यह कहकर वह चला गया उस समय दम्भ से ,
कृष्णा के पद हुए विपद-भय-जड़-स्तम्भ-से ।
जान पड़ा वह राजभवन गिरि-गुहा सरीखा ,
उसमें भीषण हिंस्र जन्तु-सा उसको दीखा ।
वह चकित मगी-सी रह गई आँखें फाड़ बड़ी बड़ी ,
पर कटी पच्छिमी व्योम को देखे ज्यों भू पर पड़ी ।

बड़ी देर तक खड़ी रही वह हिली न डोली ,
फिर अचेत-सी अकस्मात् चिल्लाकर बोली—
“हे क्या कोई, मुझे बचाओ, करो न देरी ,
मैं अबला हूँ आज लाज लुट जाय न मेरी ।
ऊपर नीचे जो भी सुनें, मेरी यही पुकार है—
जिसको सद्धर्म विचार है, उस पर मेरा भार है ।”

भीगी कृष्णा इधर झाँसुओं के पानी से ,
 कीचक ने यों कहा उधर जाकर रानी से—
 “सैरन्ध्री - सी सखी कहाँ से तुमने पाई ?
 बहन, कहो यह कौन कहाँ से कैसे आई ?
 देवी-सी दासी रूप में दीख रही यह भामिनी ,
 बन गई तुम्हारी सेविका मेरे मन की स्वामिनी !”

सुन भाई की बात बहन ठिठकी, फिर बोली—
 “ठहरो भैया, ठीक नहीं इस भाँति ठठोली ।
 भाभी हैं क्या यहाँ, चिढ़ें जो यह कहने से ,
 और मोद हो तुम्हें, विनोद - विषय रहने से ।
 अपमान किसीका जो करे, वह विनोद भी है बुरा ,
 यह सुनकर ही होगी न क्या सैरन्ध्री चोभातुरा ?

मैं भी उसको पूर्णरूप से नहीं जानती ,
 एक विलक्षण बधू मात्र हूँ उसे मानती ।
 सुनो, कहूँ कुछ वृत्त कि वह है कैसी नारी ,—
 उस दिन जब अवतीर्ण हुई, सन्ध्या सुकुमारी ,
 बैठी थी मैं विश्रान्ति से सहचरियों के संग में ,
 होता था वचन - विलास कुछ हास्य-पूर्ण रस-रंग में ।

जय भारत

वह सहसा आ खड़ी हुई मेरे प्रांगण में ,
जय - लक्ष्मी प्रत्यक्ष खड़ी हो जैसे रण में !
वेश मलिन था, किन्तु रूप आवेश भरा था ,
था उद्देश्य अवश्य, किन्तु आदेश भरा था ।
सुख शान्त दिनान्त समान ही, निष्प्रभ किन्तु-पवित्र था ;
लभ के अस्फुट नक्षत्र-सा, हार्दिक भाव विचित्र था ।

मुझ पर आदर दिखा रही थी, पर निर्भय थी ,
अनुनय उसमें न था, सहज ही वह सविनय थी ।
नेत्र बड़े थे, किन्तु दृष्टि थी सूक्ष्म बड़ी ही ,
सबके मन में पैठ बैठ वह गई खड़ी ही !
वह हास्य बीच में ही रुका, सचाटा - सा छा गया ,
मेरे गौरव में भी स्वयं कुछ घाटा - सा आ गया !

मुद्रा वह गम्भीर देख सब रुकीं, जकीं-सी ,
और दृष्टियाँ एक साथ सब झुकीं, थकीं-सी ।
काले काले बाल कन्धरा ढके खुले थे ,
गुँथे हुए-से व्याल मुक्ति के लिए तुले थे ।
हक्पात न करती थी तनिक सौध-विभव की ओर वह ,
क्या कहूँ, सौम्य वा घोर थी, कोमल थी कि कठोर वह !

सहसा मैं उठ खड़ी हुई उठ खड़ी हुई सब ,
 पर नीरव थीं, आन्त भाव में पड़ी हुई सब ।
 किया ससम्भ्रम प्रश्न अन्त में मैंने ऐसे
 'भद्रे, तुम हो कौन और आई हो कैसे ?'
 उसके उत्तर के भाव का लक्ष्य न जाने था कहाँ ?
 'मैं ? हाँ मैं अबला हूँ तथा आश्रयार्थ आई यहाँ ।

इस पर निकला यही वचन तब मेरे मुख से ,
 'अपना ही घर समझ यहाँ ठहरो तुम सुख से ,'
 आश्रयार्थिनी नहीं, वस्तुतः अतिथि बनी वह ,
 नहीं सेविका, किन्तु हुई मेरी स्वजनी वह ।
 अनुचरियों को साहस नहीं, समझे उसे समान वे ;
 रह सकती नहीं किये विना उसका आदर-मान वे ।

बहुधा अन्यायमनस्क दिखाई पड़ती है वह ,
 मानो नीरव आप आपसे लड़ती है वह ।
 करती करती काम अचानक रुक जाती है ,
 करके ग्रीवा - भंग भोंक-से झुक जाती है ।
 बस भर सँभाल कर चित्त को श्रम से वह थकती नहीं ,
 पर भूल करे तो भर्त्सना मैं भी कर सकती नहीं ।

जय भारत

कार्य-कुशलता देख देख उसकी विस्मय से ,
इच्छा होती है कि बड़ाई करें हृदय से ।
किन्तु दीर्घ निःश्वास उसे लेते निहार कर ,
रखना पड़ता मौन भाव ही स्वयं हार कर ।
कुछ भेद पूछने से उसे होता मन में खेद है ,
अति असन्तोष है पर उसे यांचा से निर्वेद है ।

ऐसी ही दृढ़ जटिल - चरित्रा है वह नारी ,
दुखिया है, पर कौन कहे उसको बेचारी ।
जब तब उसको देख भीति होती है मन में ,
तो भी उस पर परम प्रीति होती है मन में ।
अपना आदर मानो दया करके वह स्वीकारती ,
पर दया करो तो वह स्वयं, वृणा भाव है धारती ।

वृद्ध-भिन्न-सी लता, तदपि उच्छिन्न नहीं वह ,
मेरा सद्व्यवहार देख कर खिन्न नहीं वह ।
जान सकी मैं यही बात उस गुणवाली की ,
आली है वह विश्व-विदित उस पांचाली की ,
जो पंच पाण्डवों की प्रिया प्रिय-समेत प्रच्छन्न है ,
बस इसीलिए वह सुन्दरी सम्प्रति व्यग्र - विपन्न है ।

किन्तु तुम्हें यह उचित नहीं जो उसको छोड़ो ,
 बुनकर अपना शौर्य-यशःपट यों न उधेड़ो ।
 गुप्त पाप ही नहीं, प्रकट भय भी है इसमें ,
 आत्म-पराजय मात्र नहीं, क्षय भी है इसमें ।
 सब पाण्डव भी होंगे प्रकट, नहीं छिपेगा पाप भी ,
 सहना होगा इस राज्य को अबला का अभिशाप भी ।”

“बहन, किसे यह सीख सिखाती हो तुम,—सुभको ?
 किसे धर्म का मार्ग दिखाती हो तुम,—सुभको ?
 व्यर्थ, सर्वथा व्यर्थ, सुनूँ-देखूँ क्या अब मैं ,
 सारी सुध - बुध उधर गँवा बैठा हूँ जब मैं ।
 उस मृगनयनी की प्राप्ति ही, है सुकीर्ति मेरी, सुनो ।
 चाहो मेरा कल्याण तो, कोई जान तुम्हीं बुनो ।”

वह कामी निर्लज्ज नीच कीचक यह कह कर ,
 चला गया, मानो अधैर्य - धारा में बह कर ।
 उसकी भगिनी खड़ी रही पाषाण - मूर्ति - सी ,
 आता के भय और लाज की स्वयं पूर्ति-सी ।
 देखा की डगमग चाल वह उसकी अपलक दृष्टि से ,
 जो भींग रही थी आप निज, घोर घृणा की वृष्टि से ।

“राम-राम ! यह वही बली मेरा आता है ,
कहलाता जो एक राज्य भर का आता है ।
जो अबला से आज अचानक हार रहा है ,
अपना गौरव, धर्म, कर्म, सब वार रहा है ।
क्या पुरुषों के आरिद्र्य का, यही हाल है लोक में !
होता है पौरुष पुष्ट क्या, पशुता के ही ओक में !

सुन्दरता यदि विधे, वासना उपजाती है ,
तो कुल-जलना हाय ! उसे फिर क्यों पाती है !
काम-रीति को प्रीति नाम नर देते हैं बस ,
कीट तृप्ति के लिए लूटते हैं प्रसून-रस ।
यदि पुरुष जनों का प्रेम है पावन नेम निवाहता ,
तो कीचक मुझ-सा क्यों नहीं, सैरन्ध्री को चाहता !

सैरन्ध्री यह बात श्रवण कर क्या न कहेगी ,
वह मनस्विनी कभी मौन अपमान सहेगी !
घोर घृणा की दृष्टि मात्र वह जो डालेगी ,
मुझको विष में बुझी अनी-सी वह सालेगी ।
ऐसे भाई की बहन मैं, हूँगी कैसे सामने !
होते हैं शासन-नीति के दोषी जैसे सामने !

किन्तु इधर भी नहीं दीखती है गति मुझको ,
 उभय ओर कर्त्तव्य कठिन है सम्प्रति मुझको ।
 विफलकाम यदि हृष्णा हठी कीचक कामातुर ,
 तो क्या जाने कौन मार्ग ले वह चिर निष्ठुर ।
 राजा भी डरते हैं उसे, वह मन में किससे डरे ,
 क्या कह सकता है कौन, वह जो कुछ भी चाहे, करे ।

इससे यह उत्पात शान्त हो तभी कुशल है ।
 विद्रोही विख्यात बली कीचक का बल है ।
 नहीं मानता कभी क्रूर वह कोई बाधा ,
 राज्य-सैन्य को युक्तियुक्त है उसने साधा ।
 सैरन्ध्री सम्मत हो कहीं, तो फिर भी सुविधा रहे ,
 पर मैं रानी दूती बचूँ, इसे हृदय कैसे सहे ।”

मन ही मन यह सोच समय को देख सयानी ,
 सैरन्ध्री से प्रेम सहित बोली यों रानी—
 “इतने दिन हो गये यहाँ तुझको सखि, रहते ,
 किन्तु न देखी गई स्वयं तू कुछ भी कहते ।
 क्या तेरी इच्छा-पूर्ति की पा न सकूँगी प्रीति मैं ।
 विस्मित होती हूँ देखकर, तेरी निस्पृह नीति मैं ।”

सैरन्ध्री उस समय चित्र - रचना करती थी ,
हाथ तुला था और तूलिका रँग भरती थी ।
देख पार्श्व से मोड़ महा ग्रीवा, कुछ तन कर ,
हँस बोली वह स्वयं एक सुन्दर छवि बन कर—
“मैं क्या मागूँ जब आपने, यों ही सब कुछ है दिया ?
आज्ञानुसार वह दृश्य यह, लीजे, मैंने लिख लिया ।”

“क्रिया सहित तू वचन-विदग्धा भी है आली ,
हे तेरी प्रत्येक बात ही नई, निराली ।”
अह कह रानी देख द्रौपदी को मुसकाई ,
करने लगी सुचित्र देख कर पुनः बड़ाई ।
“अंकित की है घटना विकट, किस पटुता के साथ में ,
सच बतला जादू कौन-सा है तेरे इस हाथ में ?”

कुछ पुलकित कुछ चकित और कुछ दर्शक शंकित ,
चूप विराट युत एक और थे छवि में अंकित ।
एक और थी स्वयं सुदेष्या चित्रित अद्भुत ,
बैठी हुई विशाल झरोखे में परिकर युत ।
मैदान बीच में था जहाँ, दो गज मत्त असीम थे ,
उन हृदयन्तों के बीच में, वल्लव रूपी भीम थे ।

यही भीम-गज युद्ध चित्र का मुख्य विषय था ,
जय निश्चय के साथ साथ ही सबको भय था ।
पार्श्वों से भुजदंड वीर के चिपट रहे थे ,
उनमें युग करि-शुंड नाग से लिपट रहे थे ।
गज अपनी अपनी ओर थे उन्हें खींचते कक्ष से ,
पर खिंचे जा रहे थे स्वयं, भीम संग प्रत्यक्ष-से ।

निकल रहा था वक्ष वीर का आगे तन कर ,
पर्वत भी पिस जाय, अड़े जो बाधक बन कर ।
दक्षिण पद बढ़ चुका वाम अब बढ़ने को था ,
गौरव-गिरि के उच्च श्रृंग पर चढ़ने को था ।
मद था नेत्रों में दर्प का, मुख पर थी अरुणच्छटा ;
निकला हौ रवि ज्यों फोड़ कर, युगल गजों की घन घटा ।

रानी बोली—“धन्य तूलिका है सखि तेरी ,
कला - कुशलता हुई आप ही आकर चेरी ।
किन्तु आपको लिखा नहीं तूने क्यों इसमें ?
वह्म की प्रत्यक्ष जयश्री रहती जिसमें ?
उस पर तेरा जो भाव है, मैं उसको हूँ जानती ,
हँसती है लज्जा युक्त तू, तो भी भौंहे तानती ।

द्वेष जताने से न प्यार का रंग छिपेगा ,
 सौ ढोंगों से भी न कभी वह ढंग छिपेगा ।
 विजयी वल्लव लड़ा वन्य जीवों से जब जब ,
 सहमी सबसे अधिक अन्त तक तू ही तब तब ।
 फल देख युद्ध का अन्त में बची साँस-सी ले अहा ,
 बेरे मुख का वह भाव है, मेरे मन में बस रहा ।

कह तो लिख दूँ उसे अभी इस चित्र-फलक पर ,
 बात नहीं जो सुकर सके तू किसी फलक पर ।
 कह तो आँखें लिखूँ, नहीं जो यह सह सकती ,
 व तो देख सकती न विना देखे रह सकती ।
 ना लिखूँ कनौखी दृष्टि वह, विजयी वल्लव पर पड़ी ,
 नीचे मुख की मुसकान में मुग्ध हृदय की हँडबडी ?

वल्लव फिर भी सुपकार, साधारण जन है ,
 और उच्च पद-योग्य धन्य यह यौवन धन है ।”
 कृष्णा बोली—“देवि, आप कुछ कहें भले ही ,
 मुझको संशय-योग्य समझती रहें भले ही ।
 धर करती नहीं कदापि हूँ, कोई अव्युचित कर्म मैं ,
 दासी होकर भी आपकी, रखती हूँ निज धर्म मैं ।

लड़ता है नर एक कूर पशुओं से डट कर ,
 कौतुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर ।
 उस पर तदपि सहानुभूति भी उदित न हो क्या ,
 और उसे फिर जयी देख मन मुदित न हो क्या ?
 यदि इतने से ही मैं हुई, संशय योग्य कुघोष से ,
 तो क्षमा कीजिए, आप भी बचेंगी न इस दोष से ।

पद से ही मैं किन्तु मानती नहीं महत्ता ,
 चाहे जितनी क्यों न रहे फिर उसमें सत्ता ।
 स्थिति से नहीं, महत्व गुणों से ही बढ़ता है ,
 यों मयूर से गीघ अधिक ऊँचे चढ़ता है ।
 बल्लव सम वीर बलिष्ठ का, पक्षपात किसको न हो ,
 क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम-वासना है अहो !”

रानी ने हँस कहा—“दोष क्या तेरा इसमें ,
 रहती नहीं अपूर्व गुणों की श्रद्धा किसमें ?
 स्वाभाविक है काम-वासना भी हम सबकी ,
 और नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाती कब की ?
 मेरा आशय था बस यही तू उस जन के योग्य है ,
 अच्छी से अच्छी वस्तु इस भव की जिसको भोग्य है ।

रहने दे इस समय किन्तु यह चर्चा, जा तू,
क्रीचक को यह चारु चित्र जाकर दे आ तू।
भाई के ही लिए इसे मैंने बनवाया,
वल्लव का यह युद्ध बहुत था उसको भाया।
मेरा भाई भी है बड़ा, वीर और विश्रुत बली,
ऐसे कामों से ही सदा, खिलती है उसकी कली।”

तनकर तयोरी बदल गई कृष्णा की सहसा,
रानी का यह कथन हुआ उसको दुस्सह सा।
पालक का जी पत्नी सारिका यथा जला दे,
हाथ फेरते समय अचानक चोंच चला दे !
वह बोली—“क्या यह भूमिका, इसीलिए थी आपकी ?
यह बात ‘महत्पद’ के लिए है कितने परिताप की !”

कहा सुदेष्णा ने कि “अरी, तू क्या कहती है,
अपने को भी आप सदा भूली रहती है ?
करती हूँ सम्मान सदा स्वजनी सम तेरा,
तू उलटा अपमान आज करती है मेरा।
क्या मैंने आश्रय था दिया, इसीलिए तुझको, बता,
तू कौन और मैं कौन हूँ, इसका भी कुछ है पता !”

रानी के आत्माभिमान ने धक्का खाया ,
 सैरन्ध्री को भी न कार्य अपना यह भाया ।
 'क्षमा कीजिए देवि, आप महिषी मैं दासी ,
 कीचक के प्रति न था हृदय मेरा विश्वासी ।
 इसलिए न आपे में रही, सुनकर उसकी बात मैं ,
 सहती हूँ लज्जा युक्त हा ! उसके वचनाघात मैं ।

होकर उच्च पदस्थ नीच पथगामी है वह ,
 पापदृष्टि से मुझे देखता, कामी है वह ।
 नर होकर भी हाथ सत्ताता है नारी को ,
 अनाचार क्या कभी उचित है बलधारी को ?
 यों तो पशु-महिष-वराह भी, रखते साहस सत्त्व हैं ,
 होते परन्तु कुछ और ही, मनुष्यत्व के तत्व हैं ।

मुझे न उसके पास भेजिए, यही विनय है ,
 शील धर्म के लिए वहाँ जाने में भय है ।
 रखिए अबला-रत्न, आप अबला की लज्जा ,
 सुन मेरा अभियोग कीजिए शासन-सज्जा ।
 हा ! मुझे प्रलोभन ही नहीं, कीचक ने भय भी दिया ,
 सर्यादा तोड़ी धर्म की, और असंयम भी किया ।”

रानी कहने लगी—“शान्त हो, सुन सैरन्ध्री,
अपनी धुन में भूल न जा, कुछ गुन सैरन्ध्री !
भाई पर तो दोष लगाती है तू ऐसे,
पर मेरा आदेश भंग करती है कैसे ?
क्या जाने से ही तू वहाँ, फिर आने पाती नहीं,
होती है बातें प्रेम की, सफल भला बल से कहीं ?”

तू जिसकी यों वार वार कर रही बुराई,
भूल न जा, वह शक्ति - शील है मेरा भाई !
करता है वह प्यार तुझे तो यह तो तेरा
गौरव ही है, यही अटल निश्चय है मेरा !
तू है ऐसी गुण - शालिनी, जो देखे, मोहे वही,
फिर इसमें उसका दोष क्या, चिन्तनीय है बस यही !

तू सनाथिनी हो कि न हो उस नर-पुंगव से,
उदासीन ही रहे क्यों न वैभव से, भव से !
पर तू चाहे लाख गालियाँ दीजो मुझको,
मैं भाभी ही कहा करूँगी अब से तुझको !
जा, दे आ अब यह चित्र तू जाकर अपनी चाल से ।
हो गई मूढ़-सी द्रौपदी, इस विचित्र वाग्जाल से ।

बोली फिर “आदेश आपका शिरोधार्य है ,
होने को अनिवार्य किन्तु कुछ अशुभ कार्य है ।
पापी जन का पाप उसीका भक्षक होगा ,
मेरा तो ध्रुव धर्म सहायक, रक्षक होगा ।”
चलते चलते उसने कहा, नभ की ओर निहारके ,
“द्रष्टा हो दिनकर देव, तुम, मेरे शुद्धाचार के ।”

ठोका उसने मध्य मार्ग में आकर माथा ,
“रानी करने चली आज है मुझे सनाथा ।
विश्वनाथ हैं तो अनाथ हम किसको मानें ?
मैं अनाथ हूँ वा सनाथ, कोई क्या जानें ?
सुम्हको सनाथ करके स्वयं, पाँच गुना संसार में ,
हे विधे, बहाता है बता, अब तू क्यों मँझधार में ?

हठ कर मेरी ननद चाहती है वह होना ,
आवे इस पर हँसी मुझे वा आवे रोना ?
पहले मेरी ननद दुःशला ही तो हो ले ?
बन जाते हैं कुटिल वचन भी कैसे भोले ?
मैं कौन और वह कौन है, मैं यह भी हूँ जानती ।”
कर आप अघर-दंशन चली कृष्णा भौहें तानती ।

“आ, विपत्ति, आ, तुझे नहीं डरती हूँ अब मैं ,
देखूँ बड़ कर आप कि क्या करती हूँ अब मैं ।
भय क्या है, भगवान भाव ही मैं है मेरा ,
निश्चय, निश्चय जिसे हृदय, दृढ़ निश्चय तेरा ।
मैं अबला हूँ तो क्या हुआ ? अबलों का बल राम है ,
कर्मानुसार भी अन्त में शुभ सबका परिणाम है ।”

सैरन्ध्री को देख सहज अपने घर आया ,
कीचक ने आकाश-शशी भू पर - सा पाया ।
स्वागत कर वह उसे बिठाने लगा प्रणय से ,
किन्तु खड़ी ही रही काँप कर कृष्णा भय-से ।
चुपचाप चित्र देकर उसे ज्यों ही वह चलने लगी ,
त्यों ही कीचक की कामना उसको यों छलने लगी—

“सुसुखि, सुन्दरी मात्र तुझे मैं समझ रहा था ,
पर तू इतनी कुशल, बहन ने ठीक कहा था ।
इस रचना पर भला तुझे क्या पुरस्कार दूँ ?
तुझ पर निज सर्वस्व बोल मैं अभी वार दूँ ?”
बोली कृष्णा मुख नत किये “जमा कीजिए बस मुझे ;
कुछ पुरस्कार के काम मैं, नहीं दीखता रस मुझे ।

रचना के ही लिए हुआ करती है रचना ।”
 कृष्णा चुप हो गई कटिन था तब भी बचना ।
 बोला खल—“पर दिखा चुका जो ललित कला यह ,
 क्या चूमा भी जाय कुशल-कर वर न भला वह ?
 सैरन्ध्री, कहूँ विशेष क्या, तू ही मेरी सभ्पदा ;
 मेरे वश में यह राज्य है, मैं तेरे वश में सदा ।

हे अनुपम आनन्द-मूर्ति, कृशतनु, सुकुमारी ,
 बलिहारी यह रुचिर रूप का राशि तुम्हारी !
 क्या तुम हो इस योग्य, रहो जो बनकर चेरी ,
 सुघ-बुध जाती रही देख कर तुमको मेरी ।
 इन हृवाणों से विद्ध यह मन मेरा जब से हुआ ,
 है खान पान शयनादि सब विष समान तब से हुआ ।

अब हे रमणीरत्न, दया कर इधर निहारो ,
 मेरी ऐसी प्रीति नहीं कि प्रतीति न धारो ।
 मैं तो हूँ अनुरक्त, तनिक तुम भी अनुरागो ,
 रानी होकर रहो, वेश दासी का त्यागो ।
 होती है यद्यपि खान में किन्तु नहीं रहती पड़ी ;
 जाती है मणियाँ तो अन्त में राजमुकुट में ही जड़ी ।”

“रहने दो यह ज्ञान - ध्यान ग्रन्थों की बातें ,
 फिर फिर आती नहीं सुयौवन की दिन-रातें ।
 करिए सुख से वही काम, जो हो मनमाना ,
 क्या होगा मरणोपरान्त. किसने यह जाना ?
 जो भावी की आशा किये वर्त्तमान सुख छोड़ते ,
 वे मानो अपने आप ही निज हित से मुहँ मोड़ते ।”

कह कर ऐसे वचन वेग से विना विचारे ,
 आतुर हो अत्यन्त, देह की दशा विसारे ।
 सहसा उसने पकड़ लिया कर पांचाली का ,
 मानो किसलय गुच्छ नाग ने नत डाली का ।
 कीचक की ऐसी नीचता देख सती क्षोभित हुई ,
 कर चञ्चु चपल गति से चकित शम्पा-सी शोभित हुई ।

जो सकम्प तनु-यष्टि भूलती रज्जु सहश थी ,
 शिथिल हुई निर्जीव दीख पड़ती अति कृश थी ,
 आहा ! अब हो उठी अचानक वह हुंकारित ;
 ताव-पेंच खा बनी कालफणिनी फुंकारित ।
 अम न था रज्जु में सर्प का उपमा पूरी घट गई ,
 कीचक के नीचे की घरा मानो सहसा हट गई ।

“अरे नराधम, तुझे नहीं लज्जा आती है ?
निश्चय तेरी मृत्यु मुण्ड पर मँडराती है ।
मैं अबला हूँ, किन्तु न अत्याचार सहूँगी ,
तुझ दानव के लिए चंडिका बनी रहूँगी ।

मत समझ मुझे तू शशिशुधा खल, निज कल्मष राहु की
मैं सिद्ध करूँगी पाशता अपने वामा बाहु की

होता है यदि पुलक हमारी गलबाहों में ;
तो कालानल नित्य निकलता है आहों में !”
यों कहकर भट हाथ छुड़ाने को उस खल से ,
तत्क्षण उसने दिया एक भटका अति बल से ।
तब सहसा सुहँ के बल वहाँ मदीन्मत वह गिर पड़ा ,
मानो भङ्गा के वेग से पतित हुआ पाद बड़ा ।

तब विराट की न्याय सभा की नींव हिलाने ,
उस कामी को कुटिल कर्म का दंड दिलाने ।
केशों के ही भूरि-भार से खेदित होती ,
गई किसी विघ्न शीघ्र द्रौपदी रोती रोती ।
पीछे से उसको मारने उठकर कीचक भी चला ;
उस अबला द्वारा भूमि पर गिरना उस खल को खला ।

कृष्णा पर कर कोप शीघ्र झपटा वह ऐसे ,
 थकी मृगी की ओर तेंदुआ लपके जैसे ।
 भरी सभा में लात उसे उस खल ने मारी ,
 छिन्न लता-सी गिरी भूमि पर वह सुकुमारी ।
 पर सँभला कीचक भी नहीं निज बल वेग विशेष से ;
 फिर मुहँ की खाकर गिर पड़ा दुगुने विगलित वेप से ।

धर्मराज भी कंक बने थे वहाँ विराजे ;
 लगा वज्र-सा उन्हें मौलि पर घन - से गाजे ।
 सँभले फिर भी किसी भाँति वे 'हरे, हरे !' कह ,
 हुए स्तब्ध-से सभी सभासद 'अरे, अरे !' कह ।
 करके न किन्तु दृक्पात तक कीचक उठा, चला गया ;
 मानो विराट ने चित्त में यही कहा कि 'भला गया' ।

सम्बोधन कर सभा मध्य तब मत्स्यराज को ,
 बोली कृष्णा कुर्पात सुनाकर सब समाज को ।
 मधुर कंठ से क्रोध पूर्ण कहती कटु वायाँ ,
 अद्भुत छवि को प्राप्त हुई तब वह कल्पार्या ।
 ध्वनि यद्यपि थी आवेग मय, पर वह कर्कश थी नहीं ,
 मानो उसने बातें सभी वीणा में होकर कहीं ।

“भय पाती है जहाँ राजपूतह में ही नारी ,
होता अत्याचार यथा उस पर है भारी ।
सब प्रकार विपरीत जहाँ की रीति निहारी ,
अधिकारी ही जहाँ आप है अत्याचारी ,
राजा रहनी अति कठिन है कुल-बधुओं की भी जहाँ ,
मत्स्यराज, किस भाँति तुम हुए प्रजा-रंजक वहाँ ?

छोड़ धर्म की रीति, तोड़ मर्यादा सारी ,
भरी सभा में लात मुझे कीचक ने मारी ।
उसका यह अन्याय देख कर भी भयदायी ,
न्यायासन पर मौन रहे तुम बनकर न्यायी ।
वयोवृद्ध नरनाथ, क्या यही तुम्हारा धर्म है ?
यही तुम्हारे राज्य की राजनीति का मर्म है ?

तुममें यदि सामर्थ्य नहीं है अब शासन का ,
तो क्यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का ?
करने में यदि दमन दुर्जनों का डरते हो ,
तो छूकर क्यों राजदंड दूषित करते हो ?
तुमसे निज पद का स्वांग भी भली भाँति चलता नहीं ,
अधिकार-रहित इस छत्र का भार तुम्हें खलता नहीं ?

प्रायासखी जो पंच पांडवों की पांचाली ,
 दासी भी मैं उसी द्रौपदी की हूँ आली ।
 हाय ! आज दुद्वैव विवश फिरती हूँ मारी ,
 वचन-बद्ध हो रहे वीरवर वे व्रतधारी ।
 करता प्रहार उन पर न यों दुर्विधि यदि कर्कश कशा ,
 तो क्यों ह्येती मेरी यहाँ इस प्रकार यह दुर्दशा ?

अहो दयामय धर्मराज ! तुम आज कहाँ हो ,
 पांडु-वंश के कल्पवृक्ष, नरराज, कहाँ हो ?
 बिना तुम्हारे आज यहाँ अनुचरी तुम्हारी ,
 होकर यों असहाय भोगती है दुख भारी ।
 तुम सर्व गुणों के शरण यदि विद्यमान होते यहाँ ,
 तो इस दासी पर देव, क्यों पड़ती यह विपदा महा ?

तुम-से प्रभु की कृपा-पात्र होकर भी दासी ,
 मैं अनाथिनी-सदृश यहाँ जाती हूँ त्रासी ।
 जब अजातरिपु, बात याद मुझको यह आती ,
 छाती फटती हाय ! दुःख दूना मैं पाती ।
 कर दी है जिसने लोप-सी नाग-भुजंगों की कथा ,
 हा, रहते उस गायत्री के हो मुझको ऐसी व्यथा !

जिस प्रकार है मुझे यहाँ कीचक ने घेरा,
 होता यदि वृत्तान्त विदित तुमको यह मेरा !
 तो क्या दुर्जन, दुष्ट, दुराचारी यह कामी,
 जीवित रहता कभी तुम्हारे कर से स्वामी ।
 तुम इस दारुण अन्याय को देख नहीं सकते कभी,
 हे वीर ! तुम्हारी नीति की उपमा देते हैं सभी ।

क्रूर दैव ने दूर कर दिया तुमसे जिसको,
 संकट मुझको छोड़ और पड़ता यह किसको ?
 यह सब है दुर्दृष्ट-योग, इसका क्या कहना,
 मेरा अपने लिए नहीं कुछ अधिक उलहना ।
 पर जो मेरे अपमान से तुम सबका अपमान है,
 हे कृतलक्षणा, मुझको यही चिन्ता महा महान है ।”

सुन कर निर्भय वचन याज्ञसेनी के ऐसे,
 वैसी ही रह गई सभा, चित्रित हो जैसे ।
 कही हुई सावेग गिरा उसकी विशुद्ध वर,
 एक साथ ही गूँज उठी सब ओर वहाँ पर ।
 तब ज्यों त्यों करके शीघ्र ही अपने मन को रोक के,
 बौ धर्मराज कहने लगे उसकी ओर विलोक के—

“हे सैरन्धी, व्यग्र न हो तुम, धीरज धारो,
 नरपति के प्रति वचन न यों निष्ठुर उचारो !
 न्याय मिलेगा तुम्हें लौट अन्तःपुर जाओ,
 नृप है अश्रुतवृत्त, दोष उनको न लगाओ।
 शर-शक्ति पांडवों की किसे ज्ञात नहीं संसार में ;
 धर चलता है किसका कहो, वश विधि के व्यापार में।”

धर्मराज का मर्म समझ कर नत मुख वाली,
 अन्तःपुर को चली गई तत्कण्य पांचाली।
 किन्तु न तो वह गई किसीके पास वहाँ पर,
 और न उसके पास आ सका कोई डर कर।
 वह रही अकेली भीगती दीर्घ दृगों के मेह में,
 जब हुई नैश निस्तब्धता गई भीम के गेह में।

आँखें मूँदे हुए वृकोदर जाग रहे थे ;
 पड़े पड़े निःश्वास बड़े वे त्याग रहे थे।
 बाट उसीकी देख रहे थे धीरज खोकर,
 वे भी सारा वृत्त सुन चुके थे हत होकर।
 हो गई अधीरा और भी उन्हें देख कर द्रौपदी ;
 हिम-राशि पिघल रवि तेज से बढ़ा ले चले ज्यों नदी।

“जागो, जागो अहो ! भूल सुध सोने वाले !
ओ अपना सर्वस्व आप ही खोने वाले !”
उठ बैठे फट भीम. उन्होंने लोचन खोले,
और “देवि, मैं जाग रहा हूँ” वे यों बोले।
“जब तक तुम हो सर्वस्व भी अपना अपने संग है,
सो नहीं रहा था मैं प्रिये, निद्रा तो चिर भंग है।”

“मैं तो ऐसा नहीं समझती” कृष्णा बोली—
“करो सजगता की न नाथ, तुम और ठठोली।
आज आत्म-सम्मान तुम्हारा जाग रहा क्या ?
अब भी तन्द्रा शौर्य-वीर्य वह त्याग रहा क्या ?
आघात हुए इतने तदपि नहीं हुआ प्रतिघात कुछ,
आती है मेरी समझ में नहीं तुम्हारी बात कुछ !

भोगा सब जिस धर्म-भीरुता पर मर जी कर,
कोसूँ कैसे उसे न मैं पानी पी पी कर ?
गिना चलूँ मैं कहो सहा है मैंने जो जो,
सिद्ध करूँ सब सत्य, कहा है मैंने जो जो।
सहने को अत्याचार जो वाध्य करे, वह धर्म है,
तो इस निर्मम संसार में और कौन दुष्कर्म है ?

भोजन में विष दिया जिन्होंने और जलाया ,
 राज-पाट सब लूट लाट वन-पथ दिखलाया ,
 माथा ऊँचा किये रहें वे, छिपे फिरें हम ,
 राज्य करें वे, दास्य-गर्त में हाथ ! गिरें हम ।
 फिर भी कहते हो तुम कि मैं जगता हूँ, सोता नहीं ,
 अच्छा होता हे नाथ, तुम सोते ही होते कहीं !

कहते हो सर्वस्व मुझे तुम, मैं जब तक हूँ ,
 रहने दो यह वचन-बंधना, मैं कब तक हूँ ?
 नंगी की जा चुकी प्रथम ही राज - भवन में ,
 हरी जा चुकी हाथ ! जयद्रथ से फिर वन में ।
 अब कामी कीचक की यहाँ गृध्र-दृष्टि मुझ पर पड़ी ,
 सहती हूँ मृत्यु विना अहो ! ये विडम्बनाएँ बड़ी !

जिसके पति हों पाँच पाँच ऐसे बलशाली ,
 सुरपुर में भी करे कीर्ति जिनकी उजियाली ,
 काली हो अरि-कान्ति देख कर जिनकी लाली ,
 सँहूँ लांछना प्रिया उन्हींकी मैं पांचाली ?”
 कहती कहती यों द्रौपदी रह न सकी मानो खड़ी ,
 मूर्च्छित होकर वह भीम के चरण शरण में गिर पड़ी ।

“धिक है हमको हाथ ! सही तुम ऐसी ज्वाला ,”
कहते कहते उसे भीम ने शीघ्र संभाला ।
दीखी वह यों अतुल अंक आश्रय पा पति का ,
विटपि-कांड पर पड़ी ग्रीष्म दग्धा ज्यों लतिका ।
“जागो, जागो प्राणप्रिये, बतलाओ मैं क्या करूँ ?
यदि न करूँ तो संसार के सभी पाप सिर पर धरूँ ।”

जल सिंचन कर, और व्यजन कर, हाथ फेर कर ,
किया भीम ने सजग उसे कुछ भी न वेर कर ।
फिर आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया ,
वर्चनामृत से सींच सींच हत हृदय जिलाया ।
प्रण किया उन्होंने अन्त में कीचक के संहार का ,
फिर दोनों ने निश्चय किया साधन सहज प्रकार का ।

पर दिन कृष्णा सहज भाव से दीख पड़ी यों ,
घटना कोई वहाँ घटी ही न हो बड़ी ज्यों ।
कीचक से भी हुई सहज ही देखा - देखी ,
मानो ऐसी सन्धि ठीक ही उसने लेखी ।
“सैरन्धी” कीचक ने कहा—“अब तो तेरा श्रम गया ?
मेरे विरुद्ध देखा न सब निष्फल तेरा श्रम गया ?

अब भी मेरा कहा मान हठ छोड़ हठीली ,
 प्रकृति भली है सरल और तनु यष्टि गठीली ।”
 सुन कर उसकी बात द्रौपदी कुछ मुसकाई ,
 मन में घृणा, परन्तु वदन पर लज्जा लाई ।
 कीचक ने समझा अरुणिमा आई है अनुराग की ,
 मुहँ पर मल दी है प्रकृति ने मानो रोली फाग की ।

बोली वह—“हे वीर, मनुज का मन चंचल है ,
 किन्तु सत्य है स्वल्प. अधिक कौशल वा छल है ।
 प्रत्यय रखती नहीं इसीसे मेरी मति भी ,
 भूल गये हैं मुझे अचानक मेरे पति भी ।
 अब तुम्हीं कहो, विश्वास मैं रखूँ किसकी बात पर ?
 अन्धेरे में एकाकिनी रोती हूँ बस रात भर ।

रहता कोई नहीं बात तक करने वाला ,
 तिस पर शयनस्थान मिला है मुझे निराला ।
 कहौँ उत्तरा की सुदीर्घ तौर्यत्रिक शाला ,
 उसका वह विश्रान्ति वास दक्षिण दिशि वाला ।
 कोई क्या जाने काटती कैसे उसमें रात मैं ?
 यागल-सी रहती हूँ पड़ी सह कर शोकाघात मैं ।”

कीचक बोला—“अहा ! आज मैं था जाऊँगा ,
प्रत्यय देकर तुझे प्रेयसी पा जाऊँगा ।”
“अन्धेरे में कष्ट न होगा !” कह कर कृष्णा ,
मन्दहास में छिपा ले गई विषम वितृष्णा ।
“रौरव में भी तेरे लिए जा सकता हूँ हर्ष से ।”
बोली ‘तथास्तु’ वह, खल गया मानो विजयोत्कर्ष से !

यथा समय फिर यथा स्थान वह मद्यप आया ,
सैरन्ध्री के ठौर भीम को उसने पाया ।
पर वह समझा यही कि बस यह वही पड़ी है ,
बड़े भाग्य से मिली आज यह नई घड़ी है ।
फट लिपट गया वह भीम से चपल चित्त के चाव में ,
आ जाय वन्य पशु आप खिच ज्यों अजगर के दाव में ।

पल में खल पिस उठा भीम के आलिगन से ,
दाँत पीस कर लगे दबाने वे घन घन से ।
चिह्लाता क्या, शब्द-सन्धि थी किधर गले की ?
आ जा सकी न साँस उधर से इधर गले की ।
मुख, नयन, श्रवण, नासादि से शोणितोत्स निर्गत हुआ ,
बस हाड़ों की चड़ मड़ हुई, यों वह उद्धत हत हुआ ।

लेता है यम प्राण, बोलता है कब शव से ?
 पटक पिंड-सा उसे भीम बोले नव रव से—
 “याज्ञसेनि, आ, देख यही था वह उरपाती !
 किन्तु चूर हो गई आह ! मेरी भी छाती !”
 हँस बोले फिर वे—“बस प्रिये, छोड़ मान की टेक दे,
 आकर अपनी हृदयाग्नि से अब तू सुभको सेक दे।”

देख भीम का भीम कर्म भीमाकृति भारी,
 स्वयं द्रौपदी सहम गई भय-वश सुकुमारी।
 कीचक के भी लिए खेद उसको हो आया,
 कहाँ जाय वह सदय हृदय की ममता माया ?
 हो चाहे जैसा ही प्रबल, यह अति निश्चित नीति है,
 मारा जाता है शीघ्र ही करता जो अनरीति है।

वृहन्नला

त्रास पूर्ण अज्ञातवास जब पूरा होने को आया ,
पाप-मुक्त होने का-सा सुख वीर पांडवों ने पाया ।
दुर्योधन के विफल चरों ने दिया लौटकर यह सन्देश—
“मरे नहीं तो परदेहों में पाण्डुपुत्र कर गये प्रवेश ।
हुआ नहीं इस बीच कहीं कुछ जो निगूढ़ हो जन-मति से ,
एक मत्स्य-सेनापति कीचक निहत हुआ अति दुर्गति से ।”
“यह भी सुसंवाद !” सहमति से कुरुपति-द्रोण-कर्ण-कृप की
हरी सुशर्मा ने बहु गाये चिर वैरी विराट नृप की ।
मत्स्यराज पर विपद देखकर निज कर्तव्य सोच मन में ,
करने को उनकी सहायता गये युधिष्ठिर भी रण में ।
सज्जन निज उपकारों का ज्यों विनिमय स्वयं नहीं लेते ,
प्रत्युपकार-रूप ऋण त्यों ही प्राणों से भी हैं देते ।
गये भीम, सहदेव, नकुल भी, करके अश्व-शस्त्र धारण ,
पर अर्जुन जाते किस मुहँ से, नर्त्तक होने के कारण ।
हाव-भाव दिखला सकते हैं, बातें भी गड़ सकते हैं ,
कहीं नाचने गाने वाले क्लीब समर चढ़ सकते हैं ?

“जने जिस उत्तरकुरु-विजयी को है जगदेक वीर कहते ,
 अबला बना छिपा बैठा है वही उसी बल के रहते ।
 इच्छा और शक्ति रखकर भी मैं हूँ आज अवश अनुपाय ,
 अरे दैव ! क्या यह दुर्गति भी शेष और थी मेरी हाय !
 अच्छा, क्यों न चला जाऊँ मैं अपने आप रणस्थल में ,
 पर पहुँचान नहीं लेंगे क्या प्रतिपक्षी सुम्हको पल में ।
 पूर्ण हुआ अज्ञातवास जब फिर डर ही क्या है इसका ,
 चाहे जो हो, पर अर्जुन को भू-मंडल में भय किसका ?
 समय कौन-सा सुम्हे मिलेगा प्रकटित होने का ऐसा ,
 मिलता नहीं सुयोग सर्वदा जग में जैसे को तैसा ।
 रोवें पीछे बैठ क्यों न, जो आगे का अवसर खोवें ,
 मैं सोता-सा जाग उठा, अब अरि चिर-निद्रा में सोवें ।”
 निश्चय करते हुए सोच यों जाने को तत्पर रण में ,
 अस्थिर अर्जुन घूम रहे थे नाट्य-भवन के प्रांगण में ।
 उसी समय पुत्री विराट की, उनकी प्रिय शिष्या भोली ,
 आकर उनके निकट उत्तरा बाला यों उनसे बोली—
 “वृहन्नले, इस समय राज्य पर सहसा संकट आया है ,
 गोधन लूट त्रिगर्त्तराज ने अति उत्पात मचाया है ।
 हुआ न अक्षत आज यहाँ पर वह कीचक मामा मेरा ,
 इस दुर्दान्त लुटेरे का मुहँ फिर फिर जिसने था फेरा ।
 सुन रहस्य मय मरण उसीका यह अलज्ज फिर आया है ,
 दुष्ट कौरवों की सेना की सहायता भी लाया है ।
 गये ससैन्य पिता लड़ने को, उत्तर भैया जा न सके ,
 उन्हें दुःख है सुयश-योग्य यह अवसर पाकर पा न सके ।

कुछ दिन हुए अचानक उनका मारा गया सूतवर विज्ञ, सैरन्धी कहती है, तू भी इस गुण में है अतुल अभिज्ञ। बहुधा तेरे कर-कौशल से बढ़ा पार्थ का शर-बल है, कर भैया की भी सहायता यदि तू मुझ पर वत्सल है।” सुन याचना उत्तरा की यह हुए अयाचित पुलकित पार्थ, मानो उन्हें विना माँगे ही मनमाना मिल गया पदार्थ। किन्तु हर्ष को प्रकट न करके बोले वे कुछ सकुचाते, धीरों के गम्भीर हृदय के भाव नहीं ऊपर आते। “भला नाचने गाने वाले क्या जानें ऐसी बातें? विषम ताल पर यहाँ थिरकती प्राणों के पण की घातें! पर जब और उपाय नहीं है, यह सम भी पालूँगा मैं, बेटी, यह अनुरोध तुम्हारा डरकर क्या टालूँगा मैं?” खिली कली-सी भली उत्तरा, छाईं मुख पर छटा नई, तितली-सी उड़कर तुरन्त फिर वह उत्तर के निकट गई। उद्यत हुआ युद्ध करने को इस प्रकार वह राजकुमार, प्रकट हो गया कठिन भूमि पर मूर्तिमन्त मानो मृदु मार। तब कृतज्ञतापूर्वक दृष्टि से सैरन्धी की ओर निहार, वृहन्नला भी प्रस्तुत होकर करने चला अभीष्ट विहार। देख उसे विपरीत रीति से कवच पहनते हुए विशाल, उससे कहने लगी उत्तरा हँसकर उसकी भूल सँभाल— “वृहन्नले, संगर में जाकर तू मुझको न भूल जाना, दुष्ट दस्युओं को परास्त कर उनके वसन छीन लाना। उनसे वर्या वर्या की गुड़ियाँ मैं सानन्द बनाऊँगी, और खेलती हुई उन्हींसे मैं तेरा गुण गाऊँगी।”

सुनकर उसके वचन धनंजय उसे देख कुछ मुसकाये,
 उत्तर दिये विना ही फिर वे स्यन्दन शीघ्र सजा लाये।
 कहते नहीं महज्जन पहले, करके ही दिखलाते हैं ;
 कार्य सिद्ध करने से पहले बातें नहीं बनाते हैं।
 रथारूढ़ होकर फिर दोनों समर भूमि को चले सहर्ष,
 चकित हुआ उत्तर मन ही मन देख पार्थ-पाटव उत्कर्ष।
 पुर से निकल शीघ्र पहुँचे वे उसी शमी पादप के पास,
 शस्त्र छिपा रखे थे जिस पर पाण्डुसुतों ने विना प्रयास।

इन्द्र-धनुष-सम विविध वर्णमय वीरों के वस्त्रों वाली,
 चपल चंचला के प्रकाश-सम चमकीले शस्त्रों वाली।
 पवन-वेग-मय वाहन वाली, गर्जन करती हुई बड़ी,
 उन्हें निकट ही घन-माला-सी कौरव सेना दीख पड़ी।
 सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता निष्प्रभ जैसे,
 उसे देखकर उत्तर का मुहँ उतर गया सहसा वैसे।
 क्षण भर में ही उसका पहला साहस सारा लुप्त हुआ,
 जगा हुआ उत्साह आप ही भीति जगाकर सुप्त हुआ।
 बोला तब कातर होकर वह भूल यशोलिप्ता सारी—
 “देखो, देखो वृहन्नले, यह सेना है कैसी भारी !
 इसे देखकर धैर्य छूटता, अंग काँपते हैं, थकते,
 मैं क्या, इसे स्वयं सुरगण भी रण में नहीं हरा सकते।
 मैं किस भाँति लड़ूँगा इससे, मोड़ो रथ के अश्व अभी,
 हँसें लोग तो हँसैं, व्यर्थ क्या प्राण गँवाना योग्य कभी ?

विन्दु और सागर की समता हो सकती है भला कहीं ?
 गुरुतम गिरि से गज-शावक को टक्कर लेना योग्य नहीं ।²⁰
 “यह क्या राजकुमार, अभी से पड़ते हो तुम कैसे मन्द ?
 सावधान ! चंचल होकर यों मत देना अरि को आनन्द ।
 किसी कार्य को देख प्रथम ही शंकित होना ठीक नहीं ,
 यश विशेषता में ही अंकित है यह बात अज्ञीक नहीं ।
 जैसा निश्चय कर आये हो, तुम वैसा ही काम करो ,
 धैर्य धरो, मत डरो, कीर्ति को वरो बढ़ो, निज नाम करो ।
 जो कुछ गर्व जना आये हो वह यों ही खो जाय नहीं ,
 करो भूलकर काम न ऐसा, सिर नीचा होजाय कहीं ।”²¹
 इस प्रकार अर्जुन ने बहु विध दिया उसे उत्साह बड़ा ,
 पर भय के कारण उस पर कुछ उसका कहों प्रभाव पड़ा ।
 बोला वह—“चाहे जो हो, पर इनसे लड़ न सकूँगा मैं ,
 वृहन्नले तू रथ लौटा दे, तुझे बहुत धन दूँगा मैं ।”
 अर्जुन को यों उत्तर देकर उत्तर रथ से उतर भगा ,
 तब वे उसे पकड़ने दौड़े मन में कुछ कुछ क्रोध जगा ।
 तक्षणा विपक्षियों के दल में अट्टहास यों भास हुआ ,
 चंचल करता हुआ जलधि को मानो इन्दु-विकास हुआ !
 “क्षत्रिय होकर रण से डरते, तुम्हें लाख धिक्कार अरे !”²²
 यों कह धावित हुए पार्थ जब, उड़े केश-पट पवन भरे ।
 कच-कलाप जा पकड़ा उसका असित पाट का-सा लच्छा ,
 कहा उन्होंने—“इस जीने से मर जाओ तुम, सो अच्छा !
 अहो ! तुच्छ तन पर भी तुमको मानाधिक ममता मन में ,
 हँसते हँसते हृत होते हैं धीर धर्म के साधन में ।

कंत्रिय होकर पीठ दिखाना, निश्चय ही यह है दुद्वैव ,
 क्या कर्त्तव्य-विमुख होकर भी जी सकते हो कहो, सदैव ?
 दशा अभी से जब है ऐसी, तब आगे कैसा होगा ,
 वृद्ध-काल क्या कभी किसीका युवा-काल जैसा होगा ।
 कीर्त्तिमान जन मरा हुआ भी अमर हुआ जग में जीता ,
 मरे हुए से भी जीते जी है अपगीत गया बीता ।
 डरो नहीं, तुम युद्ध न करना, सबसे स्वयं लड़ूंगा मैं ,
 बनो सारथी ही तुम मेरे, आँच न आने दूँगा मैं ।
 होता कहीं सुभद्रानन्दन यदि अभिमन्यु यहाँ इस काल ,
 तो यह अभी जान लेते तुम, कितना साहस रखते बाल ।
 यों कहकर अर्जुन ने अपना सच्चा परिचय दिया उसे ,
 चकित, विनीत और फिर निर्भय इस प्रकार से किया उसे ।
 उसी शमी-पादप के नीचे फिर वे उसको ले आये ,
 और उन्होंने अपने आयुध उसे चढ़ाकर उतराये ।

वेष बदलने लगे पार्थ तब अरिदल भ्रमित हुआ अम से ,
 घुल्लि-धूसरित रत्न शाय पर लगा चमकने कम कम से !
 आक्रामक की आमक आशा मिट्टी में मिल गई वहीं ,
 होता है परिणाम कहीं भी बुरे काम का भला नहीं ।

उद्योग

जाना विराट नृप ने जब पाण्डवों को ,
सम्मान पूर्वक युधिष्ठिर से कहा यों—
“मैं भूल - चूक अपनी पहले मनाऊँ ,
चा दूँ तुम्हें सुकृति, निष्कृति की बधाई ?
छूटे नहीं तुम स्वयं भय से अकेले ,
औदार्य पूर्वक सुभे तुमने छुड़ाया ।
देखी यही प्रकृति है पुरुषार्थियों की ,
तारे विना तर नहीं सकते तरस्वी ।”
बोले युधिष्ठिर—“न लज्जित कीजिए यों ,
आभार है प्रथम ही भरपूर मेरा ।
ये आपके हम भले जब भृत्य मात्र ,
रक्खा हमें स्वतन्त्र-सा तब आपने ही ।”
“सन्तोष किन्तु इससे सुभको कहाँ है ?
मैंने नहीं, सदुपकार किया तुम्हींने ।
मेरी सुता सुत-बधू बनती तुम्हारी ,
तो मैं अवश्य निज मैं कृतकृत्य होता ।”

“सौभाग्य क्या अधिक है इससे हमारा ?
जो याचनीय वह दान करे स्वयं ही !
है उत्तरा प्रथम ही दुहिता हमारी ,
हो आपका सुत नया अभिमन्यु प्यार ।”

सम्बन्ध सुस्थिर हुआ सुनके सुदेव्या
पैरों पड़ी विनय पूर्वक द्रौपदी के ।
बोली उठाकर उमे हँस याज्ञसेनी—
“दासी सखी बन गई पद-वृद्धि पाके !”
“ऐसा कहो न तुम पाण्डव-राजरानी ,
चारी अहो ! अब वही स्वयमेव मेरे ।
शिष्या यहाँ बन गई गुरु-दक्षिणा भी ,
श्री पार्थ ने सुत-बधू करके, निभी हैं ।”

पांचालराज तब कृष्ण समेत आये ,
कृष्णातनूज, अभिमन्यु तथा सुभद्रा ।
वे थे भले चिर अभिन्न, लगे नये-से ,
ये भी उन्हें, प्रणय विस्मय-से भरा था ।
माँ से मिली मृदुलता, हृदय पिता से ,
उत्साह-साहस मिले निज जन्म से ही ।
दी प्रीति पूर्ण वरता वर उत्तरा ने ,
सौभद्र को अमर कीर्ति मिली स्वयं ही ।

पूरा हुआ परिणयोत्सव सांग ज्यों ही ,
 बोले युधिष्ठिर सभा कर मन्त्रणा की—
 “जैसे हुई कुगति पूर्ण हुई हमारी ,
 मार्गप्रदर्शन करें अब आप आगे ।”
 “ऐसी विपत्ति तुमने” बलराम बोले—
 “कैसे सही, जन जिसे कह भी न पावें !
 तो भी सुयोधन नहीं भय से दबेगा ,
 माने भले विनय से वह एक मानी ।”
 “तो उत्तमर्ण अधमर्ण बने स्वयं क्या ?”
 आवेशयुक्त उठ सात्यकि ने कहा यों—
 “ये लोग थे अविनयी कब, तो सुनूँ मैं ?
 वे नीच तो विनय को भय मान लेंगे ।
 था अन्त का पण यही वनवासवाला ,
 पूरा किया जिस प्रकार हुआ इन्होंने ।
 सौंपे न राज्य अब भी इनका इन्हें वे ,
 तो दण्ड्य दस्यु-सम निष्ठुर न्यासहारी ।
 हाथी नहीं, प्रिय हत्ती कृपया न भूलें ,
 वे पक्षपात कर न्याय नहीं करेंगे ।
 आता स्वयं हरि उपस्थित है उन्हींके ,
 मैं मन्त्र-तुल्य इनका मत मान लूँगा ।”
 श्रीकृष्ण ने तब कहा—“सब और पीछे ,
 आगे सभी समझ लो उस पक्ष को भी ।
 पांडालराज जिसको उपयुक्त जानें ,
 वे हस्तिनापुर उसे अविलम्ब भेजें ।”

“आशा नहीं अब मुझे कुछ कौरवों से ,
तो भी”—कहा द्रुपद ने—“यह ठीक ही है ,
मेरे पुरोहित वहाँ उपयुक्त होंगे !”
भेजा बुलाकर तुरन्त उन्हें उन्होंने ।

सम्मान अंध वृष ने करके सुधी का ,
पूछा स्वयं कुशल-मंगल पाण्डवों का ।
“राजेन्द्र, मैं कुशल-मंगल की कहूँ क्या .
आदेश में निहित है वह आपके ही ।
यों सन्धि-विग्रह-समर्थ विरोग हैं वे ,
पूरा तभी न निज धर्म निभा सके हैं ।
उत्क्रान्ति का भय नहीं उनमें किसीका ,
तो भी युधिष्ठिर समर्थक शान्ति के ही ।
‘हा तात, गोद वह क्या अब भी वही है ?
क्या स्थान शेष अब भी उसमें हमारा ?’
मैं प्रश्न लेकर यही उनका चला हूँ ,
आगे गला भर गया उनका स्वयं ही ।”
“मानो युधिष्ठिर स्वयं यह बोलता है ,
भाषा द्विजोत्तम, अहा ! यह है उसीकी ।
तो आपका श्रम करूँ दुगुना वृथा क्यों ?
मैं भेज आप अपना प्रतिवाक्य दूँगा ।”
“श्रीमान ने सदय होकर जो कहा है ,
हूँगा कृतार्थ कहके उनसे वही मैं ।

आधार एक उससे उनको मिलेगा,
आशा किये कुछ रुके जिससे रहें वे।¹²

लौटा पुरोहित परन्तु निराश-सा ही,
पीछे गया सचिव संजय भी उसीके।
उत्थान देकर लिया सब पाण्डवों ने,
औरमुख्य पूर्वक समीप उसे बिठाया।
जो-थे अभिन्न, अब थे कुछ दूर मानो,
सोत्कंड होकर परस्पर देखते थे।
आलाप शिष्ट, फिर भी उपचार-सा था,
संकोच था उभय ओर कहें-सुनें क्या ?
पूछे विना गति न थी, न कहे विना भी,
पूछा ससंशय युधिष्ठिर ने व्यथा से—
“दिर्यात संजय, कथा सबको हमारी,
श्रीतात का तुम निदेश, हमें सुनाओ।”²
“लोया निदेश-अधिकार स्वयं उन्होंने,
अनुपाय है सहज शील भले तुम्हारा।
कैसे करें विनय भी तुमसे, बड़े वे,
सामर्थ्यवान फिर भी निरुपाय-से हैं।
वास्तव्य से विवश वे, यह क्या कहूँ मैं,
प्राथी परन्तु मन से शुभ शान्ति के ही।
‘हो वा न हो कठिन सन्धि,’ कहा उन्होंने—
‘सद्वंश-विग्रह न हो, वह ध्वंसकारी।’²

“तो वंश-विग्रह हमीं कब चाहते हैं ?
 न्यायी नृपाल पहले फिर वे पिता हैं ।
 वास्तव्य से विवश हैं यदि सत्य ही वे ,
 तो क्या अपत्य उनके हम भी नहीं है ?
 संकल्प मात्र कर दे यदि कार्य पूरा ,
 तो कौन व्यर्थ श्रम-कष्ट यहाँ उठावे ?
 जो शान्ति पूर्वक स्वयं निज प्राप्य पावे ,
 संघर्ष में वह पड़े, जड़ कौन ऐसा ?
 स्वस्थान मात्र जग में हम चाहते हैं ,
 पावें वही न यदि, तो किस हेतु आये ?
 कोई कहे, अघ किया हमने यहाँ क्या ,
 जो आत्मघात कर लें हम आप यों ही ?
 खोके यहाँ सब, वहीं हम पाँयगे क्या ?
 वे मूढ़, जो हरण वो निज त्याग मानें ।”
 आञ्छ-सा सचिव संजय हो रहा था ,
 बोला अनेक पल नीरव ही बिताके—
 “जो सत्य है सहज, कौन उसे न माने ?
 वे हो तुम्हीं, कठिन धर्म निभा सके जो ।
 हिंसा किसी कलह की सबसे कराला ,
 सौ सौ मरें, उदर पूर्ति न एक की भी !
 माना, अहिंसक नहीं नर का पसारा ,
 जो इन्द्र-प्रस्थ वह खाण्डव-चैत्य भी है ।
 तो भी न हो जन स्वयं जन का निहन्ता ,
 क्या घोर हिंस पशु भी निज जाति-घाती ?

अक्षय्य सानुज सुयोधन-कर्ण, तो भी
 क्या द्रोण-भीष्म-वध भी तुमको रुचेगा ?
 जो अंस आसन बने बरसों तुम्हारे,
 क्या खड्ग से तुम स्वयं उनको हनोगे ?”
 “वे भी अनीति-वध क्या उनका सहेंगे,
 पाला जिन्हें सतत, जो निज धर्मधारी ?
 वे हैं अधीन उपजीव्य अधर्मियों के,
 स्वीकार निर्णय हमें फिर भी उन्हींका ।
 सीधे कहो न, तुम जो कुछ चाहते हो,
 क्या दीन भिक्षुक बनें हम हीन होके ?”
 “कैसे कहूँ कि यह भी उससे भला है,
 रक्ताक्त राज्य-धन जो रण से मिलेगा ।”
 साश्चर्य धर्मसुत ने हरि ओर देखा,
 बोले सुकुन्द—“बुध संजय, ठीक तो है,
 ये पांडुराज-सुत धार्मिक हैं कहाँ के,
 जो छोड़ छात्र कुल-धर्म न हों भिखारी !”
 “हा विश्ववन्द्य ! जितना अपराध मेरा,
 क्या है विशाल उतनी यह बुद्धि मेरी ?
 किंवा जनार्दन, उसी लघु बुद्धि जैसी
 क्या क्षुद्र है वह क्षमा-क्षमता तुम्हारी ?
 सौ दोष दुष्ट जन के तुमने मुलाये,
 सद्भाव के वश हुई यह भूल मेरी !
 दुर्भाग्य से फिर यही कहना मुझे है—
 श्रीराम तापस बने तज राज-लक्ष्मी !”

“सद्भाव संजय, असंशय है तुम्हारा ,
 मैं खेदखिन्न पर क्रुद्ध नहीं इसीसे ।
 जो जानते तुम, पुनः कहते वही हो ,
 छोटा नहीं, यह बड़ा गुण है तुम्हारा ।
 श्रीराम ने पितर-शुल्क स्वयं चुकाया ,
 ये खेल के वचन भी अपने न भूले ।
 तो भी कहो, भरत कौन वहाँ, सुनूँ मैं ?
 हाँ, केश-कर्षक अवश्य प्रजावती के !
 जो दे रहे तुम इन्हें हित की दुहाई ,
 वे योग्य पात्र उसके इनकी अपेक्षा ।
 वैसे अधी अधम राज्य हरेँ, मरें ये ,
 तो न्याय-धर्म-सुख-शान्ति बनी रहेगी ?
 हा ! एक दुष्ट जन को तुम तो न त्यागो ,
 ये हार मान उससे मन मार जावें ।
 जो एक त्याज्य पर सर्व समाज डूबे ,
 तो डूब जाय, नव सृष्टि नहीं रुकेगी ।
 यों भी न कौरव न पाण्डव ही रहेंगे ,
 क्या एक हिंस्र शठ का हठ ही रहेगा !”

“हे देव, दीख पड़ता मुझको यही है ,
 बोले नहीं तुम, स्वयं यह दैव बोला ।”
 बोले युधिष्ठिर—“कहूँ तब और क्या मैं ?
 सद्भाव व्यक्त करना सबसे हमारे ।

जय भारत

सन्देश केवल यही कहना सभी से—
'सद्धर्म की विजय ही जय है हमारी'।"

निष्क्रान्त संजय हुआ तब कृष्ण बोले—
“विद्वेष का विषय प्रेम-विवाह में क्यों ?
आये अभी हम यहाँ जिस कार्य से थे ,
पूरा हुआ वह, विसर्जित हों घरों को ।

विदुर-वार्त्ता

अदर्शी राजा से न निज सुत तो शासित हुए,
खरे भी खोटे - से बुध विदुर निष्कासित हुए।
चिकित्सा ऐसी क्या शमन करती शल्य उनका ?
बढ़ा आगे से भी विषमतम वैकल्य उनका।
अगत्या लौटाके प्रिय अनुज को अन्ध नृपति,
व्यथा से बोले—“मैं गति-रहित हूँ सम्प्रति अति।
गई आधी यामा, अवश तब भी मैं जग रहा,
कहाँ भूली निद्रा, तिमिर दुशुना-सा लग रहा।”
“फिरे काँटों वाली विकट अटवी में भटकती,
सपत्नी चिन्ता के निकट कब निद्रा फटकती।
तुम्हें क्या चिन्ता है ?”—जन विदुर ने उत्तर दिया।
“सुभे” राजा बोले—“कुल-कलह ने है धर लिया।”
“महा निद्रा ही तो निकट अपने और सबके !
ठिकाना कोई भी नरवर, नहीं अन्य अब के।
नहीं होगी रक्षा उस मरण से भी सहज ही,
रहेगी सोने की इस अवनि में शेष रज ही।”

कहा राजा ने—“मैं किस विष करूँ शान्त मन को,
 दिखाई दे क्यों हा ! निज निधन भी अन्ध जन को ?
 बहाता वीरों को तृण - सम, घनों-सा उमड़ता,
 सुभे क्या जाने क्यों, प्रलय-जल ही दीख पड़ता ।
 नहीं आँखें तो भी युग पलक मैं मूँद लुठता,
 सुभे चौंका दे जो, वह विकट चीत्कार उठता ।
 उठाता - बैठाता शिशु - सम वही कान धरके,
 पढ़ूँ क्या पढ़ी मैं, अब तुम कहो ध्यान धरके ?”
 “पढ़ाई पूरी हो, तदपि सबका शेष गुणना,
 तुम्हें औरों का ही अब उचित है पाठ सुनना ।
 सुनाता हूँ मैं भी स्मरण सुभको जो रह गया,—
 रहें रक्खे को ही हम सब, गया सो बह गया ।
 नहीं आया है जो पढ़कर सुभे, सो सुन तुम्हें,
 लगा है तो भी हा ! विषम ममता का धुन तुम्हें ।
 सभीको सालेगा सब समझके भी न करना,
 दिखाई देता है निविड़तम में स्पष्ट मरना !
 स्वयं ही छूटेगा यह भव, न छोड़ें हम भले,
 रहेगा थोड़े ही अघ - विभव जोड़ें हम भले ।
 दबा लेगा बोझ बनकर वृथा गौरव हमें,
 न हो जीते जी तो सहन करना रौरव हमें ।
 रहे रागों में भी प्रकृत गति का ज्ञान हमको,
 तने तो भी तानें हत न कर दें ताल-सम को ।
 सुनेंगे आ आके सुखकर नरालाप सुर भी,
 विवादी होते ही सुर खटकता है मधुर भी ।

दबा दूँ धीरे से यदि दुख रहा तात-तन है ,
 मनोबाधा का तो निज दमन में ही शमन है ।
 नहीं लाठी लेके हनन करता काल जन का ,
 मिटा देता है सन्तुलन मति के संग मन का ।
 वही तो बातें हैं, कब तक कहें वा हम सुनें ?
 भली चर्चा भी क्या, जब तक उसे चित्त न चुनें ।
 चलें चाहे जैसे हम सब, हमें किन्तु चलना ,
 जहाँ ऊँची यात्रा, भरल ज्वलने से फिसलना ।
 अकेला है न्यायी, स्वजन उसके हों सब कहीं ,
 अकेला भी सच्चा सबल किसके सम्मुख नहीं ?
 कथा औरों की क्या, तब तक नहीं आप अपना ,
 तपस्या थोड़े है तरल मन का , ताप तपना ?
 सुखी हो सोने का अति कठिन क्या यत्न इतना ,
 बुला के दे दो जो विषय जिसका प्राप्य जितना ।
 भले ही दुष्टों की सहमति न हो शिष्ट-विधि से ,
 बनो सच्चे राजा श्रुत-सुदृढ से, न्याय-निधि से ।
 करेंगे क्या सोचो, शठ शकुनि कर्णादिक वहाँ ,
 खड़े हैं धर्मात्मा नर सहित नारायण जहाँ ।
 डुबाने आये हैं अहित तुमको मित्र बनके ,
 न बैठो हे स्वामी, चुप तुम यहाँ चित्र बनके ।”
 “कहूँ मैं क्या भाई विदुर, तुम हो ठीक कहते ,
 यहाँ मेरे ऐसे हतविधि वृथा दुःख सहते ।
 नहीं छोड़ा जाता समझ कर भी मोह मुझसे ,
 किये बैठा मेरा अवश मन ही द्रोह मुझसे ।

जय भारत

पितृद्वेषी भी क्या कुछ कह बना दूँ तनय को ?
बढ़ा दूँ क्या मैं ही उस अविनयी के अनय को ?
रहे राजा होना, निज सुत-पिता ही रह सकूँ,
मनाओ हे भाई, सिर पर पड़े सो सह सकूँ ।”

रण-निमन्त्रण

धन और भस्म-विमुक्त भानु-कृशानु-सम शोभित नये ,
अज्ञातवास समाप्त करके प्रकट पाण्डव हो गये ।
होकर कुमति-वश कौरवों ने प्रबलता की भ्रान्ति से ,
रण के विना देना न चाहा राज्य उनको शान्ति से ।
निज बल बढ़ाकर तब परस्पर विजय की आशा किये ,
होने लगे वे प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिए ।
सब और, अपनी और के राजा बुलाने को वहाँ ,
भेजे गये युग पक्ष से द्रुत दक्ष दूत जहाँ तहाँ ।
जाकर त्वरित श्रीकृष्ण को लेने इसी उपलक्ष में ,
देने उन्हें रण का निमन्त्रण आप अपने पक्ष में ,
आधार लेकर एक से सम्बन्ध के अधिकार का ,
देवात् सुयोधन और अर्जुन संग पहुँचे द्वारका ।

मध्याह्न भोग समाप्त कर सुख-शयन में भगवान् थे ,
गम्भीर - नीरव - शान्त - सुस्थिर श्याम - सिन्धु-समान थे ।

ओढ़े मनोहर पीत पट वे दिव्य रूप-निधान थे ;
 प्रत्यूष-आतप-युक्त यमुना-हृद-सदृश सुविधान थे ।
 यों लग रहे उनके निमीलित नेत्र युग्म ललाम थे ,
 भीतर मधुप मूँदे हुए ज्यों सुप्त सरसिज श्याम थे ।
 वर वाल मुख-मंडल-सहित यों सोहते अभिराम थे ,
 घेरे हुए ज्यों सूर्य को घन सघन शोभा-धाम थे ।
 नीलारविन्द समान तनु की अति मनोहर कान्ति थी ,
 गलहार के गज मौक्तिकों में नीलमणि की आन्ति थी ।
 यों विह्वल कन्धों में खचित थे कुंडलों के सोहते ,
 मार्या-लिखित मानो वशीकर मन्त्र थे मन मोहते ।
 निःश्वास नैसर्गिक सुरभि यों फैल उनकी थी रही ,
 ज्यों सुकृत-कीर्ति गुणी जनों की फैलती है लहलही ।
 किमलय-कुसुम-सा पाणि-तल था पीठ कान्त कपोल का ,
 वा शेष-फण पर भार था श्यामल सरस भूगोल का !
 उन अंगरागों से सुशोभित अंग उनके पीन थे ,
 शय्यावसन-संघर्ष से जो हो रहे अब क्षीण थे ।
 मानो शरद के चित्रघन के विरल खंडों से खिली ,
 निर्मल सुनील नभस्थलों को सात्विकी शोभा मिली ।
 था शयन-पाटाम्बर अरुण, झालर लगी जिसमें हरी ,
 उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत-पट ओढ़े हरी ।
 वह दिव्य सुषुमा देखने से ज्ञात होता था यही ,
 मानो पुरन्दर-चाप सुन्दर खींच लाई है मही ।
 ऐसे समय में शीघ्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ ,
 वैकुण्ठ के बैठा सिराने, उच्च आसन था जहाँ ।

कुछ ही क्षणों में पहुँच कर अर्जुन, विना कुछ भी कहे ,
हरि के पदों की ओर निश्चल नम्रता से स्थित रहे ।
उन युग्म योद्धों के सहित शोभित हुए अति विष्णु यों ,
कन्दर्प और वसन्त सेवित सो रहे हों जिष्णु ज्यों ।
पर वे परस्पर दूसरे को विन्न मन में लेखते ,
ज्यों त्यों रहे प्रभु-जागरण की बाट दोनों देखते ।
दोनों अतिथियों के मनों में भाव बहु उठने लगे ,
पर कह सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुषोत्तम जगे ।
आते हुए अभिमुख सलिल के दो प्रवाह बहे बहे ,
मानो मनोरम शैल से थे बीच में ही रुक रहे ।

कुछ बेर में जब भक्तवत्सल देवकीनन्दन जगे ,
तब देख सम्मुख पार्थ को बोले वचन प्रियता पगे—
“भारत, कुशल तो है ? कहो यों आज भूल पड़े कहाँ ?
जो कार्य मेरे योग्य हो, प्रस्तुत सदा मैं हूँ यहाँ ।”
कहते हुए यों सेज पर निज पूर्व-तनु के भाग से ,
उठ बैठ तकिये के सहारे, देखकर अनुराग से ,
सस्मित अविस्मित पार्थ को निज वचन कहने के लिए ,
अविलम्ब उनकी ओर हरि ने नेत्र युग प्रेरित किये ।
तब देख उनकी ओर हँसकर कुछ विचित्र विनोद से ,
नत भाल पर कर रख किरिटी ने कहा यों मोद से,—
“होते सुलभ सब भोग जिससे, भागते भवरोग हैं ,
जिन पर तुम्हारी वह कृपा, सकुशल सदा हम लोग हैं ।

यह जन जनार्दन, स्वार्थ-वश ही आज आया है यहाँ, निज पक्ष में रण का निमन्त्रण मात्र लाया है यहाँ। सब गर्व उच्च-स्थान का कुरुराज का यों हृत हुआ, कुछ अप्रतिभ-सा पहुँच वह भी सामने उपकृत हुआ। “आया प्रथम गोविन्द, मैं हूँ आपके शुभ-धाम में, पहले मुझे ही प्राप्य है साहाय्य इस संग्राम में। मैं और अर्जुन आपको दोनों सदैव समान हैं, पर पूर्व आये को अधिकतर मानते मतिमान हैं।” हरि ने कहा—“हे वीर, तुम बोले सुवाक्य विवेक से, तुम और पाण्डव हैं हमारे स्वजन दोनों एक से। हे प्रथम आने की तुम्हारी बात तात, यथार्थ ही, पर प्रथम दृग्गोचर हुए मुझको यहाँ पर पार्थ ही। जो हो, करूँगा युद्ध में सहयोग दोनों ओर मैं, पालन करूँगा यह किसी विघ्न स्वकर्त्तव्य कठोर मैं। दूँगा चमू नारायणी निज एक ओर सशस्त्र मैं, केवल अकेला ही रहूँगा एक ओर निरस्त्र मैं। दो भाग निज सहयोग के इस भाँति मैंने हैं किये, चुन लें प्रथम ये पार्थ दो में एक जो भी चाहिए। विस्तृत चमू निज पक्ष से रण में लड़ेगी सब कहीं, पर युद्ध की तो बात क्या, मैं शस्त्र भी लूँगा नहीं।” सुनकर वचन यों पार्थ ने स्वीकार माधव को किया, कुरुनाथ ने नारायणी सुविशाल सेना को लिया। तब पार्थ से हँसकर वचन कहने लगे भगवान यों— “स्वीकृत मुझे तुमने किया है त्याग कटक महान क्यों ?”

बम्भीर होकर पार्थ ने उनको यही उत्तर दिया--
“करना मुझे जो चाहिए था, है वही मैंने किया।
सेना रहे, मुझको जगत भी तुम विना स्वीकृत नहीं,
श्रीकृष्ण रहते हैं जहाँ सब सिद्धियाँ रहती हैं।”

“शंका तथा अर्जुन को किसीकी—
 देखी किसीने कब है कहीं भी ?
 तो योग्य आतिथ्य, न तर्ष खाओ ,
 जो मान चाहो, तुम मान रक्खो ।
 श्रीकृष्ण को तो तुम जानते हो ,
 यही अकेले जय-मूल मेरे ।
 जीतूँ तुम्हारे बल से कहीं मैं ;
 तो जूझने से सुझको मिला क्या ?”
 भौंहे चढ़ा के तब रुक्मि बोला—
 “तो व्यर्थ ही मैं इस ओर आया ।
 मैं पूर्व ही कौरव-पक्ष लेता ,
 तो क्यों दिखाते तुम दर्ष ऐसा ?
 हौँ, जानता हूँ रणछोड़ को मैं ;
 भला इन्हें कौन कहाँ न जाने ?
 रुके नहीं ये दधि ही दुरा के ,
 भागे चुरा के भगिनी मदीया ।
 भला यही था मिल कौरवों से ,
 मैं वैर लेता इनसे पुराना ।
 परन्तु मेरी यह भूल भारी
 सुधार दी है तुमने, कृपा की ।”
 हँसा किये नीरव चक्रपाणि ,
 परन्तु धर्मात्मज ने कहा यों—
 “रूठो न आहा तुम बन्धु मेरे !
 दुर्भाव से अर्जुन ने कहा क्या ?

श्रीकृष्ण ही जो पर हैं तुम्हारे ,
तो शूर, सोचो, निज कौन होगा ?
उबारते ये न पुकार पा के ,
तो रुक्मिणी आज अनाथ होती ।
सम्बन्ध से केशव के सदा ही ,
अभिन्न साथी तुम हो हमारे ।
यथार्थ को भी तुम भूल मानो ,
तो चूक मैं ही तुमसे मनाऊँ ।
जीतो अकेले तुम कौरवों से ,
शंका करें क्यों उनसे किरीटी ?
मानो इन्हें जो निज तो कहो, क्यों
आत्मीयता से न इन्हें सराहो ?”
गया मनाया इस भौंति तो भी ,
रुका नहीं रुक्मि, तुरन्त लौटा ।
लिया उसे क्या कुरुराज ने भी ?
भूखा जहाँ जाय, समूल सूखा !
“जो है तुम्हारे अपने, उन्हींने
त्यागा तुम्हें, मैं किस भौंति रक्खूँ ?”
मिला उसे उत्तर यों टका-सा ,
जका-थका-सा रुक रुक्मि बोला—
“जो शत्रु का शत्रु सखा वही तो ,
मारी गई है मति ही तुम्हारी ।
जो हो तुम्हारा उनका, भले हो ,
मैं क्यों पड़ूँ मंफट में किसीकी ?”

यही भला है, घर लौट जाऊँ,
तटस्थ हो कौतुक दूर देखूँ।
पीछे कुषी कौरव-पाण्डवों के
साम्राज्य भी तो यह देखना है !”

मद्राज

“पाण्डव जैसे पुरुष, नहीं क्या वैसे ही हम लोग, सफल हमारा ही है उनसे अधिक युद्ध उद्योग। फिर भी गुरुजन समझ रहे हैं, होगी मेरी हार, मातुल, जिन पर खड़े विपत्ती, क्या उनके पद चार ?”

“निश्चय उनकी पूँछ बड़ी है ! ठीक है न वसुसेन ! पर विस्फोट देख फूटेगा उनके सुहँ पर फेन !”

कर्ण न हँसा, बन्धु से बोला—“तुमने सन्धि-विचार किया यथारुचि, अब विग्रह का लेता हूँ मैं भार !”

“तुम्हें जीतना है जिसको, वह अर्जुन ही है एक, देखूँगा मैं भीमसेन के गदा - युद्ध की टेक। उन दोनों को छोड़ करेगा और कौन संग्राम ! दीक्षक उनके हरि तो शिक्षक मेरे भी बलराम। रहें निहत्थे हरि को लेकर पार्थ भले सन्तुष्ट, नारायणी चमू से मेरा पक्ष हुआ परिपुष्ट। ‘आप क्या करेंगे ?’ सुन मुझसे बोले कृष्ण सहास— ‘गोचारक के लिए अल्प क्या रथ-तुरगों की रास !’—”

“निश्चय सूत-लाभ में मुझसे अर्जुन का साफल्य ,
 एक और है कुशल सारथी मद्र-महीपति शल्य ।
 सगा नकुल का मातुल है वह, लेगा पाण्डव-पक्ष ,
 किन्तु सारथी नहीं रथी ही विद्ध करेगा लक्ष ।”
 “यह यथार्थ है, सखे, तुम्हारा अद्भुत है उत्साह ,
 तुम्हें भरोसा है अपना ही, नहीं और की चाह ।”
 यह कहकर भी दुर्योधन कुछ करने लगा विचार ,
 फिर उद्योगी हुआ शीघ्र निज निश्चय के अनुसार ।

शल्य आ रहा था ससैन्य जब पाण्डुसुतों की ओर ,
 देख पड़ावों का प्रबन्ध तब वह हो गया विभोर ।
 बोला—“किया जिन्होंने मेरा यों स्वागत-सत्कार ,
 मैं अपना सर्वस्व समर में दूँगा उन पर वार ।
 धन्य युधिष्ठिर, तुमने मेरा रक्खा इतना ध्यान !”
 “यहाँ ‘युधिष्ठिर’ कहाँ ? ‘सुर्योधन’ कहिए कृपानिधान !”
 कहा प्रमुख परिचारक ने जब नत करके निज भाल ,
 “क्या ? क्या ?” कहते हुए शल्य ने तानी मृकुटि कराल ।
 था कुरुराज निकट ही, उसने आकर किया प्रणाम ,
 अनुग्रहीत मैं आर्य, सफल हैं अब मेरे सब काम ।
 थोड़ा-सा प्रबन्ध जो मैंने किया आपके अर्थ ,
 उसकी यह स्वीकृति ही सब कुछ है सम्मान्य समर्थ !”
 सब हो गया शल्य जानकर उस आदर का भेद ,
 पर वह जो कह चुका, उसे तो लौटा सका न खेद ।

“साधु सुयोधन ! हुई तुम्हारी सुम्भपर पहली जीत ,
वंचित होकर भी मैं कैसे होऊँ अब अप्रीत !
कह आने दो धर्मराज से सुम्भको अपनी हार ,
वचन पलटने को न कहेंगे वे निष्कपट उदार ।”

वंचित मद्रराज यों पहुँचा धर्मराज के पास ,
उस पर जो बीती थी सुनकर सब हो गये उदास ।
कहा युधिष्ठिर ने तब लेकर एक दीर्घ निःश्वास—
“करना नहीं चाहता मन इस विघटन पर विश्वास !
दुर्योधन के लिए किन्तु है इसमें भी औचित्य ,
करता आया है ऐसे ही कपट-कृत्य वह नित्य ।
आर्य, आपकी मनोव्यथा है हम सब पर सुस्पष्ट ,
अप्रिय करने की अधीनता देगी किसे न कष्ट ।
पूर्णा कीजिए आप धैर्य घर गये वचन जो हार ,
हम निज धर्म-विजय कहकर ही करें उसे स्वीकार ।”
“हाय ! नकुल-सहदेव भले ही रह जावें मन मार ,
किन्तु दे रहा है मेरा ही मन सुम्भको धिक्कार ।
यदि जीवित होती, क्या कहती माद्री सुम्भसे आज ,”
शल्य-विद्ध-सा विकल हो गया विवश शल्य नरराज ।
“करते हैं अपने मातुल पर गर्व आज हम लोग ,
करें भाग्य पर भले शकुनि के भागिनेय अभियोग ।
अम्बा की चिन्ता न कीजिए, वे कर गईं स्वकर्म ,
बने एक दृष्टान्त आपका यह अति मार्मिक धर्म ।”

“वत्स वत्स ! तुम दोनों मुझसे कहते भी क्या और !
 उस कपटी के सिर न बँधेगा कभी विजय का मोर ।
 धर्मराज, निश्चय यह मेरे किसी पाप का दोष ,
 क्या करके तुमको अपने को दूँ मैं कुछ सन्तोष !
 किया गया हूँ मुख्य कर्ण के कारण मैं अभिभूत
 पर अभिशप्त सफल होगा क्या मुझे बनाकर सूत ?”
 “तात, यही आश्वासन मेरे लिए आज क्या अल्प ,
 पूरा हो वा न हो किन्तु है मेरा सत्संकल्प ।”
 अर्जुन बोले—“आर्य, कर्ण से क्या मदर्थ है प्रस्त ?”
 कहा युधिष्ठिर ने—“भैया, मैं अन्य भाव से प्रस्त ।
 लगता है, राधेय और हम रहे कभी अविभिन्न ,
 किसी भूल से रूठ हुआ है वह हमसे विच्छिन्न ।”

केशों की कथा

जब पूर्ण दोनों ओर सज्जा हो उठी संघर्ष की ,
निज रक्त में बहने चली सब शक्ति भारतवर्ष की ,
तब भी क्षमा के भाव जिनके सदय मन में थे जगे ,
ज्ञानी युधिष्ठिर निज सभा में कृष्ण से कहने लगे—
“दुर्योधनादिक ने हमारे साथ जो कुछ है किया ,
जैसे बना, हमने उसे चुपचाप विष-ऐसा पिया ।
फिर सन्धि के सम्बन्ध में उत्तर उन्होंने जो दिया ,
हे श्रुतिनिधे, तुमने उसे भी खेद-पूर्वक सुन लिया ।
कर्तव्य करने को तुम्हारी इष्ट है अनुमति हमें ,
रण के विना अब दीखती है दूसरी क्या गति हमें ।
जब सन्धि करना चाहते हैं वे विना कुछ भी दिये ,
कैसे कहूँ मैं, वे नहीं सबद्र विग्रह के लिए ।
कब तक अनाहत हो सुभीसे मानिनी मेरी रमा ,
हो जाय मर्यादा-रहित क्या आज इस जन की क्षमा ?
फिर भी अवश-से हम न हों आवेग के उन्मेष से ,
पत्नी विहग बनते नहीं हैं एक पक्ष विशेष से ।

अधिकार-रक्षा हेतु हम संघर्ष से डरते नहीं, क्षत्रिय समर में काल से भी भय कभी करते नहीं। पर व्यर्थ वंश-विनाश की बाधा मुझे है रोकती, निज रीति-नीति समीति मेरी ओर है अवलोकती। कौरव हमारा राज्य निश्चय रोक तो सकते नहीं, आश्चर्य, फिर भी पाप करने से तनिक थकते नहीं। हम भी समर से क्यों डरें, जिनके सहायक तुम बने, पर मन नहीं करता इसे, हम आप अपनों को हनें। सब शूर देश-विदेश के लड़कर परस्पर कट मरे, तो त्रिदिव क्यों न बसे, घरा हो जायगी ऊजड़ हरे। असमय मरण का वरण करके स्वर्ग भी क्यों चाहिए, यदि सर्व-हित साधन रहे, अपवर्ग भी क्यों चाहिए। तनु है यहीं तक, क्यों न उससे लोग पूरा काम लें, जब काल आवे सहज गति से शान्ति से विश्राम लें। अरि भी जियें नय से, भले ही मनुज मूढ़ कहें मुझे, कोई सहे न सहे, तुम्हारे शुभ कटाक्ष सहें मुझे। सौभाग्य से है प्राप्त देवों की हमें अनुकूलता, पर दैत्य-मद से मत्त हो प्रतिपन्न है पथ भूलता। रोकें नहीं यदि हम उसे, तो हानि है यह धर्म की, विधि ही बिलटती दीखती है नियत नरकुल-कर्म की। बनता हमारा धर्म भी क्या ही कठोर कभी कभी, करना हमें पड़ता यहाँ आघात घोर कभी कभी। पर अन्य गति हो तो कहाँ आश्रय उचित है युद्ध का, क्या शुद्ध बुद्धि-विवेक रह पाता समर-संकुद्ध का।

बनने चली प्रत्येक शाला श्वापदों की-सी दरी ,
 हो जाय मरघट में न विघटित पुण्यभूमि हरी-भरी ।
 गूँजे न निज नन्दन विपिन में घोर क्रन्दन नाद ही ,
 छा जाय इस उन्माद के पीछे न हाय ! विषाद ही ।
 निज दर्प से ही हत हृद्धों की गृहियियों की गर्हणा ,
 डँस ले न शेष समाज को भी बन विषम विषधर-फणा ।
 आचार भी ऊँचे घरों के पतित होने जा रहे ,
 रक्तक गये, भक्तक चतुर्दिक दाब चढ़ते आ रहे ।
 सुनते नहीं वे किन्तु मेरे कान मानो फट रहे ,—
 'पानी धरे पानी, यहाँ हम रक्त देकर कट रहे !'
 मैं सुन रहा हूँ रात दिन धर्षित शवों के ध्वान ये ,
 'किस पर लड़े हम, हाय ! हम पर लड़ रहे हैं श्वान ये !'
 वे अन्ध हैं, पर दीखता सब धोर सुम्भको स्पष्ट है ,
 एकत्र क्षत्र-समाज सब निश्चेष्ट नष्ट्रष्ट है ।
 सबको डुबाती जारही नर-रक्त की खर धार है ,
 हम पाँच की ही नाव तुमसे जा लगी उस पार है ।
 तृण-तुल्य भी गिनते नहीं हैं जो किसीको गर्व से ,
 सहसा बिखरते गिर रहे हैं दूट तारक खर्व-से ।
 ननु-नच-विना नुच गृध्र-पक्षों की पड़े हैं छाँह में ,
 बल आप उठने का बचा है किस बली की बाँह में ?
 सौ सौ शिवाएँ भपटती हैं, और चीलें दूटती ,
 रस-पुष्ट अंग पड़े भटों के वे जिन्हें हैं लूटती ।
 हतभाग्य जितने नर निहत क्रव्याद भी उतने कहाँ !
 शत गन्ध-लिप्तों से स्वयं उठती सड़ाँध जहाँ तहाँ !

गतिशील काल, परन्तु घर घर घोर काली रात है,
 जन-शून्य-विन्दु बना अरुण रवि प्रज्वलित प्रतिभात है।
 रह रह सिहरता वायु विषवा-वृन्द के चीत्कार से,
 सन्देश करता है वहन किसके दयित का प्यार से।
 सब सृष्टि धूमिल हो हरे ! निस्तब्ध जड़-सी रह गई,
 निज दिव्य जनपद की कहाँ चिर चेतना वह बह गई ?
 देती प्रतिध्वनि भी नहीं यह गर्जना यह तर्जना,
 संहार पूरा हो गया, तब भी कहाँ नव सर्जना।
हे देव, जन के रक्त से रंजित न जन के हाथ हों,
मधु-मूर्ति बालक और बधुएँ व्यर्थ ही न अनाथ हों।
 पाते यहाँ यों तृच्छ तृण भी ठौर रहने के लिए,
 तो भी रहे अक्षत हमारा स्वत्व कहने के लिए।
 करता न मेरा धर्म मुझको वाध्य लड़ने के लिए,
 तो क्या समन्वय-योग्य हम सब हैं भगड़ने के लिए ?
भाई सभी कौरव हमारे, भाव उनके भिन्न हों,
समता कहाँ जावे हमारी, हम भले ही खिन्न हों।”
 यों कह युधिष्ठिर भाव-गद्गद मौन होकर नत हुए,
 अभिभूत से भीमादि भी उनसे स्वयं सहमत हुए।
 हरि ने कहा—“भवदीय भाषा भाव भद्र सदैव ही,
 पर देखता हूँ मैं, यहाँ वाचक बना है दैव ही।
 जो हो, इसी उद्देश्य से मैं ही वहाँ जाऊँ न क्यों ?
 फिर एक वार स्वयं उन्हें परिणाम समझाऊँ न क्यों ?
 इससे न होगा और कुछ तो अल्प होगा क्या यही,
 निर्दोषता तो जान लेगी आपकी सारी मही।”

बोले युधिष्ठिर फिर—“करोगे कष्ट तुम इतना अहां ।
मैं आप अपनी ओर से तो हूँ यहाँ तक कह रहा ।
यदि गाँव केवल पाँच ही देदें हमें वे प्रेम से ,
तो ठीक, सारा राज्य भोगें वे यथाविधि क्षेम से ।”

सहसा सभा की भाव-गति में एक भन्नाटा हुआ ,
भ्रंभागमन के पूर्व का-सा घोर सन्नाटा हुआ ।
तत्काल बिजली-सी चमक चौकी वहाँ कृष्णा कृशा ,
फिर टूट मानो वह पड़ी निज लक्ष्मण पर लोहित दृशा ।
“यह भाइयों पर भाइयों का त्याग आहा ! धन्य है ,
इस पर भला वह क्या कहेगा, जो अभागा अन्य है ।
फिर भी अहो दानव-दत्तन, कुछ घृष्टता मैं कर रही ,
सुभ पर तुम्हारी जो कृपा, कारण यहाँ केवल वही ।
अथवा तुम्हें अविदित कहाँ जन के हृदय की बात है ।
पर शब्द उठता है स्वयं होता जहाँ आघात है ।
भाई अहा ! ऐसे कहाँ देखे गये चिरकाल से ,
जो भाइयों को मुक्त कर दें इस विषम भव-जाल से ।
धिकार है, जीती रही मैं भोग कर मन की व्यथा ,
निर्लज्ज इस तन के लिए क्या रोग भी कोई न था ।
मैं किन्तु भूल नहीं सकी अपमान अपना यत्न से ।
तो शान्ति होने से रही यह, हार मान सपत्न से ।
कर्तव्य करते हैं कृती, फल का वहाँ क्या ध्यान है ।
पर सुन रही हूँ मैं जिसे, यह दूसरा ही ज्ञान है ।

यह नाश हम अथवा उपस्थित कर रहे हैं आप वे ?
 हमसे मरें तब भी करेंगे आत्म - हत्या पाप वे !
 हम काज के प्रतिकूल जाकर देश रख सकते नहीं ,
 उन्मत्त कुत्ते मनुज का मख-भाग भख सकते नहीं ।
 पापी प्रकट निज पाप का प्रतिफल न पावेगा यहाँ ,
 तो कष्ट करके पुरण्य-पथ से कौन जावेगा यहाँ ?
 उन दुष्कृतों की प्रकृति पलटी जायगी ऐसे कहीं ,
 जो कर चुके हैं वे, करेंगे फिर उसे कैसे नहीं ?
इस जन्म में निज दंड से बच जायेंगे यदि दुष्ट वे ,
उस जन्म तक तो क्या न होंगे और भी परिपुष्ट वे ?
 आश्चर्य है, कृतकर्म उनके आज विस्मृत-से हुए ,
 चेतन जहाँ जड़-सा हुआ जीवित वहीं मृत-से हुए ।
 तब तो अवीर अनाथ-सी निरुपाय मैं हूँ रो रही ,
 आशा किये थी अन्त में जो, आज वह भी खो रही ।
 सुनकर न सुनने योग्य ही इस सन्धि के प्रस्ताव को ,
 यह चित्त मेरा हो रहा है प्राप्त जैसे भाव को ,
 कैसे उसे वर्णन करूँ मैं दग्ध - हृदया परवशा ?
 हरि, जान सकते हो तुम्हीं जन के मथित मन की दशा ।
 क्या दस्युओं पर यह दया ही मात्र दिखलाई गई ,
 दौर्बल्य का दृष्टान्त रख दुर्नीति सिखलाई गई ।
 चलते बड़े जन आप हैं जिस रीति से संसार में ,
 करते उन्हींका अनुसरण हैं अन्य जन व्यवहार में ।
 यह रक्त निकला आज हा ! पंचाननों के घाव से !
 निज पर तथा पर निज यहाँ देखे गये बर्ताव से ।

ये कुछ कहें, पर 'डर गये पागडव' कहेंगे जो अहो ,
 उनके मुखों पर कौन अपना हाथ रख लेगा कहो ?
 सब सह चुके ये, शेष क्यों रह जाय यह अपमान भी !
 मेरे सदय दयनीय बनकर भूल बैठे मान भी ।
 होता सदा है मानियों को मान प्यारा प्राण से ,
 यश के धनी हैं जो उन्हें अपयश कराल कृपाण से ।
 हा ! दिग्विजय कर इन्द्र-सा वैभव विलसते जो रहे ,
 वे पाँच गाँवों के भिखारी आज यों ही हो रहे ।
 तन से अधिक मन का हरे, जन-दैन्य मरण-समान है ,
 निज राज-लक्ष्मी का इन्हें अपहरण वरण-समान है !
 यह आह, यह उच्छ्वास, यह कम्पस्फुरण सब ठीक है ,
 पर देखती थी मैं जिसे, वह स्वप्न आज अलीक है ।
 जानें यही गन्तव्य निज, मैं तो सदा अनुगामिनी ,
 पर क्या करूँ विधि ही बना बैठा मुझे जब वामिनी ।
 किंवा कथन कुछ व्यर्थ अब, जब दी गई उनको क्षमा ,
 क्या बन्धुओं के बीच मैं बोले बधू अधमाधमा !
मैं किन्तु दासी ही नहीं, यदि मन्त्रिणी भी हूँ कभी ,
तो आज मैं कैसे भुला दूँ आप अपनी सुघ सभी ।
 पतिवर अमर मेरे, सहज ये विष विशेष पचा गये ,
 डूबे न जल में, अनल से भी सबल अंग बचा गये ।
 मैं ही मरण माँगूँ न क्यों, क्या दीन अब देखूँ इन्हें ,
 उन तीन तीन परीक्षणों का श्रेय फिर भी दूँ किन्हें ?
 पर पाँच गाँवों के धनी ये, दीन क्यों कहलायेंगे ?
 निज बन्धुओं का चित्त चौसर खेल कर बहलायेंगे !

फिर भेलना क्या दुःख, सुख से भूलना ही भूलना ,
 भूले भले भोले सभी ये, तात, तुम मत भूलना !
 मृगचर्म पहने देख इनको विकल वन में डोलते ,
 तुमने कहा था जो स्वयं आक्रोश पूर्वक बोलते ,
 जो रोष इनके भाइयों पर था तुम्हें उस दिन हुआ ,
 क्या आज भी उसके स्मरण ने मन तुम्हारा है हुआ ?
 देखे गये जो दक्ष केवल अक्ष-पण के खेल में
 क्या जुग जुड़ेगा पाण्डवों का कौरवों से मेल में !
 उस वार जो घटना घटी, क्या भूल ये वह भी गये ,
 अथवा विचार विभिन्न इनके हो गये हैं अब नये !
 क्या वे प्रतिज्ञाएँ वृथा ही की गई थीं क्रोध में ?
 क्या वह विषम वन वन भटकना था इसीकी शोध में ?
 क्या दिव्य अस्त्रों के लिए वह कठिन तप था स्वाँग ही ?
 क्या सिद्धि उन सब साधनों की थी अहो ! यह माँग ही ?”
 फिर दुष्ट दुःशासन हुआ था तुष्ट जिनको खींच के ,
 वे केश लेकर वाम कर में अश्रु-जल से सींच के ,
 हृदयस्थ दक्षिण कर किये, शरविद्ध हरियाली-सी हता ,
 कहने लगी वह मानिनी वा चू उठी पावक-लता !
 “करुणा-सदन तुम कौरवों से सन्धि जब करने लगो ,
 चिन्ता-व्यथा सब पाण्डवों की शान्त कर हरने लगो ,
 हे तात, तब इन मलिन मेरे कृष्ट केशों की कथा ,
 मैं और क्या विनती करूँ, भूले तुम्हें न यथा-तथा !”
 बाधा-विकृत सुख मूँद कर चिर सुन्दरी रोने लगी ,
 नत निर्भरी-सी पाद्य लेकर प्रभु-चरण धोने लगी ।

होकर स्वयं भी द्रवित-से सुन प्रार्थना करुणा भरी ,
 देने लगे निज कर उठा कर सान्त्वना उसको हरी ।—
 “भद्रे, न रो हा ! शान्त हो, यह सोच सब मन से हटा ,
 तू जान ले, अविलम्ब अपना कष्ट-काल कटा कटा ।
 वैभव-सहित रिपु-रहित पाण्डव शीघ्र ही हो जायँगे ,
 निज क्रूर कर्मों का कुफल प्रत्यक्ष कौरव पायँगे ।
 सौभाग्यवति, तू रो रही है आज पद-परियाति विना ,
 शोती फिरेंगी कौरवों की नारियाँ कल पति-विना ।
 उनकी व्यथा भी, जानता हूँ मैं, तुझे कलपायगी ,
 सुख-दुःख दोनों एक-से ही बहन, तब तू पायगी ।
 प्रिय ज्येष्ठ पाण्डव की प्रतिष्ठा मान्य सुभक्तो ज्ञान में ,
 पर आत्म-निष्ठा ही अटल तेरे अतुल्य आख्यान में ।
 होगा अधिष्ठित फिर महाभारत अखिल संसार में ,
 पर जीत तेरी ही रहेगी आज सबकी हार में ।
 निज साधना से अधिक नरकुल को युधिष्ठिर में मिला ,
 क्या स्वर्ग में भी सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला ।
 तो भी समय के पूर्व मानो ये कृपा कर आ गये ,
 इस द्वन्द्व-मध्य अजातरिपुता आप अपनी पागये ।”
 “हरि, वह तुम्हारा ही दिया जो भी यहाँ जन को मिले ,
 फेलो न तुम तो आप अपना भार भी किससे मिले ।
 जीवन, यशसु, सम्मान, धन, सन्तान, सुख सब मर्म के ।
 सुभक्तो परन्तु शतांश भी लगते नहीं निज धर्म के ।”

शान्ति-सन्देश

सजी हस्तिनापुरी, बजे स्वागत के बाजे,
राज-सभा में सजे-बजे सब सभ्य विराजे।
उसमें सात्यकि-संग आज श्रीकृष्ण पधारे,
वे वक्ता थे, मौन समुत्सुक श्रोता सारे।
सुस्तिग्ध धीर-गंभीर रव नीरद-सा था छा रहा,
सुन सुन दुर्योधन का हृदय-हंस उड़ा-सा जा रहा।

“प्रजाचक्षो महाराज, मैं हूँ आभारी,
अभ्यर्थना विशेष यहाँ की गई हमारी।
अब यदि दोनों और हो सके कुछ निबटारा,
तो मेरा श्रम सफल और सौजन्य तुम्हारा।
अन्यथा द्रोण भीष्मादि के दर्शन भी थोड़े नहीं,
सन्तोष एक उसको सदा जो अवसर छोड़े नहीं।”

कहा भीष्म ने—“हरे, कृपा यह स्वयं तुम्हारी ,
कुशित-सी ही यहाँ हमारी गति है सारी ।
मानो हम जी रहे मृत्यु से मुहँ न मोड़ कर ,
वन को भी जा सके न सम्मुख समर छोड़ कर !
क्षत्रिय-समाज का किन्तु अब काल पक गया दीखता ,
दुर्योधन सीधा पाठ सुन उसे उलट कर सीखता !”

हरि हँस बोले—“बाण नहीं छूटा है अब भी ,
प्रकटा पावक किन्तु नहीं फूटा है अब भी ।
अब भी कुल का राहु-केतु यह भुंक सकता है ,
सुनिए, अब भी प्रलयकाण्ड वह रुक सकता है ।
कुछ और नहीं, केवल यहाँ कुल का गौरव चाहिए ,
पुरु के कुरु के अनुरूप ही पौरव-कौरव चाहिए ।

था अपनों के लिए राज्य का त्याग जहाँ पर ,
अपनों का ही हरा जाय क्या भाग वहाँ पर ?
तात, प्रगति का द्वार तनिक नीचा पड़ता है ,
उद्धत नर का वहाँ सहज ही सिर लड़ता है ।
वह अहं हर्षी हम तो नहीं, हम भी उसका अर्थ है ,
जो सबको लेकर चल सके, सच्चा वही समर्थ है ।

हटने से बढ़ किसी कुपथ में हेठी माने ,
 परम भीरु वह, भले वीर अपने को जाने ।
 यह दुर्बलता उचित नहीं है दुर्योधन में ,
 सच्चा साहस यहाँ आप अपने शोधन में ।
 जो जन अविनीत नहीं, उसे भीत समझना मूल है ,
 वह टूट लचेगा क्या भला, सूखा जिसका मूल है ।

काम - क्रोध - मद - लोभ - मोह से पड़े न कच्चा ,
 निज बल का विश्वास वही कर सकता सच्चा ।
 लड़ भिड़ कर जो काम चलावे, मुँड़चीरा है ,
 लाख चमक ले काँच, और ही कुछ हीरा है ।
 कैतव से परधन मूस कर धनी नहीं बनते बली ,
 औरों को पीछे, आपको पहले छलता है छली ।

पाण्डु-सुतो ने भला कौन-सा पाप किया है ?
 यही एक क्या, इसी वंश में जन्म लिया है ।
 यह कुल इतना पतित हो गया है सचमुच क्या ?
 इसमें कुछ भी नहीं रह गया है बच-खुच क्या ?
 पाण्डव क्या अरि हैं इसलिए, वे आत्मीय सभी कहीं ,
 मिल बैठे अर्थ-अनर्थ तो पर भाई भाई नहीं !

रहा धर्म के लिए आपका वंश प्रशंसित ,
उसमें ऐसा अनाचार है अति ही अनुचित ।
इसका कुछ प्रतिकार आप यदि नहीं करेंगे ,
तो निश्चय ही बन्धु - करों से बन्धु मरेंगे ।
अब भी न आप होंगे सजग, तो पीछे पछतायेंगे ,
निज दुर्बलता-वश अन्त में कुछ भी शेष न पायेंगे ।

हो सकती है शान्ति, आप चाहें तो अब भी ,
रुक सकती है क्रान्ति, आप चाहें तो अब भी ।
आन्त सुतों को ज्ञान्त कीजिए आप यहाँ पर ,
शान्त करूँ विक्रान्त पाण्डवों को मैं जाकर ।
निज का औरों का भी यही करने में कल्याण है ,
अति अकल्याण है अन्यथा, नहीं किसीका त्राण है ।

पाण्डव ही हैं, प्रथम दिग्विजय किया जिन्होंने ,
फिर भी उसका सुयश आपको दिया जिन्होंने ।
राजसूय में निखिल नृपों से कर चुकवाया ,
और आपके निकट उन्हें लाकर झुकवाया ।
पर तो भी उन पर आपका अत्याचार घटा नहीं ,
उस क्रूर कर्म को देखकर किसका हृदय फटा नहीं ।

उन अपनों को आप समझते रहे पराया ,
 बल से जब कुछ बना न, छल से उन्हें हराया ।
 राजपाट से ही न तृप्ति करके तृष्णा की ,
 सभा-मध्य की गई चरम दुर्गति कृष्णा की ।
 जिसके कहने में आज भी जकड़ा जाता है गला ,
 सुन उसको भावी पीढ़ियाँ हमें क्या कहेंगी भला ।

सीमा फिर तो एक क्षमा की भी होती है ,
 प्रतिहिंसा का बीज अन्त में वह बोती है ।
 तदपि आप पर उन्हें अभी अप्रीति नहीं है ,
 इसका हेतु अशक्ति और कुछ भीति नहीं है ।
 अविद्वत अजातरिपु आप पर रखते अब भी भार हैं ,
 सेवा कराइए वा समर, प्रस्तुत सभी प्रकार हैं ।

नोंचें शत्रु-शृगाल, इसीके लिए मनुज क्या ?
 रण में अक्षत रहे किसीके अनुज-तनुज क्या ?
 यहाँ हार पर जीत, जीत पर हार मिलेगी ,
 जेता से भी सहज न अपनी हानि मिलेगी ।
 सिन्दूर नहीं अंगार क्या हमने सतियों को दिया ,
 सर्वस्व जिन्होंने प्यार कर अपने पतियों को दिया ।

जय भारत

उभय पक्ष के क्षेम भाव - से आया हूँ मैं ,
और शान्ति-सन्देश यहाँ पर लाया हूँ मैं ।
अधिकारों का विषय कभी सामान्य नहीं है ,
जीवन - मरण - विधान समझिए आज यही है ।
जल जाय न यह जनपद कहीं अबलाजन की आह में ,
बह जाय महाभारत न यह रण के रक्त-प्रवाह में ।

आया हूँ मैं, दोष न फिर कोई दे पावे ,
रुकना हो तो यह अनर्थ अब भी रुक जावे ।
न हों व्यर्थ विध्वंस, प्रहण-सा सबका छूटे ,
सन्धि-शान्ति हो जाय, सहज सम्बन्ध न टूटे ।
भाई भाई मिल कर यहाँ प्रेमामृत से पुष्ट हों ,
अपने अपने अधिकार में आकर सब सन्तुष्ट हों ।

‘पीछे कुछ हो, राज्य भोग जीते जी कर लें’ ,
यह विचार कर भले अभागे जन मन भर लें ।
फिर जो होगा लोग उसे तो न निहारेंगे ,
जिला जिला कर किन्तु उन्हें फिर फिर मारेंगे ।
जो जग में नाम हुबायेंगे, भाग कहाँ बच पायेंगे ,
क्या जानें, अपने राज्य का कितना मूल्य चुकायेंगे ।

फूटेगा पथ खोज कहीं न कहीं से पानी ,
 पहले ही नालियाँ न हों तो घर की हानी ।
 घुस आते हैं यहाँ उन्हींसे कभी सरीसृप ,
 गेह-तुल्य ही देह-दशा भी कही गई नृप !
 इन्द्रिय-रन्ध्रों से आ घुसे विष-विचार जो चित्त में ,
 द्रुत उन्हें दूर कर हूजिए रत कल्याण निमित्त में ।

ढले मिलन की स्वर्ण-मूर्ति यदि इसी ताव से ,
 तो फिर क्या अप्राप्य पाण्डवों के प्रभाव से ?
 पुत्र-तुल्य फिर उन्हें आप यदि अपना लेंगे ,
 तो नर क्या, सम्मान आपको सुर भी देंगे ।
 तब उनके बल से आपको दुर्लभ कौन पदार्थ है ?
 कहिये तो उस परमार्थ के आगे क्या यह स्वार्थ है !—”

“आहा ! यह परमार्थ - कथन है कैसा भोला !”
 दुर्योधन सक्रोध बीच में ही उठ बोला—
 “यदि वे ऐसे कृती, भयातुर होते हैं क्यों ?
 होकर भी दिवमान्य घरा पर रोते हैं क्यों ?
 पाता इस सन्धिमहत्व में लघु-बल का प्राधान्य मैं ,
 बहु जन हैं मेरे पक्ष में, बहुमत से भी मान्य मैं ।”

“कहने को था स्वयं सुयोधन, कुछ मैं तुमसे,
तुम पहले ही डोल उठे झंझा के द्रुम से।
यह भी अच्छा हुआ, बच गया मैं उस श्रम से,
फिर भी भूलों भद्र, न तुम बहुमत के भ्रम से।
इस आतुरता के मूल में उनकी सदय वदान्यता,
आश्चर्य, आप कहनी पड़ी तुमको अपनी मान्यता।

बहुजन-बल की बात ज्ञात है मुझे तुम्हारी,
सचमुच ऐसी बड़ी सफलता की बलिहारी !
मेरी ही सब चमू इधर, मैं उधर अकेला,
उनके मातुल शत्रु तुम्हारे हैं इस बेला।
बहुमत का तुमको गर्व है तो उसकी भी जाँच हो,
मैं हूँ पाँचों की ओर से, कहाँ साँच को आँच हो।

जाओ क्यों तुम दूर, यहीं गुरुजन मत ले लो,
यह पण वह पण नहीं, समझ कर ही कुछ खेलो।
लड़ने को जो विवश बँधे-से युद्ध तुम्हारा,
सैन्य-सदृश यह भार उन्हींपर रख दो सारा।
यदि कह दें ऐसे मान्य जन झूठा पाण्डव-पक्ष है,
तो मैं कहता हूँ, रण विना सिद्ध तुम्हारा लक्ष है।

हो जाती है साथ विना जाने भी जनता ,
 पात्र - योग्य नत - दान कहाँ बहुतों से बनता ।
 बहु जन जिनको यहाँ जानते हैं नामों से ,
 उनको कितने कहाँ समझते हैं कामों से ?
 बहु मत रखने को मान्य भी रहते बहुधा कथ्य हैं ,
 बन जाते हीन चरित्र भी मत - संग्रह में साध्य हैं !

बहु जनमत से जिन्हें प्राप्त होती है सत्ता ,
 करनी पड़ती प्रकट उन्हें भी यों मतिमत्ता—
 'जन साधारण नहीं समझते हैं निज हित ही ,
 हम यह कड़ुआ घूँट उन्हें दे रहे उचित ही !'
 पर बहुमत की है बात क्या तुम जैसों को सोहती ,
 है अहंमन्यता ही जिन्हें सुग्ध बना कर मोहती ?”

“किन्तु कलह का मुख्य एक निर्णायक रण ही ,
 विजय - हेतु अनिवार्य सदा प्राणों का पण ही ।
 दूत बने तुम आज कहोगे सो सुन लूँगा ,
 सबका उत्तर समर-भूमि में ही मैं दूँगा ।”
 प्रभु बोले—“सीधी अगति ही होगी इस अपघात से ,
 थोड़ा ही कहना शेष अब सुमे तुम्हारे तात से ।

एक स्वजन को त्याग करे कुल-कष्ट-निवारण ,
ग्राम-हेतु कुल तजे, ग्राम जनपद के कारण ।
जनपद-जगती सभी तजे आत्मा के हित में ,
निरत न हों नरनाथ, आप इस असत - अचित में ।
सब मरें व्यर्थ ही जूझकर यह अनर्थ क्यों कीजिए ,
चुन अर्जुन का प्रतिभट स्वयं जय-निर्णय कर लीजिए ।”

“मैं प्रस्तुत हूँ ।” खड़ा हो गया कर्ण तमक कर ,
चरण-भार से सुदढ़ धरा कँप गई धमक कर ।
रूप ने उससे कहा—“कर्ण, ऐसा न कहो तुम ,
चुनना तुमको नहीं, मुझे है, मौन रहो तुम ।
वह द्रुपद-धरण, वह घोष-रण, वह विराट-गृह गो-हरण ,
यदि सभी सत्य हैं तो कहो, करूँ तुम्हें क्यों कर वरण ?”

दुर्योधन ने किन्तु कर्ण को यों परितोषा ,
“कहलाता है वीर, यही तो भाग्य-भरोसा ।
अथवा देकर एक चार लेकर बच जाना ,
सीखें हरि से लोग दूत का धर्म निभाना ।
पर भुज-बल रहते भाग्य पर छोड़ें क्यों हम आपको ,
सुन लें विनोद से ही न क्यों इस आकुल आलाप को ।”

सुन कर उसकी बात घृणा से हरि सुसकाये,—
“ऐसों को क्या सौ विरंचि भी समझा पाये ।
यह विनोद ही तुम्हें कहीं पीछे न रुलावे,
उसे बचावे कौन, स्वयं जो मृत्यु बुलावे ।”
तब तक उनसे धृतराष्ट्र ने अनुनय के स्वर में कहा—
“अच्युत, मुझको आदेश दें शेष और जो कुछ रहा ।”

“मुझको हे नरनाथ, अधिक अब कहना है क्या,
दुग्ध-धरा पर रुधिर-धार ही बहना है क्या ?
विना धर्म के अर्थ व्यर्थ ही-से होते हैं,
पर दुर्बल जन अर्थ-धर्म दोनों खोते हैं ।
पाण्डव तो अब भी आपके प्रति पितृभक्ति निभा रहे,
सुनिए सम्प्रति, जो आपसे वचन उन्होंने हैं कहे ।

‘तात, आपके सुकृत सहायक हुए हमारे,
पूर्णा किये आदेश आपके हमने सारे ।
भेले बारह वर्ष दुःख दारुणातम वन में,
एक वर्ष फिर छिपे छिपे हम रहे भुवन में ।
उत्तीर्णों को पद तो मिले यदि न पुरस्कृत कीजिए,
अपने विशाल वात्सल्य में भाग हमारा दीजिए ।

जय भारत

आप पिता हम पुत्र, आप प्रभु हम परिचारक,
कौन आपसे अन्य हमारा बड़ा विचारक।
स्वत्व-हेतु हम विकल कहीं निज धैर्य न खो दें,
मन तक कसके क्यों न, स्वजन यदि काँटे बो दें।
हे तात, न आने दीजिए आने वाली आपदा,
हम आज्ञाकारी आपके यथापूर्व ही हैं सदा।

किया गया बर्ताव निरन्तर हमसे जैसा,
देखा अथवा सुना किसीने है क्या वैसा।
साक्षी उसके लिए आप ही रहें हमारे,
किसी भौंति कट गये कठिन वे दिन भी सारे।
अब भीरु, कापुरुष और जो इच्छा हो, कह लीजिए,
पर कृपया लड़ने के लिए हमको विवश न कीजिए।

मुझसे भी यह कहा उन्होंने—'हा यह ज्वाला !
करना था यदि उन्हें यही, हमको क्यों पाला ?
इसीलिए क्या, सहें सदा अपमान सभी हम,
मारे मारे फिरें, बैठ पावें न कभी हम।
वह प्यार तात का हाथ ! क्या कोरा कपटाचार था,
हम पाँच मात्र ही भार थे, वह सौ का परिवार था।'

अखिल सभा से कहा उन्होंने मेरे द्वारा—
 'हम प्रार्थी है, न्याय करें सब सभ्य हमारा ।
 शरणागत पापार्त्त धर्म की सुनें न न्यायी ,
 होता है तो वही पाप उनको भयदायी ।
 अघ की ऐसी ही रीति है, वह अपनों को मारता ,
 क्या नहीं निम्नगा-नीर निज तट-तरु-मूल विदारता ।'

प्रज्ञादृष्टे, सोच देखिए आप स्वयं ही ,
 क्या उनका यह कथन नहीं निष्पाप स्वयं ही ।
 देख धर्म की ओर अभी तक धीर युधिष्ठिर ,
 बैठे हैं चुपचाप ताप पाकर भी फिर फिर ।
 अब उनका राज्य दिये विना उचित आपको और क्या ?
 कोई न्यायी निष्पक्ष भी कहे मला इस ठौर क्या ?"

बोल उठे नृप आप आर्द्र से—“यही उचित है ,”
 द्रोणादिक ने कहा—“इसीमें सबका हित है ।”
 पर क्या सम्मति-जन्य मौन था दुर्योधन का ?
 ज्वलन मत्सरी वही जानता था निज मन का ।
 “हे राजन्, राज्य रहे, उन्हें निकट बुलाकर प्यार से ,
 दं पाँच गाँव भी आप तो लेंगे वे आभार से ।”

हरि ने जब यह कहा वहाँ छाया सचाटा ,
 दुर्योधन ने उसे व्यंग्य करके ही काटा ,—
 “सात स्वरोँ के तीन ग्राम तो सभी कहीं हैं ,
 एकस्वर में पाँच ग्राम ये सुने यहीं हैं !
 वे मेरे तनु के तत्त्व हैं, प्राण-संग ही जायेंगे ,
 रण-विना सुई की नोक भर भूमि न पाएडव पायेंगे !

कुल-गौरव की और त्याग की यहीं दुहाई ,
 ऐसी गुरुता वहाँ उन्हें क्यों नहीं सुहाई ?”
 “छोड़ आततायित्व चलो बनकर तुम भाई ,
 माँगो कुछ भी क्यों न, वे न दें तो मैं दायी ।”
 “मैं उनसे माँगूँ, जो स्वयं मेरे भित्तुक हो रहे !”
 “निरुपाय समर-गति हेतु ही तब तुम इच्छुक हो रहे ।”

“यही सही, यह वसुन्धरा वीरोँ की भोग्या ,
 बल से लेने योग्य, नहीं देने के योग्या ।
 लोग मुझे कुछ कहें, भीरु-कायर न कहेंगे ,
 हम सौ अथवा वही पाँच अब यहाँ रहेंगे ।
 कुछ और मुझे सुनना नहीं, ठान जो ठठी सो ठठी ।”
 शठता के साथ चला गया सभा छोड़कर वह हठी ।

“क्षमा क्षमा हे रमानाथ !” धृतराष्ट्र पुकारे ,
 “इन आँखों के और क्या कहूँ, यही न तारे !
 विदुर, बुलाओ यहाँ तनिक तुम गांधारी को ,
 समझावे कुछ वही बुलाकर कुविचारी को ।
 हा ! माँ ने ही मूँदी जहाँ आँखें भद्राधान में ,
 क्या अधिक मोह दौर्बल्य यह उसकी सुभ सन्तान में !

बोली इसी प्रकार वहाँ आकर गांधारी ,
 “मैं भी हे गोविन्द, अन्ततः अबला नारी !
 पाण्डुसुतों को देख सुभे भी डाह हुई थी ,
 एक एक पर बीस बीस की चाह हुई थी !
 दुर्योधन में विकसित हुई घनीभूत वह डाह ही ,
 क्या कर सकती हूँ मैं भला, भर सकती हूँ आह ही ।

तुम घर आये और न कर पाये हम दर्शन ,
 हम जैसा हतभाग्य कहाँ होगा कोई जन !”
 यह कह करुणा - गलित हो उठे राजा-रानी ,
 हरि ने पट से पोंछ दिया आँखों का पानी ।
 “हे सुकृति, उपस्थित मैं यहाँ एक वार देखो सुभे ,”
 जग गये एक क्षण के लिए दृग-दीपक जो थे बुभे ।

जय भारत

“तुम्हें देखकर और देखना अब क्या हमको ?
समझेंगे कत्याण-कवच ही हम निज तम को ।”
आया तब तक वहाँ सुयोधन किन्तु न माना ,
गया व्यर्थ ही उसे गुरुजनों का समझाना ।
फिर भी बोला—“अब शेष क्या रहा दूत का काम कुछ ?
हरि, आओ मेरे साथ तुम, लो भोजन-विश्राम कुछ ।”

“न मैं विपद में हूँ न प्रेम का भाव तुम्हारा ,
फिर कैसे स्वीकार करूँ प्रस्ताव तुम्हारा ?
साधु विदुर के यहाँ रह रहा हूँ मैं सुख से ,
सबसे बढ़कर वहाँ मेल है मन से सुख से ।”
“कुछ धोखे का भय है तुम्हें ?” “तुम कहते हो, मैं नहीं ।”
“बया कर लो तुम, यदि पकड़कर तुम्हें बाँध लूँ मैं यहीं ?”

“इसके पहले कटें क्यों न तनु-बन्धन तेरे !”
सात्यकि ने निज खड्ग खींचकर नयन तरेरे ।
तत्क्षण प्रभु ने उसे रोककर जैसे तैसे ,
दुर्योधन की ओर न जाने देखा कैसे ।
परिकर समेत वह काँपकर वहीं लड़खड़ाता रहा ,
वे गये विदुर के गेह, वह बैठ बड़बड़ाता रहा ।

पर दिन प्रभु प्रस्थान-पूर्व कुन्ती के आगे ,
 प्रयात हुए तब विविध भाव उसमें उठ जागे ।
 “तात, एक युग बीत गया आशा में मेरा ,
 घेरे मुझको रहा निरन्तर घना अँधेरा ।
 कब से मैंने देखा नहीं—वे सब कैसे हैं कहाँ ,
 बने गये गहन में और मैं बैठ रही घर में यहाँ !

सम्पद है, जो विपद लगा दे हरिस्मरण में ,
 मेरा सम्बल रहा यही सर्वस्व-हरण में ।
 पाकर तुमको आज सफल वह सब कुछ सहना ,
 जीती हूँ मैं तात, यही तुम उनसे कहना ।
 आया वह अवसर आप यह, प्रस्तुत हो इसके लिए ,
 क्षत्रायणी पीड़ा प्रसव की सहती है जिसके लिए ।

जीवन का वह प्रश्न मरण से भी न रुकेगा ,
 मानी का सिर कटे, कभी भय से न झुकेगा ।
 तुमने इतने दुःख धर्म के पीछे भेले ,
 उसका हो जो शेष, उसे भी वह अब ले ले !
 रक्खे तुम सबको भी वही, तुमने रक्खा है जिसे ,
 आगे का पथ ही जगत, पर पथ में ही रहना किसे ?”

“दुर्लभ ही है बुधा, धर्म में दृढ़ मति ऐसी,
जिसके जैसे कर्म, पायगा वह गति वैसी।”
आये कौरव इसी समय उनको पहुँचाने,
पुर बाहर रुक मिले-जुले सब एक ठिकाने।
लौटा कर सबको अन्त में कहा उन्होंने कर्ण से,
“हे शूर, चलो कुछ दूर तुम मेरे साथ सुवर्ण-से।”

“जो आज्ञा,” कह कर्ण आ गया उनके रथ में,
बोले वे एकान्त लाभ कर उससे पथ में।
“कर्ण, और क्या कहूँ, युद्ध अनिवार्य हुआ अब,
धर्मराज को छोड़ सभीका कार्य हुआ अब।
भवितव्य यही है, इसलिए करूँ व्यर्थ क्यों खेद मैं,
पर वीर, बता दूँ अन्त में तुम्हें तुम्हारा भेद मैं।”

पाकर मुनि से मन्त्र, किया कुन्ती ने साधन,
कौतूहल-वश बाल्यकाल में तपनाराधन।
हुआ उसी संयोगजन्य यह जन्म तुम्हारा,
किन्तु कुमारी रख न सकी आँखों का तारा।
फिर भी जननी का मन मृदुल जब देखो तब रो रहा,
अपने अंचल - धन के लिए अब अधीर वह हो रहा।”

कर्ण सब रह गया, अन्त में वह कुछ काँपा ,
उसने यन्त्र-समान करों से निज सुख ढाँपा ।
एक बोझ हट जहाँ दूसरा सिर पर आवे ,
कोई कैसे वहाँ साँस सुख की ले पावे ।
सिर उठा और नीचा हुआ मानों सँभल नहीं सका ,
जो अप्रतिहतगति था सदा वह अब था कितना थका !

“देख रहा हूँ स्वप्न जागता हुआ यहाँ मैं ,
रहा जहाँ का तहाँ घूमकर कहाँ कहाँ मैं !
जिसे नियति से बड़ी स्वयं जननी ने त्यागा ,
उससे बढ़कर और कौन है कहीं अभाग्य !
ऐसेको भी संसार में अपनाते वाले मिले ,
घरती ने केल लिया उन्हें जो न नरक से भी मिले ।

हरे-हरे ! क्या आज आपने मुझे सुनाया ?
सब पाकर भी हाथ कहाँ कुछ मेरे आया ?
गौरव देकर मुझे दैव ने छीन लिया है ,
तुमने आज कुलीन बनाकर दीन किया है ।
निश्चय मेरी गति तो वहीं मैं सब भौंति जहाँ पला ,
पर सहोदरों से चूमना, यह अभाग्य कैसा भला ?

मैं पानी से निकल आग में आज गिरा हूँ ,
उठ ऊँचा पा रहा शून्य ही शून्य निरा हूँ ।
सुझसे तो वह साँप भला जो कंचुक छोड़े ,
यह जन कैसे जुड़े हुए नाते अब तोड़े !”
“क्या क्षमा कर सकोगे न तुम माँ के परवश पाप को ?”
“पर क्षमा करूँगा देव, मैं क्यों कर अपने आपको ?

मैंने अपना एक कर्म ही अनुचित माना ,
कृष्णा का अपमान, किन्तु तब क्या यह जाना ,
वह है मेरी अनुज-बधू, अब कहाँ ठिकाना ,
इसका प्रायश्चित्त मृत्यु के हाथ बिकाना ।
हे देव, देव को भी यहाँ मैं हो गया असाध्य-सा ,
अपने ही राज्य-विरुद्ध अब लड़ने को हूँ वाध्य-सा !

निज पापों का एक आप ही पाचक हूँ मैं ,
सबका दानी आज तुम्हारा याचक हूँ मैं ।
यही याचना, यह रहस्य जाने न सुविष्टिर ,
जानेगा तो सुभे धरेगा पैरों पर गिर ।
‘मैं अनुग, तुम्हारा राज्य है, लो वा दो चाहो जिसे !’
वह यही कहेगा, किन्तु मैं कर पाऊँगा क्या इसे !

जाय न यों ही धर्मराज्य वह आया आया ,
 किसने कहाँ अजातशत्रु का ऋत्नपद पाया ।
 मैं सहता ही रहा, और सब भी सह लूँगा ,
 दुर्योधन का भी न कृतघ्न यहाँ मैं हूँगा ।
 मैं इतना आगे बढ़ चुका, पीछे कोई गति नहीं ,
 वह भी हो ले इस हाथ से, जितमें निज सम्मति नहीं !”

“धीर, ठीक ही धर्मराज को तुमने जाना ,
 लुभें उन्होंने सूत-पुत्र मन से कब माना ?
 मैंने उनसे सुना—“बुद्धि कुछ चकराती है ,
 देख कर्या-पद मातृपदस्मृति हो आती है ।
 हम पाँचों उसके सामने छोटे लगते हैं सुभे ,
 पर खरे नहीं उसके वचन खोटे लगते हैं सुभे ”—”

“सचमुच दम्भी मात्र आज मैं उसके आगे ,
 निकले माथा फोड़ भाग्य जब मेरे जागे !
 भटक शून्य में कहाँ टिकेंगे वे, क्या जाऊँ ?
 कर जाऊँ, कर्तव्य जिसे मैं अपना मानूँ !”
 “तो फिर मिलने के अर्थ अब जाओ, मैं कैसे कहूँ ?
 क्यों कल के लिए न आज ही पूर्णतया प्रसन्न रहूँ !”

सुख नीचा कर खड़ी रही वह टपटप आँसू टपकाती,
 बीच बीच में झलक झँककर पलक आप ही झपकाती।
 नित्य-कृत्य पूरा कर अपना निकला ज्यों ही जल से वीर,
 सिहर अचानक उसे देखकर हुआ ससम्भ्रम, फिर गम्भीर।
 सुख गया गीला शरीर, पर फिर स्वेदाद्रु हुआ दानी,
 कुन्ती की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानी !
 तो भी अपने को सँभाल कर बोला रविनन्दन अविजेय—
 “आर्ये, पद-वन्दन करता है आज्ञा का उत्सुक राधेय।”
 “हा राधेय, सत्य से भी यह अनृत आज जाग्रत जीता,
 तू कौन्तेय, अनृत से भी यह दुर्विध सत्य गया बीता।”
 “देवि, सुना सब कुछ यह मैंने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से,
 वह दुःस्मृति संचित करके अब वंचित न हो सहज सुख से।”
 “देवी नहीं, न आर्या ही हूँ, मैं नागिन-सी जननी हूँ,
 सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्वगौरव हननी हूँ।
 माँ से माँ न कहे तो कुछ भी कहे पुत्र, वह गाली है,
 किन्तु दोष दूँ कैसे तुम्हको जो स्वकर्म गुणशाली है।”
 “सभी बड़ी-बूढ़ी तुम जैसी माताएँ ही हैं मेरी,
 पर मेरी संदिग्ध जातता बजा चुकी अपनी मेरी।”
 “मैं अभागिनी भी किस मुहँ से कहूँ जात-धन आप तुम्हें।”
 “तुम-सी माता हुई अमाता, यह किसका अभिशाप सुभे।”
 “उन्हीं उदित से पूछ न, जिनसे चालित ग्रह-नक्षत्र समस्त,
 सुभे दिखाये विना त्राण-पथ हुए हाय ! उस दिन जो अस्त।”
 दीख पड़ा धूमिल-सा पल भर उन्हें महानल का गोला,
 बल से बाष्प रोक पुरुषार्थी अंगराज रुककर बोला—

“तो इतना कहकर ही क्या तुम निरपराधिनी होती हो ?
 इससे अधिक मूल्य तो उसका, जो मुहँ ढँककर रोती हो !”
 “किन्तु नहीं रोऊँगी अब मैं, जल से भली मुझे ज्वाला,
 तू भी क्या समझेगा, कैसे क्या कर बैठी कुल-बाला ।
 मुख्य दंडदाता है जन का मन ही उसकी भूलों का,
 कंटक-मय कर देता है वह उसका आसन फूलों का ।
 तब भी तुम्ह जैसे उदार से आशा थी मुझको अनुकूल,
 किन्तु मानती हूँ अभजना मैं इसको भी अपनी भूल ।
 शत्रु-परीक्षा के दिन ज्यों ही सूत-पुत्र तू कथित हुआ,
 एक साथ ही मेरा मानस व्यथित भाव से मथित हुआ ।
 मैं चित्तलाने चली—‘नहीं, यह मेरा सुत है, मेरा ही !’
 किन्तु डूब-सी गई उसी क्षण, दीखा मुझे अंधेरा ही ।
 जो हो गया, हो गया वह तो, गया, बह गया जो पानी,
 यही समझ तू, आई हूँ मैं सुनकर तुम्हें महादानी ।”
 “जो आज्ञा हो, पर यह जीवन अर्पित दुर्योधन के अर्थ ।”
 “समझ गई मैं, किन्तु अर्थ में न हो उसीका महा अनर्थ ।
 डालूँगी न धर्म-संकट में हीन याचना करके मैं,
 तू दाता तो नहीं याचिका तुम्हें कोख में धरके मैं ।
 किन्तु कृतापराध की अपने क्षमा-याचना हीन नहीं,
 इसे देखते हुए लोक में मुझ-सा कोई दीन नहीं ।
 राज्यदान कर दुर्योधन ने क्रीत किया यदि तेरा चाप,
 तो सर्वस्व समर्पण करके होगा अनुग युधिष्ठिर आप ।”
 “किन्तु कहेगा अखिल लोक क्या, करो न तुम मुझको यों व्रत ।”
 “हा ! लोकापवाद से मैं ही डरी न थी, तू भी है व्रत ।

भाई से भाई को भी क्या लोक नहीं मिलने देगा ?”
 “किन्तु नींव निज हृद मैत्री की कर्ण कहाँ हिलने देगा ?
 क्या संकट में उसे छोड़ दूँ, जो सुभ्रपर अवलम्बित है ?”
 “पर यह भी तो देख, अन्ततः उचित कहाँ उसका हित है ।
 जितने भी ज्ञानी गुरुजन हैं, विग्रह के वे सभी विरुद्ध,
 तेरे बल पर ही दुर्घोषन ठान रहा है यह गृह-युद्ध ।
 कुल ही नहीं देश भी सारा हो जावेगा इसमें नष्ट,
 वीर-हीन होकर यह वस्तुधा होगी अपने पद से भ्रष्ट ।
 क्या तू रोक नहीं सकता है उसे मित्र की सम्मति से ?
 तुझे वीरता का बल है तो बचा उसे तिर्यग्गति से ।”
 “इसे मानता हूँ, उसका मन मैं भी मोड़ नहीं सकता,
 वह सुभ्रको भी छोड़ेगा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता ।
 होनहार कुछ ऐसा ही है, वह होकर ही मानेगा ।”
 “पर जिसके कारण यह होगा, जगत उसे भी जानेगा ।”
 “तुम तो जानेगी, मैंने निज वचन अन्त तक पाखा था ।”
 “हाँ, सहोदरों पर अनाथिनी माँ का क्रोध बिकाला था ।”
 नहीं पाँच गाँवों का भी क्या पाँच पाण्डवों को अधिकार ?
 यही न्याय करने वाले का साथी है तू अरे उदार !”
 “प्रेम दोष-गुण नहीं देखता ।” “यह अबलाओं की-सी बात,
 तेरे मुहँ से नहीं सोहती, धीर-वीर है जो विख्यात ।
 प्रेम न देख सके चाहे कुछ, पर विवेक तो अन्ध नहीं,
 तू ही कह, आता है तुभ्रको इसमें उसका गन्ध कहीं ?”
 “शान्ति-हितार्थ पाँच गाँवों का त्याग तुच्छ क्यों और न हो ?”
 “कहाँ रहें वे, जिन्हें सुई के अग्रभाग भर ठौर न हो ?

तुम्हे इष्ट है, अन्यायी को कर दें आत्म - समर्पण वे ?
 स्वत्व धर्म पर भी न लगा दें अपने प्राणों का पण वे ?”
 “नहीं-नहीं, मेरे अनुजों को मुझसे भी लोहा लेना,
 तुमसे यही विनय है, मेरा परिचय उन्हें न तुम देना।
 सचमुच मेरी प्रसू तुम्हीं, मैं और कहाँ होता उद्भूत ?”
 “मैं यह कैसे कहूँ, किन्तु है तू मेरा ही सिंह सपूत।
 तुझमें जो मिथ्यापवाद-भय, उसका अघ मेरे सिर है,
 भीरु कहो, पर दर्प-दम्भ से ऊँचा उठा युधिष्ठिर है।”
 “श्रुव वह धर्मराज, विजयी हो, हठी पुत्र क्या और कहे ?
 पुत्र पाँच के पाँच तुम्हारे, अर्जुन किंवा कर्ण रहे।”
 “दोनों धोर मुझे रोना ही, रुके किन्तु कातर वाणी,
 मरने में ही जीने वाले जनती है हम क्षत्राणी ?”
 “दो मुझको पदधूलि, तुम्हें मैं दे न सका माँ, मनचाहा।”
 “हाथ वत्स, अब धूलि-भस्म ही शेष, और सब कुछ स्वाहा !
 जैसे तू जाने, राधा पर प्रीति प्रकट करना मेरी,
 मैं दुःखिनी देवकी-सी हूँ, वही यशोदा माँ तेरी !”

युयुत्सु

निर्मल नीलांचल रत्न-टँका ,
निशि ने पसार संसार ढँका ।
पर कर्ण अचंचल हो न सका ,
पीड़ित शिशु-सा वह सो न सका ।
आकर बयार बहलाती थी ,
मुहँ चूम केश सहलाती थी ।
पर शान्त न थी मन की पीड़ा ,
क्या तुच्छ जाँघ का वह कीड़ा !
था मन्द गन्ध-दीपक जलता ,
उसका प्रकाश भी था खलता ।
वह भी अघोरता देख न ले ,
द्विप जाय आपसे वीर भले ।
पर दीप न बली बढ़ा पाया ,
उससे युयुत्सु मिलने आया ।
वह भी था नृप धृतराष्ट्र-तनय ,
प्रिय न था विदुर ज्यों जिसे अनय !

जननी न किन्तु मान्धारी थी ,
 वह असर्वग्या सुकुमारी थी ।
 सुनकर जिसका स्वर मात्र मधुर ,
 रीफा था अन्ध वृषति का उेर ।
 सुहँ पोंछ ससंभ्रम चादर से ,
 उठ कर्य मिला बढ आदर से ।
 “आये तुम इतनी रात गये ,
 होगी ऐसी क्या बात अये !”
 माँ के असुरूप मधुर वाणी ,
 बोला युयुत्सु—“तुम हो दानी ,
 कुछ समय मात्र तुमसे पाऊँ ,
 मैं भी कृतार्थ तो हो जाऊँ ।
 भीतर ज्वाला - सी जहाँ जगे ,
 ऐसे में कैसे आँख लगे ?
 मैं था अनिद्र कुछ अकुलाया ,
 तुम जाग रहे हो, सुन आया ।
 हरि आये गये, न सन्धि हुई ,
 मन सुमन हुए न सुगन्धि हुई ।
 सद्भाव यहाँ कुछ जगा नहीं ,
 सुफको यह अच्छल लगा नहीं ।
 सौजन्य उधर, अन्याय इधर ,
 मैं आकुल हूँ, भव रहूँ किधर ?”
 “सुफसे यह प्रश्न असंगत है ,
 अज्ञात कहाँ मेरा मत है ?”

युयुत्सु

“वह भली भाँति है ज्ञात मुझे ,
कर दो इतना व्याख्यात मुझे ,
मैं भीत नहीं, जो कहे, कहो ,
पर मातृ-पक्ष अवगीत न हो ।”
आगया कर्ण सत्राटे में ,
जो था कुल-धन के घाटे में ।—
“आया यह मेरे निकट तभी !”
सँभला वह, जो सहमा न कभी ।
“यदि है यह दोष, दम्भ-कृत है ,
आत्मा से कौन अनाहत है ?
होता प्रदीप से कज्जल ज्यों ,
कर्दम से शत-सहस्र-दल त्यों ।
इतना ही किन्तु यथेष्ट नहीं ,
तुम बनो न यों दुश्चेष्ट कहीं ।
अपनों के साथ मरण अच्छा ,
अथवा पर-पक्ष वरण अच्छा ?”
“पाण्डव क्या कभी पराये हैं ?
वे छल से गये हराये हैं ।
अपनों से वैर किया किसने ?
कूरों का मार्ग लिया किसने ?”
“देते हैं तुमको अन्न वही ।”
“यह तो कहने की बात रही ।
पाते हैं स्वयं कहाँ से वे ?
हम भी क्या नहीं जहाँ से वे ?

यों कौन किसे क्या देता है ,
कोई किससे क्या लेता है ।
सीधा विनिमय व्यापार यहाँ ,
समझूँ इसमें उपकार कहाँ ?
धनियों के हाथ भले धन है ,
पर जन के साथ स्वजीवन है ।
पाता, जो स्वेद बहाता है ,
धन तन का मैल कहाता है ।
अधिकार सभीको है चुन का ,
सम्बन्ध बड़ा मेरा - उनका ।
वे करें किन्तु अनरीति कहीं ,
तो क्या मैं रक्खूँ नीति नहीं ।
जो अंगराज्य है प्राप्त तुम्हें ,
हो और न हो पर्याप्त तुम्हें ,
किसलिए मिला उसका पट्टा ,
तुम करो पार्थ का मुहँ खट्टा ।—
अौदार्य स्वार्थमय ही उसका ,
उद्देश्य राज्य जय ही उसका ।
इस कारण तुम पर प्रीति उसे ,
तुमसे है मिली अभीति उसे ।
जो वैरी बना बन्धुजन का ,
है मित्र कौन दुर्योधन का ?
यदि उसकी प्रियता में फूले ,
तो तुम न रहो भ्रम में भूले !”

“तुम अपनी कही मुझे छोड़ो ,
 बाहर से व्यर्थ न बल जोड़ो ।
 जाकर पहले न विदुर के घर ,
 तुम आये यहाँ कही क्यों कर ।”
 “सोचा यह, प्रथम विरोध सुनूँ ,
 निर्णय कर फिर औचित्य चुनूँ ।”
 “यदि कर्ण समीप न तुम आते ,
 मिलने विकर्ण से ही जाते ।
 तो पाते फिर भी कुछ वैसा ,
 मुझसे है इष्ट तुम्हें जैसा ।”
 “उसमें अवश्य अच्छी मति है ,
 फिर भी क्या अप्रतिहत गति है ?
 जो ठन कर ठान नहीं सकता ,
 मैं उसको मान नहीं सकता ?”
 “कुछ कहती नहीं तुम्हारी माँ ?”
 “क्या कहे भाग्य की मारी माँ ?
 वह स्वामि-सेविका मात्र सदा ,
 रो उठती है यों यदा कदा—
 ‘तुमको पीछे परिताप न हो ,
 मुझको लेकर अपलाप न हो ।’
 वह किस रानी से हीन कहीं ,
 स्वेच्छा से ही स्वाधीन नहीं ।
 जो स्वयं न उसको देख सके ,
 उनसे कब उसके नेत्र थके ।”

“तो अपनी ही क्या तुम्हें पड़ी ?
जननी से कौन समृद्धि बड़ी ?”
यह कह कर कर्ण तनिक काँपा ,
रुक वहीं अधर उसने चाँपा ।
“निष्क्रिय-सा न्याय-लक्ष उसका ,
मैं पूरक दाय-पक्ष उसका ।
मैं जननी का वह जात नहीं ,
जो सहे न्याय का घात कहीं ।
आक्रोश दोष के प्रति मेरा ,
गतिशील, स्वमन्त्रि का मैं प्रेरा ।
हो चाहे मेरी हानि न हो ,
पर मुझको आत्मरत्नानि न हो ।
माँ को जग में अपवाद मिले ,
पर प्रभु का उसे प्रसाद मिले ।”
“क्या यह सीधा विद्रोह नहीं ?”
“हो, मेरा उच्चारोह यहीं ।
मैं कुछ करने के लिए तुला ,
होगा मेरा विद्रोह खुला ।
कुछ समाधान मैं खोज रहा ,
अपने को वहीं नियोज रहा ।
पर पाता नहीं कहीं वैसा ।”
“यदि करने लगे सभी ऐसा ?”
“कर सकते केवल तुम्हीं कहीं ,
कुरुराज-कर्ण दो अलग नहीं ।”

“बलि, मेरे लिए बहुत इतना ,
 दूँ तुमको धन्यवाद कितना !”
 “कृतकृत्य हुआ हूँ मैं आकर ,
 देखूँ अब ब्ययति-वृत्य जाकर !”

जब गया युयुत्सु, कर्ण डोला ,
 निःश्वास छोड़कर वह बोला—
 “सचमुच मैं क्रीत सुयोधन से ,
 क्या एक मात्र भौतिक धन से !
 मुझ पर है इतना भार लदा ,
 रहता हूँ जिससे दबा सदा ।
 जो था मैं हा ! वह भी न बना ,
 जननी, क्यों तूने मुझे जना !”

समर-सज्जा

उजड़ चले गृह-ग्राम-पुर हुआ जहाँ अभियान ,
शिवरों से बसने लगे प्रान्तर नगर-समान ।
जन के जीवन चक्र का यह कैसा उपहास ,
नागर फिर लेने चले वन्य शिविर का वास !
यात्री योधों के हुए घर ही समर-क्षेत्र ,
साले बधुओं के उन्हें सजल शरों - से नेत्र ।
कहा सुभट ने लिपटता देख पदों में बाल ,—
“जियो लाल, आया अभी यह मेरा ही काल !”
पैर बड़े पर सुहँ मुड़े पीछे वारंवार ,
पुनः लौटना हो न हो, लें भर नेत्र निहार ।
पोंछ दिया प्रिय ने वदन—“करो प्रिये शुभ गान ,”
किन्तु प्रिया के कण्ठ में गलित हुआ निस्वान ।
चरण देहली पर रुके, गई किन्तु बड़ दृष्टि ,
कुल-लक्ष्मणाओं को लगी सूनी-सी सब सृष्टि ।
पांचाली में था जहाँ प्रत्यय का उत्साह ,
भानुमती भरने लगी रह रह ठंडी भाह ।

हँस दुर्योधन ने कहा—“भ्राज विजय का योग ,”
 वह बोली—“प्रियतम, मुझे मँहगा उसका भोग ।
 जैसे भी हो, विजय ही बना तुम्हारा धर्म ,
 किन्तु पराजित प्रथम ही हैं ये मेरे मर्म ।”
 “प्रिये, पराजय मत कहो यह है विजयी प्रेम ,
 कर सकती है मृत्यु भी क्या मेरा अक्षेम ?

घर न खींच मेरी गदा धरे युयुत्सु-किशोर ।”
 “दो न, गदा छोड़ा बने कोड़ा कार्मुक डोर !
 तात, चलूँगा युद्ध में मैं भी निज दल जोड़ ,
 देखूँ, काका भीम का कितना-विस्तृत कोड़ ?”
 सुनकर बच्चे के वचन उसे हृदय पर खींच ,
 दुर्योधन चुप ही रहा क्षण भर आँखें मींच ।

कुरुक्षेत्र में जा जमे दोनों दल दो धोर ,
 धरती पर बादल घिरे फिरी गगन में घोर ।
 हय-गजादि पशु भी गये विवश नरों के साथ ,
 जीना हरि के हाथ है, मरना सबके हाथ !
 शल्य चिकित्सक भी गये लेकर निज संभार ,
 शस्त्राहत का शस्त्र ही करते हैं उपचार ।
 “एकादश भद्रौहिणी कौरव सेना तात !”—
 कहा युधिष्ठिर ने—“यहाँ अपनी केवल सात ।”

भीससेन यह सुन हँसे ऊँचा कर निज मात्र ,
 “यहाँ सात, पर एक पर एक वहाँ दो मात्र !”

पाण्डव - सेनापति हुआ धृष्टद्युम्न समर्थ ,
 बड़े स्वयं छोड़ें न क्यों पद छोटों के अर्थ ।
 उधर पितामह-तुल्य था कौन अन्य जन मान्य ,
 उनके रहते पा सके जो उनका प्राधान्य ?
 “परवश-सा स्वीकार मैं कर लूँगा यह भार ,
 पर न करूँगा मैं किसी पाण्डव का संहार ।
 वे अवध्य हैं और तुम रण में मेरे रक्ष्य ,
 पांचालों का लक्ष्य मैं, वे हैं मेरे लक्ष्य ।
 पहले ही तुम जान लो मेरे मन की बात ,
 और कर्ण से पूछ लो जो सदेह उत्पात !”
 वृद्ध भीष्म का कर सका दुर्योधन न विरोध ,
 पर अभिमानी कर्ण उठ बोला यों सकोध ,—
 “मेरी कुत्सा ही सदा जरठ, तुम्हारा काम ,
 तजा तुम्हारे पतन तक मैंने यह संग्राम !”
 “तुम जैसों की भीष्म को कहाँ अपेक्षा कर्ण ?”
 किन्तु हुआ कुरुगुज का तत्क्षणा वदन विवर्ण ।
 विना कहे कहते हुए—“यह क्या किया कठोर ?”
 देखा कातर-दृष्टि से उसने उसकी ओर ।
 “रख सकता था माच मैं यह करके ही आज ,
 पर मेरा कण कण तुम्हें अर्पण है कुरुगुज !”

मन भी तुमने है दिया देकर बहु धन-मान ,
मेरा जीवन ही उचित है उसका प्रतिदान ।
वे पाण्डव-त्रघ विरत हों, किन्तु अटल ये वर्रा ,
रह सकता है एक ही अर्जुन किंवा कर्ण ।”

तदनन्तर आये वहाँ राम रेवती-रंग ,
दोनों पक्षों ने उन्हें लिया एक ही संग ।
“देख रहा हूँ मैं यहाँ उलटे ही सब ढंग ,”
बोले वे—“यह हो गया मेरा मधुरस-मंग !
हन्त ! अन्त में आज क्या करते हो तुम लोग ?
अपने हाथों आप ही मरने का उद्योग !
पुरावृत्त से भी नहीं भरे तुम्हारे तुन्द ,
बनते हो तुम मनुज से दनुज सुन्द-उपसुन्द ।
हरि से मेरा वश नहीं, उन्हें रुचे सो ठीक ,
अथवा कहना चाहिए अमिष्ठ भाग्य की लीक ।
कहने-सुनने की नहीं, गुनने की सब बात ,
सबको आँखें, किन्तु जब हटे तामसी रात ।
जहाँ आप माने नहीं कोई अपनी भूल ,
होगा निर्णय अन्य का वहाँ कहाँ अनुकूल ?
न्याय - युद्ध भी न्याय से होते हैं क्या पूर्ण ,
विजयी का भी सिर सुके करना पड़े न चूर्ण !
बन्धु-रुधिर से बन्धु ही रँगते हो तुम हाथ ,
असहयोग ही उचित है सुके तुम्हारे साथ !

मेरे पट पर क्यों पड़े कलि-कलमष की कीच ,
चलूँ तीर्थ - यात्रा करूँ जाकर मैं इस बीच ?^{११}

पर दिन कौरव-दूत बन, लेकर मानो लूक ,
गया पाण्डवों के निकट शकुनि-सपूत उलूक ।
उनकी धार्मिकता तथा निज भ्रव्यता सोच ,
समाश्रवस्त वह था तदपि मिटा न भय-संकोच ।
अपने स्वर में कर चला चर उलूक शुक-पाठ ,
उखड़ा दुर्योधन यथा बन कर सूखा काठ ।—
“मृत्यु यहाँ लाई तुम्हें, सावधान हो जाव ,
कण्टक - वन के व्रण नहीं आगे रण के घाव ।
यहाँ घर्म कह कर नहीं चलने का पाखण्ड ,
कल की दुर्गति आज क्या भूल गये तुम भण्ड !
यही ठीक, सहते रहो तप कह कह कर कष्ट ,
राज्य-राज्य जप कर वृथा करो न निज को नष्ट ।
कुटिल कृष्ण-कौटिल्य भी प्रकट हुआ इस वार ,
चला तारने जो तुम्हें सार-धार के पार !
क्लीबों के वश के कहाँ वीरों कैसे कृत्य ?
देखें हम भी यदि करे वृहन्नला निज नृत्य !
अबला के बल पर बचा भूखा भीम वराक ,
वैनतेय से जूझ कर क्या कर लेगा काक ?
नकुल और सहदेव तो हैं अनाथ - से दीन ,
आतृ-हीन होंगे न क्यों वे पितृ-मातृ-विहीन ?”

राज्य लाभ के अर्थ यह क्या अच्छा उद्योग ,
 शिखंडियों को साथ ले आये हो तुम लोग !
 अब भी अवसर है तुम्हें, भाग बचो इस रात ,
 मुझको भी क्या लाभ जो करूँ तुम्हारा घात ?
 बिगड़ चुका यह लोक तो, किन्तु व्यर्थ है शोक ,
 जाओ, करो उपाय कुछ, सुधर जाय परलोक !”
 धीर युधिष्ठिर आप ही सुनकर रहे न शान्त ,
 निज वीरों का क्रोध भी किया उन्होंने क्षान्त ।
 “मरता है अस्वस्थ जो करता वही प्रलाप ,
 तात ! तनिक अनुभव करो दुर्योधन का ताप ।
 कहना उससे दूत, तू-सुना तुम्हारा स्वान ,
 मिला तुम्हींसे यह भला आहव का आह्वान ।
 दुर्बलता ही तो प्रकट करते हैं दुर्वाद ,
 सावधान हम हों न हों, तुम क्यों करो प्रमाद ।
 मुझको कहना है यही अब जो लक्ष समक्ष ,
 वेध न पावेंगे उसे किसी शकुनि के अक्ष ।”

अर्जुन का मोह

“उदय की आभा अक्षय हो ।”
वन्दिजन बोल उठे—“जय हो ।
अरुण-से हे चिर तरुण, चलो ,
शत्रु-दल तम-सा तमक दलो ।”
मुग्ध हो मारू बाजों से ,
सजे दोनों दल साजों से ।
बड़े गज, घन घंटे घहरे ,
चलित हय हींस ललित लहरे ।
भेरियाँ गूँजी, शंख फुँके ,
सुभट समरानल हेतु मुँके ।
उठी शस्त्रों में किरणों कौंध ,
यथा चपलाश्रों की चकचौंध ।
व्यूह में नर नाहर-से बद्ध ,
टूट पड़ने को थे सन्नद्ध ।
बिगड़ते हुए बन्धु-सम्बन्ध ,
बना जाते हैं जन को अन्ध ।

अर्जुन का मोह

अमर-से नर-वर समर चढ़े ,
मन्दिरों-से रथ सरव बढ़े ।
गगन में सौ सौ केतु उड़े ,
जयाजय के जुग जोग जुड़े ।

स्वयं श्रीहरि थे जिसके सूत ,
केतु पर आंजनेय अवधूत ,
पार्थ-रथ, जिसके अश्व अवध्य ,
रुका युग सेनाओं के मध्य ।
रथी ने डाली दृष्टि समस्त ,
देखने को अपना प्रतिपक्ष ।
दिखाई दिये पितामह मान्य ,
और गुरु तथा स्वजन अन्यान्य ।
युद्ध करना है इनके संग ,
बैठ-सी उनकी गई उमंग ।
“अहह ! यह दुष्कृत कैसा घोर ?”
उन्होंने देखा प्रभु की ओर ।
“इन्हें मैं कैसे मारूँ हाय !”
हुए वे सहसा कंपितकाय ।
“स्वजन - संबंधी ये ऐसे
रक्ष्य शर-लक्ष्य बनें कैसे ?
भतीजों सहित खड़े भाई ,
कुमति ही क्यों न इन्हें लाई ।

ससुर-साले हैं, मामा हैं,
 सुपरिचित सब श्रुतनामा हैं।
 मिला भी इन्हें मार कर राज्य,
 हरे, तो वह है हमको त्याज्य।
 चले हम करने कैसा पाप !”
 छोड़ बैठे वे अपना चाप।
 दया से द्रवित हो गये धीर,
 भरा उनके नयनों में नीर।
 देख कर उनका रंग कुरंग,
 किया मधुसूदन ने भ्रू-भंग।
 “विषम वेला में तुम्हको ओह !
 कहाँ से आया यह व्यामोह ?
 न इसमें स्वर्ग, न कीर्ति, न मान,
 नहीं आर्योचित यह अज्ञान।
 कहाँ औदार्य, अरे यह दैन्य,
 प्रथम ही तुम्हपर चढ़ा सैन्य।
 दया बन आई दुर्बलता,
 आप तू अपने को छलता।
 उचित क्या तुम्हको यह बताव,
 छोड़ तू क्लैव्य - कापुरुष-भाव।
 क्षुद्र दौर्बल्य हृदय का छोड़,
 परन्तप, उठ अपूर्व यश जोड़।
 कहाँ तेरा वह क्षत्रिय-गर्व,
 आप ही आप मिला यह पर्व।

करेगा यदि तू यहाँ प्रमाद ,
 पायगा तो अधर्म-अपवाद ।
 रहा जिनमें अतिमान्य अजेय ,
 उन्हींमें होना है क्या हेय ?
 करेंगे सब सब कहीं अकीर्ति ,
 मृत्यु अच्छी है, नहीं अकीर्ति ।
 हुआ यदि विजयी रण-पण पाल ,
 भूमि भोगेगा तू चिरकाल ।
 मरा तो स्वर्ग-विहार अखण्ड ,
 वीर उठ, और उठा कोदण्ड ।”
 “अकंटक ऋद्ध राज्य भू पर ,
 और अमराधिपत्य ऊपर ,
 सकेंगे कैसे मेरा रोक ,
 इन्द्रियों का शोषक यह शोक ?
 कुलक्षय से कुल-धर्म विनष्ट ,
 और कुल-बधुएँ होंगी अष्ट ।
 हरे, मैं कैसे आज तरूँ ,
 उन्हें मारूँ वा आप मरूँ ?
 करूँ क्या, तुम्हीं कहो हे देव !
 भक्त पर निठुर न हो हे देव !
 त्याग स्वजनों का हननोद्योग ,
 भला है भव में भिक्षा - भोग ।
 न होगा मुझसे तो यह युद्ध ।”
 हो उठी उनकी गिरा निरुद्ध ।

“सदय हो मुझपर दया-निधान ,
बचूँ इस हिंसा से भगवान !
अहिंसा ही हो मेरा धर्म ,
उसीमें है हम सबका शर्म ।
“कर्म क्या वह तेरे बस का ?
लक्ष्य तू आप असाहस का ।
बता, यदि होते ये पर मात्र ,
न होते तेरे स्वजन अपात्र ,
तदपि सहकर इनके उत्पात ,
तू न करता क्या इनका घात ?
धनंजय, मत हो तू यों दीन ,
हीनता हिंसा से भी हीन ।
त्रस्तता तेरी त्रासक है ,
सहज ही तू तो शासक है ।
नहीं हिंसा दुष्टों की शास्ति ,
अन्यथा न्याय-नीति की नास्ति ।
न होने दे निज बुद्धि अशुद्ध ,
समक शत्रुपचार यह युद्ध ।
अधम जो पर धन-धरणि हरे ,
कुलस्त्री का अपमान करें ,
विषव्रण हो न सकें वे व्याप्त ,
लोक-हित में कर उन्हें समाप्त ।
मिटे जब तक न परापर भाव ,
न्याय का तब तक कहाँ निभाव ?”

“समझ में आती है यह बात ,
 किन्तु हा ! फिर भी ऐसा घात ।
 राज्य भोगूँ कैसे रक्ताक्त ?
 बन्तूँ मैं कैसे ऐसा शाक्त ?
 सरल पथ मुझे दिखाओ तुम ,
 शिष्य हूँ शरण, सिखाओ तुम ।”
 “विगुण-सा भी स्वधर्म धरणीय ,
 तुझे तो महत् कर्म करणीय ।
 कर्म का ही तुझको अधिकार ,
 न कर तू फल का सोच-विचार ।
 हो सका कौन कर्म से मुक्त ,
 प्रकृति कर देगी तुझे नियुक्त ।
 ओघ-सा जन का सहज स्वभाव ,
 नहीं टिकती निग्रह की नाव ।
 युक्ति है यही एक अभिराम ,
 कर्म कर तू होकर निष्काम ।
 जयाजय अर्पण कर मुझको ,
 नहीं फिर कुछ चिन्ता तुझको ।
 अशौच्यों को न सोचने बैठ ,
 और भी तू कुछ गहरा पैठ ।
 मरों का जीतों का भी खेद ,
 नहीं करते ज्ञानी गतभेद ।
 यहाँ आता सो जाता है ,
 गया सो फिर भी आता है ।

परस्पर जन्म-मरण-परिणाम ,
 सोच का कह, इसमें क्या काम ?
 मारने वाला जो जाने ,
 और जो इसे मरा माने ,
 उभय वे हैं अनजान अतीव ।
 न मरता है न मारता जीव ।
 सर्वथा मरने को है देह ,
 अमर है आत्मा निस्तन्देह ।
 नित्य है प्राण, अनित्य शरीर ,
 युद्ध कर निर्भय होकर वीर ।
 न तो हो तुझे कर्म-फल-काम ,
 न हो कर्मों से ही उपराम ।
 मान मत कहीं परत्व-ममत्व ,
 साध तू सबमें योग समत्व ।
 बहुत-सी बातें सुन कर भिन्न ,
 अमित-सी मति तेरी उच्छिन्न ।
 उसे कर थिर समाधि में लीन ,
 तभी तू होगा योगासीन ।
 बड़ा हो बाधाओं का व्यास ,
 नहीं छोटा जन का अभ्यास ।
 सिद्धि के अर्थ कर्म ही इष्ट ,
 कर्म का कौशल योग विशिष्ट ।
 अनभ्यासी भी, मेरे अर्थ ,
 कर्म कर होगा सिद्ध समर्थ ।

कठिन समझे तू इसको भी ,
 तो न हो केवल फल-लोभी ।
 बड़ा अभ्यासापेक्षा ज्ञान ,
 ज्ञान से भी विशेष है ध्यान ।
 ध्यान से श्रेष्ठ कर्म निष्काम ,
 काम का त्याग शान्ति का धाम ।
 व्यर्थ है तेरा प्रज्ञावाद ;
 भरा है तुझमें विषम विषाद ।
 आपको स्थिर कर तू पहले ,
 एक-सा हर्ष-शोक सह ले ।
 तुष्ट जो अपने में रहते ,
 उन्हींको स्थितप्रज्ञ कहते !
 त्याग कर मन के सारे काम ,
 वही होते हैं आत्माराम ।
 किसीसे जिन्हें नहीं है मोह ,
 नहीं है जिन्हें किसीसे द्रोह ,
 रहें जो राग-रोष-भय-हीन ,
 वही हैं स्थितप्रज्ञ स्वाधीन ।
 इन्द्रियों हैं जिनके बस में ,
 विरत जो विषयों के रस में ।
 दुःख-सुख जिनको एक समान ,
 उन्हींको स्थितप्रज्ञ तू जान ।
 हानि से भरें नहीं जो आह ,
 लाभ की जिन्हें नहीं कुछ चाह ,

जय भारत

और जो हैं अलित भोगी ,
वही हैं स्थितप्रज्ञ योगी ।
जुझ तू निज कर्तव्य विचार ,
जीत के समय स्वयं मत हार ।
लिया है मैंने तेरा भार ,
ठहर तू मेरी ओर निहार ।”

उठाई अर्जुन ने जो दृष्टि ,
सामने थी क्या अद्भुत सृष्टि ।
बनी पल में आकृति उत्ताल ,
उटे भक-से जल जैसे ज्वाल ।
पार्थ ने पाई दृष्टि विशेष ,
तदपि दुस्सह था वह उन्मेष ।
भूमि से नभ तक पिण्डाकार ,
ज्वलित था तेजःपुंज अपार ।
प्रभा से दशों दिशाएँ पाट ,
प्रकट था प्रभु का रूप विराट ।
दोत बहु बाहु-उदर-मुख-नेत्र ,
केश तक थे किरणों के क्षेत्र ।
पतंगों से उड़ उड़ ग्रह-लोक ,
लान होते थे पीनस्तोक ।
तीक्ष्ण दाढ़ों से चकनाचूर ,
हो रहे थे सब कौरव शूर ।

अर्जुन का मोह

वीर निज दल के भी सत्रास ,
बने थे उन्हीं मुखों के प्राप्त ।
धनंजय होकर विस्मित भीत ,
लगे यों कहने वचन विनीत—
“विभो, यह रूप विलक्षण वाम ,
जानता नहीं, धरूँ क्या नाम ।”
“काल मैं सबका भक्षक हूँ ,
यहाँ भी तैरा रक्षक हूँ ।
व्यर्थ की चिन्ता मत कर तू ,
भोग निज राज्य विजय वर तू ।
निरख मुझसे हत ये नर तू ,
चीरवर, हो निमित्त भर तू ।
द्रोण युत भीष्म, कर्ण, कुरुमौर ,
जयद्रथ, शकुनि आदि सब और
मरे हैं मुझसे, इन्हें समेट ,
प्राप्त कर तू स्वराज्य की भेट ।”
“प्रणति तुमको हे त्रिभुवन-भूप ,
संवरण करो अहो ! यह रूप ।
क्षम्य हूँ मैं अजान भाषी ,
अनुग्रह का ही अभिलाषी ।
पुत्र की पिता, मित्र की मित्र ,
प्रिया की प्रिय हे चित्र-चरित्र ,
क्षमा कर देता है ज्यों भूल ,
रहो त्यों मुझपर तुम अनुकूल ।”

“भक्त जो मेरा प्यारा है ,
 नहीं तू मुझसे न्यारा है ।
 तभी तो है तूने हेरा ,
 पार्थ, यह विश्वरूप मेरा ।
 सभीको जो मुझमें जाने ,
 और सबमें मुझको माने ।
 दूर वह मुझसे कभी नहीं ,
 निकट मैं उसके सभी कहीं ।
 योग युक्तात्मा समदर्शी ,
 सभीमें - है आत्म - स्पर्शी ।
 नहीं उसमें - मुझमें विक्षेप ,
 कर्म करके भी वह निल्लेप ।
 अर्प मुझको सब आयोजन ,
 यज्ञ - तप - दान - भजन - भोजन ।
 भक्ति का बहुत एक भी कण ,
 ग्रहण करता हूँ मैं तत्क्षण ।
 छोड़कर तू सब धर्म विवेक ,
 शरण में आजा मेरे एक ।
 स्वस्थ हो, मैं तेरा हूँगा ,
 मुक्ति सब पापों से दूँगा ।”

“प्रभो, क्या इष्ट और जन को ,
 न भूलूँ इस आश्वासन को ।
 और क्या समझूँ - बूझूँगा ,
 स्वस्थ मन से ही बूझूँगा ।”

भक्त का हुआ मोह जो भंग,
हैंसे रख सौम्य रूप श्रीरंग।

उसी क्षण सबका मन झकझोर,
युधिष्ठिर गये दूसरी ओर।
किया स्वजनों ने हाहाकार—
“आर्य जाते हैं कवच उतार—”
उठाकर कर बोले यदुनाथ,
“रहो, देखो धीरज के साथ।”
चकित-सा हुआ स्वयं कुरुकेतु,
आरहे थे पैदल किस हेतु ?
पहुँच एकाकी भीष्म समीप,
पदों में प्रणत हुए अरुणीप।
और बोले—“आज्ञा हो तात,
करें अब हम सब यह संघात।
युद्ध का अविनय ही आधार,
क्षमाप्रार्थी मैं वारंवार।”
हो गये गद्गद् से गांगेय,
“जयी हो वत्स, बन्नें मैं जेय।
प्रथम ही हीन भावना जीत,
उठे तूम ऊँचे, बढ़ो विनीत।”
झुकाया जाकर फिर जो सीस,
मिली गुरु से भी उन्हें असीस।

‘विश्व मैं, जन हा ! धन का दास ,
जयी हो तुम, रखौ विश्वास ।’
गये फिर रूप-समीप कौन्तेय ,
मिला उनसे भी उनका देय ।
‘‘मुझे बाँचे है इनकी डोर ,
स्वस्ति है किन्तु तुम्हारी ओर ।’
देख निज पद-नत उनको शल्य ,
रोकता कैसे निज वैकृत्य ?
‘‘लिया मैंने निज भाग्य सहेज ,
हरूँगा किन्तु कर्ण का तेज ।’

लौट कर वे फिर घूम पड़े ,
हुए पर-दल की ओर खड़े ।
ललित - गम्भीर - शरीर धरे ,
धीर यों बोले वचन खरे—
‘‘सुनो सब, जय है हरि के हाथ ,
और हरि सदा हमारे साथ ।
जिसे आना हो अब भी आव ,
धर्म की ओर इधर हो जाव ।’
चमक-से गये सभीके गात्र ,
किन्तु सब रहे देखते मात्र ।
निकल कर एक युयुत्सु रथी ,
आ हुआ उनका पन्थ-पथी ।

“बन्धु, तुम एक बहुत हमको ,
शेष शत तो अर्पित यम को !
दीखती है निश्चित यह बात ,
तुम्हींसे तर्पित होंगे तात ।”
उभय पक्षों के कल कल में ,
उसे लाये वे निज दल में ।
दिपे यों मानो विजयस्तम्भ ,
हुआ तब तुमुल युद्ध आरम्भ ।

युद्ध

युद्ध कहीं पाल पाता अपने नियम ही ।
तुल्य प्रतिद्वन्द्वियों को छोड़ कर औरों से—
यों ही नहीं लड़ते थे योद्धा उस काल के ।
बहुधा पदातियों से केवल पदाति ही ,
अश्व-गजारोहियों से अश्व-गजारूढ़ ही ,
रथियों से केवल रथी ही थे भगड़ते ।
हारे-थके शत्रु को वे अवसर देते थे ,
वर्महीन पर भी प्रहार करते न थे ।
कोई वाक्य युद्ध करे तो वे वही करते ,
मारते नहीं थे किसी हार मानते को भी ।
शस्त्र-भंग होने पर कहते विपक्षी से—
“ऐसे क्या लड़ोगे, रहो, ले लो कुछ मुझसे ।”
यदि वह कहता—“अभी तो भुजदण्ड है ।”
तो वे शस्त्र छोड़ करते थे मल्लयुद्ध ही ।
संगर भी उनके लिए था एक रंग-सा ।
मेदिये ही प्राणों पर खेलते थे उनके ।

युद्ध थमते ही मिलते थे बन्धु-सम वे ।
 चारणों की और परिचारकों की बात क्या ,
 शस्त्र-भार-वाहक भी उनके अबध्य थे ।
 वादक तो मादक थे रक्ष्य दोनों पक्षों के ।

किन्तु अकस्मात् जब काल निज रूप में
 आता है समक्ष, तब किंकर्तव्यमूढ़ हो ,
 अपने नहीं तो अपनों के लिए घोर भी
 नियम-विरुद्ध कर बैठते हैं कुछ भी ।
 ऐसा इस युद्ध में भी देखा गया बहुधा ।
 तो भी नियमों का भंग निन्दनीय होता है ।
 ऐसी लोक-निन्दा क्या यहाँ भी अपवाद थी ?
 पाई भगवान ने ही उसमें बड़ाई थी ।
 'आयुध न लूँगा मैं' उन्होंने यह था कहा ,
 और भक्त भीष्म ने कहा था--'देख लूँगा मैं ।'
 वाध्य वे हुए थे बात रखने को भक्त की ।
 ऐसा रण-रंग गंगानन्दन ने था किया ,
 पाण्डवों का सारा बल अस्तव्यस्त हो गया ।
 द्वन्द्व जहाँ हो रहा था, संकुल तुमुल था ।
 भर गई सारी रणभूमि रुण्ड-मुण्डों से ,
 रक्त के प्रवाह छूटे, पानी की पुकार थी ।
 हुंकारें जहाँ थीं, वहीं आहें थीं, कराहें थीं ।
 लाल लाल भूमि सब ओर विकराल थी ,

दीखे रक्त-कर्दम में हाथी भी अशक्त-से !
 कट कट शीश गिर राह-से उदित थे ,
 केतु-से कटे भी बाहु भय उपजाते थे ।
 कर्तित थी कन्धराएँ, नर्तित कबन्ध थे !
 दूटे रथ आँतें-सी बिखेर कर अंगों की ,
 तड़प रहे थे जन्तु शीघ्र मर जाने को !
 हड़प रहे थे स्यार गीघ शव नोंच के ,
 सो गये थे शत्रु-मित्र भूमि पर साथ ही ।
 सबको किशोरों-सा खिल्लाया पितामह ने ।
 आशा जय की तो कहाँ, प्राणों की रही किसे ?
 लेके तब चक्र चले कृष्ण उन्हें मारने ।
 उनके प्रताप तथा तेज के प्रभाव से ,
 आस पास छाये हुए धूलि-कण क्षय में
 तप्त चिनगारियों-से उद्भासित हो उठे !
 बोले पितामह से वे—“पाण्डवों के वध की
 इच्छा न हो तुमको, परन्तु मेरा कार्य तो
 पूरा नहीं होगा, यदि हार हुई उनकी ।
 और, मेरी हार बिना कैसे तुम जीतोगे ?
 मानता हूँ, आज मुझे तुमने हरा दिया ।
 साधु साधु ! लो, मैं हुआ बाध्य शस्त्र लेने को ।
 और जो कहो सो करूँ, किन्तु सावधान हो !”
 चाप रख ऊँचा भाल भीष्म ने झुका दिया—
 “मारो प्रभो, मारो, यह कोप नहीं, करुणा ।
 आज मेरे जन्म-मृत्यु दोनों की समाप्ति है ।”

धर प्रभु-पाणि इसी बीच कहा पार्थ ने—

“करते प्रहार पितामह पर अब भी
मेरा कर कौंपता था, मुझको क्षमा करो ,
करना पड़ेगा नहीं कष्ट अब तुमको ।”

धर्मराज ने भी किया अनुनय उनसे—

“युद्ध में पितामह के रहते हुए हरे !
जीतने की आशा नहीं की जा सकती कभी ।
यदि तुम चाहो तो अकेले इस चक्र से
मार सकते हो सब शत्रुओं को काल ज्यों ।
तो भी तात, तुमने कहा है—‘इस युद्ध में
आयुध न लूँगा मैं,’ निभाना इसे चाहिए ,
चाहे मन मार हमें खानी पड़े हार ही ।
करते पितामह प्रहार नहीं नारी पै
और वे शिखण्डी को समझते हैं नारी ही ,
चाहे कितना ही पुरुषार्थी वह क्यों न हो ।
वचन तुम्हारे भंग होने से यही भला ,
सफल करा दो तुम उसकी प्रतिज्ञा ही ।
अर्जुन प्रधान पृष्ठ-पोषक हों उसके ।”

अन्त में यही हुआ, प्रसन्न न थे मन में
अर्जुन, परन्तु अन्य कौन-सा उपाय था ?
त्राण-हेतु घूँट कड़ा पीना पड़ा उनको ।
कौरव न रोक सके बढ़ते शिखण्डी को ,

पार्थ के विशिख उसे बीच में लिये रहे ।
उसके विरोध-हीन बाणों के प्रहार से
बिध कर सारा तन शान्त पितामह का ,
गिरता हुआ भी रहा ऊपर ही भूमि से ।
बिद्ध वैरि-बाण-पंक्ति शय्या बनी उनकी ।
मानो निज रश्मि-जात संवरण करके
ओढ़के बिछाके वही सान्ध्य रवि था पड़ा !

रुक गया युद्ध, महायोद्धा युगपत्न के
होकर उदास उन्हें घेर आ खड़े हुए ।
देह था शरों पर परन्तु सिर लटका ।
सस्मित उन्होंने कहा—“कोई उपधान दो ।”
लाये गये शीघ्र वे उन्हींके रिक्त रथ से
खिच हो उन्होंने कहा—“दूर करो इनको !”
पार्थ को पुकार बोले—“वत्स, उपधान दो ,”
“जो आज्ञा” तुरन्त तीन बाण छोड़ वृद्ध के
मस्तक के नीचे खड़े कर दिये पार्थ ने ।
ऊँची उठी ग्रीवा, कहा तुष्ट पितामह ने—
“योग्य उपधान यही मेरी इस शय्या के ,
जीते रहो वत्स, तुम !” “तात, तुम्हें मार के
जीना अभिशाप ही है,”—पार्थ चुप हो गये ।

जयजयकार किया पूज्य पितामह का
दोनों ही दलों ने और साथ ही सुरों ने भी ।
शत्रु-मित्र दोनों का मतैक्य जहाँ होता है ,
फूट पड़ती है वहीं भव्यता में दिव्यता !
“होंगे जब सूर्य उत्तरायण, मरूँगा मैं ,
तब तक जीते जो रहेंगे, वे मिलेंगे ही ,
आन्ति मेंटें शिविरोँ में योधजन अधुना ।”
सप्रणाम आँसुध्रों की अंजलि प्रथम ही
दे देकर उनको प्रयाण किया लोगों ने ।
बोले वे सुयोधन को निकट बुलाके यों—
“बेटा, अब भी तू पाण्डवों से सन्धि कर ले ;
और दस दिन भी चलेगा अब युद्ध क्या ?”
बोला कुरुराज अति दुःख और लज्जा से—
“धिक् ! हम सबके समक्ष ही शिखण्डी ने
शरय-सा शरीर कर छोड़ा यह आपका ।”
हँस पड़े वृद्ध—“क्या थे विशिख शिखण्डी के ?
वर्म भेद पार्थ-शर मर्म जो न छेदते ।
कटता है कर्कटक अपने ही बेटों से !”
“किन्तु मेल हो सका न जिनसे प्रथम ही ,
वे तो अब हत्यारे हमारे पितामह के ।
अब उनसे क्या सन्धि ? अन्त तक चूमूँगा ,
आज यदि कर्ण होता—” “जानता हूँ मैं उसे ,
किन्तु वत्स, वैर बढ़ता है इसी रीति से ।
होता वह शान्त मेरे साथ ही तो अच्छा था ,

द्रोण के विषय में भी अर्जुन में वैसी ही
जागी दया-दुर्बलता और उन्हें उसका
दंड मिला मानो अभिमन्यु-वध-रूप में ।
भीष्म के समान ही धनंजय-तनय ने
करके विपक्ष-दल दलित स्वबल से ,
मारे थे अनेक अरि योद्धा ललकार के ,
दुर्योधन-पुत्र और कर्ण के कनिष्ठ-से ।
मन्त्रणानुसार तब संशतक शूरों ने
एक नया अयन बनाया दूर अपना ।
देकर चुनौती वहीं ले गये वे पार्थ को ,
और इस ओर चक्रव्यूह रच द्रोण ने ,
उसमें अकेले ही सुभद्रा के सपूत को
घेरा, यथा पंजर में केशरी-किशोर को !
वह घुस पैठना ही जानता था उसमें ,
अर्जुन ही जानते थे घुसना-निकलना ।
अन्य कोई घुस भी सका न साथ उसके ,
द्वार पर दुर्द्धर जयद्रथ नियुक्त था ,
जिसको मिला था वर मानो इसी जय का ।
तो भी कौन झूफ सका वीर अभिमन्यु से ?
हँस हँस उसने रुलाया रणधीरों को !
रथियों को विरथ बनाकर उड़ा दिया ,
शत्रु को अचेत कर उसके अनुज को
मार के, तनुज को भी छोड़ा नहीं उसने ।
आप ही अकेले एक एक कर युद्ध में

किसको हराया नहीं, द्रोण-कृप-कर्ण से
 बोला वह—“जो हो, तुम गुरुजन अन्ततः ,
 मारूँ क्या तुम्हें मैं, उपहार में लो हार ही !”
 बोला कुरुराज-पुत्र लक्ष्मण से वह यों—
 “भाई तुम मरे, तुम्हें दूँगा वीरगति ही !”
 जो जो कहा उसने सो करके दिखा दिया ।

मिल तत्र छे छे महारथियों ने घातें कीं ,
 मारने चले वे उसे घेर सब ओर से ।
 “यह षडयन्त्र मूर्तिमन्त !”- कहा उसने
 मारके बृहद्बल को वायु के-से वेग से
 बोला वह—“मैंने तुम्हें पंच ही बना दिया
 चाहो तो प्रपंच करो !” एक बृहद्बल के
 मरते ही दो दो रथी और नचे आ जुटे ,
 छे थे जहाँ सात हुए । सामने के ही नहीं ,
 दायें और बायें तथा पीछे के प्रहारों से
 मारे अश्व, तोड़ा रथ, काटा चाप, खड्ग भी
 वैरियों ने; तो भी उपहास कर उसने
 ठोके मुजदण्ड दोनों—“आओ, जिसे जाना हो !”
 जाना था परन्तु किसे ! दुर्योधन बोला यों—
 “हित्त पशुओं से सम युद्ध नर क्यों करें ,
 शुद्ध सार-शस्त्र जब कर में हो उनके !”
 मौन अभिमन्यु हुआ अन्त में यों कहके—

“कायर बनाके तुम्हें मरके भी जीता मैं ।”

टोकर दे पाप-पथ-पंक-भरे पैर की
शव पर, वीरता दिखाई जयद्रथ ने ,
आप देवव्रत ने सराहा जिसे जीते में ,—
मान कर अपने समान ही समर में ,
सबसे बड़े से लड़ा छोटा जब सबसे ,
मारना भी मरना भी सीखता-सा उनसे ।

प.एडव क्या शोक सह पाते यह सहसा ,
आता कोप कौरवों के ऊपर न जो उन्हें ।
पार्थ ने प्रतिज्ञा की—“न मारूँ जयद्रथ की
मैं सूर्यास्त पूर्व कल, तो जल मरूँ स्वयं ।”
सूख गई मानो दया जलने हृदय की ,
बढ़ते गये वे प्रलयारिण के समान ही ।
किन्तु नहीं रुकता है समय कभी कहीं ,
ढल चले अस्ताचल और दिवाकर भी ।
अर्जुन के अर्थ हुई चिन्ता युधिष्ठिर को ।
सात्यकि से कहने लगे वे—“बड़ी वेर से
अर्जुन का कोई समाचार नहीं आया है ।
बढ़ गये निश्चय ही लक्ष्य तक दूर वे ,
किन्तु जान पड़ता है, शत्रुओं के घेरे में

शंखनाद का भी अवकाश नहीं उनको !
सूर, तुम जाकर सहायक हो उनके ।”
उत्तर में सात्यकि यों बोला—“भार्य, आपकी
आज्ञा शिरोधार्य मुझे, किन्तु छोड़ आपको
जान्न प्रतिकूल क्या न होगा स्वयं उनके ?
घरकर आपको सुयोधन को देने का
वचन दिया है उसे उग्र द्रोणाचार्य ने ,
कृष्णार्जुन छोड़ गये मुझको इसीलिए ।”
हँस पड़े धार्ति में भी धर्मराज सहसा—
“सीता के समीप जैसे लक्ष्मण को छोड़ के
माया-मृग मारने गये थे राम वन में !—”
सात्यकि भी रोक नहीं पाया हँसी अपनी—
“रावण भी द्विज ही था द्रोण ऐसा पहले !”
“किन्तु मुझे चिन्ता है उन्हींकी, अपनी नहीं ।
हो भले ही मेरी धृति, निष्कृति हो मेरों की ।
जाओ तुम वीर, तुम्हें देता हूँ वचन मैं ,
घर न सकेंगे गुरुदेव मुझे कैसे भी ।
भाग बचना भी एक यत्न आत्मरक्षा का ।
भाग नहीं यों मैं कभी गुरुओं से डरके ।”
सात्यकि को जाना पड़ा, एक घड़ी पीछे ही
भीम को भी भेजे विना वे रह सके नहीं ।
पार्थ और सात्यकि तो कतराके गुरु से
व्यूह में घुसे थे किन्तु भीम न थे आपे में
जल उठे देखते ही उनको समझ वे—

“द्विज-उज जो हो तुम, गुरु हो अवश्य ही ;
 किन्तु वध-योग्य वह जो भी आततायी हो ।”
 फेंक दे उखाड़ ऊँचा फाड़ झंझा वात ज्यों ,
 रथ के समेत उन्हें एक ओर फेंक के
 सामने से ही वे घुसे शत्रु-दल दलते ।
 आधी धार्तराष्ट्र-चमू उस दिन युद्ध में
 मर कर भी न बचा पाई जयद्रथ को ।
 पूरी हुई पार्थ की प्रतिज्ञा दिन रहते ,
 कठिन तपस्या फली पाशुपत पाने की ;
 कृष्ण की कृपा से कृतकृत्य हुए वे कृती ।

किन्तु सान्त्वना की खोज तब भी बनी रही ।
 द्रौपदी-सुभद्रा और उत्तरा की यातना
 तीन ओर, चौथी ओर अपना विषाद था ;
 शान्ति किसी ओर भी दिखाई न दी उनको ।
 देखते थे मानो एक स्वप्न के शिविर में ,
 दे रहे हैं मानो हरि धैर्य उन सबको—
 “कौन कहता है अभिमन्यु मरा ? वस्तुतः
 वह तो अमर हुआ—कीर्ति करके यहाँ ।
 गर्व-योग्य ऐसी गति मिलती है किसको ?
 पाया पूर्व देह से भी दिव्य रूप उसने
 और महत्पद की कहीं क्या बात तुमसे ,
 खेलता है आज वह इन्दिरा की गोद में ।”

“भैया, एक वार कैसे देखूँ उसे ऐसे मैं ?
प्रस्तुत अभी हूँ यह देह छोड़ कर भी ।”
यों कह सुभद्रा पड़ी पैरों पर उनके ।
“निम्न गति होती है बहन, आत्मघात से ,
ऐसे वह उच्चगति-शील कैसे दीखेगा ?
उत्तरा की कोख में है भव्य रूप उसका
अधुना उसीका हमें मंगल मनाना है ।”

शोकानल का है कुछ यत्न अश्रु-जल ही ,
किन्तु अवकाश न था पाण्डवों को यह भी ,
गरज रहे थे अरि सिर पर उनके ।
रक्खा विकराल दैत्य-रूप गुरुदेव ने ,
दीख पड़ा काल-सा समक्ष इस पक्ष को ।
द्रुपद-विराट ऐसे उद्भट भी उनमें
कट कर खेत रहे, पूले यथा घास के ,
छू ले आप यम भी तो चाप रहते उन्हें !
तो भी धीर धृष्टद्युम्न उनसे नहीं दबा ,
उनके वधार्थ ही लिया था जन्म उसने ।
वे ही नहीं, भिड़ गये स्यंदन भी दोनों के ।
द्रोण भी अजेय ही थे शत्रु रहते हुए ,
वर-सा उन्हें भी यह प्राप्त था विधाता का ।
देख निज युद्ध वे दहल उठे आप भी !
तनु नहीं किन्तु मन मानो उन मान्य का

आकुल-सा हो उठा कृतित्व में भी अपने !
 ब्राह्मण की करुणा हिलोड़ उठी उनको—
 “धारण न करता कठोर ज्ञात्र धर्म मैं
 तो हा ! यह घोर कर्म करना क्यों पड़ता ?
 साधारण शस्त्रधारियों की इन अस्त्रों से
 हत्या जो नहीं तो और क्या है यह इतनी ,
 करनी पड़ी जो मुझे ? कारण क्या इसका ?
 कन्द-मूल-फल भी क्या मुझको न मिलते ?
 शिव शिव ! शिव ही दिये हैं मुझे हिंसा ने !
 मेरे लिए दोनों पक्ष एक ही समान थे ,
 न्याय से तो पाण्डव ही प्रथम वरेण्य हैं ,
 मेरे स्नेह-भाजन हैं वे निज गुणों से भी ।
 छोड़ा निज धर्म मैंने, छोड़ूँ पर धर्म भी
 कैसे-हाय ! कैसे ! वह मेरे बन्धु भीष्म भी
 रुक रहे मानो मुझे आगे कर लेने को !
 कौन उनका-सा यहाँ मेरा अन्यायी साथी है ?
 मारने से मरना ही अच्छा क्या नहीं मुझे !”

इसके विना क्या पाण्डवों का भी कुशल था ?
 अस्त्र छोड़ने को उन्हें कर सके वाध्य जो ,
 ऐसी एक भूठी बात कौन कहे उनसे ?—
 यह विष कौन पिये शोणित-समुद्र का ?
 “संरक्षक सबका मैं,” सोचा युधिष्ठिर ने—

“दुर्गति हो मेरी भले, सबकी सुगति हो ।”

मार अश्वत्थामा गज वैरी इन्द्रवर्मा का
गर्ज उठे भीम—“अश्वत्थामा हत हो गया !”
वज्राहत वृक्ष की-सी द्रोण की दशा हुई ।
बोले किसी भौंति वे—“युधिष्ठिर कहें तो है ।”
सिहर युधिष्ठिर ने साख भरी इसकी—
“हाँ आचार्य देव, अश्वत्थामा हत हो गया ,
वह नर-कुंजर गया है मृत्यु-मुख में !”
किन्तु छल पूर्ण यह सत्य भी अनृत था ।
दोनों नर-कुंजर स्वजन शंख-रव में
डूब गये । साथ ही युधिष्ठिर का रथ भी ,
ऊँचा-सा धरा से उठ चलता था जो सदा ,
धँस गया नीचे चार अंगुल प्रमाण में !
शस्त्र फेंक गुरु तो समाधिस्थित-से हुए ।

टूट पड़ा श्वापद-सा घृष्टधुम्न सहसा
लेने को कठोर प्रतिशोध पिता-पुत्र का ।
पक केश उनके पकड़ बायें हाथ से
दायें से उसीने सिर काट डाला उनका ।
हाथ उठा कहते ही रह गये पार्थ यों—
“मारो मत, मारो मत, उनको पकड़ लो !”

हाहाकार कर उठे शत्रु-मित्र दोनों ही ।
सात्यकि तो क्रोध कर दौड़ा उसे मारने ,
बीच में आ अपनों ने शान्त किया दोनों को ।

निन्दा की युधिष्ठिर की आप धनंजय ने—
“हाय आर्य, यह क्या किया है आज आपने ?
आपके निकट भी क्या राज्य बड़ा सत्य से ?”
मौन थे युधिष्ठिर, मृकुटि चढ़ी भीम की—
“सावधान अर्जुन ! क्या कहते हो—किससे ?
सत्य-रक्षा से भी आत्म-रक्षा बड़ी होती है ,
एक छोड़ सौ सौ सत्य-धर्म पत्तें जिससे ।
अग्रज के ‘आत्म’ में हमी-तुम है, वे नहीं ;
कहते इन्हें हो राज्यकामी तुम ? धिक है ।
आप गुरु भी तो निज धर्म छोड़ बैठे थे ,
उद्धत अधर्मियों के अर्थ-दास बन के ।
स्वत्व उस अर्थ में हमारा भी नहीं था क्या ?
पाप के पराजय में पाप भी है पुण्य ही ।”
“नहीं नहीं, पाप कभी पुण्य नहीं होता है ।”
बोले धर्मराज—“भीम, भाई, तुम शान्त हो ।
सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो ,
उसकी विशुद्धता भी शंकनीय होती है ।
ज्ञात, मेरा पक्षपात योग्य नहीं इतना ;
पाप जो हुआ है, उसे मानना ही चाहिए ,

अन्यथा असंभव है प्रायश्चित्त उसका ।
 ऐसी स्थितियाँ भी हैं असत्य जहाँ क्षम्य है ,
 किन्तु मेरा खलन खलेगा नहीं किसको ?
 मर्त्य की तो बात क्या, अमर्त्य भी अपूर्ण हैं ,
 उचित परन्तु नहीं ऐसा समाधान भी ,
 प्रश्रय जो देता चले पाप की प्रवृत्ति को ।
 नर को तो नारायण तक है पहुँचाना ।
 मैंने जो किया है, वह जान कर ही किया—
 राज्य-हेतु अथवा नरक-हेतु, क्या कहूँ ?
 दुःखित हूँ, किन्तु मैं निराश नहीं फिर भी ।
 मेरी साधना के लिए काल जो अनन्त है !
 मति-गति अर्जुन, तुम्हारी रहे ऐसी ही
 भोगो मिल राज्य तुम, भोगूँ जा नरक मैं ।”
 “अनुग तुम्हारा वहाँ आगे !” कहा भीम ने
 रोने लगे अर्जुन—“हा ! आर्य, निज दुःख से
 मैंने तुम्हें मिथ्या बोल मारे, मुझे दंड दो ;
 किन्तु यों न त्यागो हमें ।” पैरों पर वे गिरे ।
 अंक में ले उनको युधिष्ठिर भी रो पड़े ।
 बोले हँस कृष्ण—“हुआ, देखो अब सामने !”

भीष्म और द्रोण के अनन्तर था कर्ण ही ।
 मान कर प्रार्थना सुयोधन की, उसका
 शत्रु सारथी तो बना, किन्तु कहा उसने—

‘यह अभिमानी भला पार्थ से लड़ेगा क्या ?—
हार खा चुका है वर वार जो प्रथम ही ।
जाति को छिपाके सूत-पुत्र विप्र बनके
घोखा दे चुका है यह गुरु भृगुराम को ।
भेद खुलते ही अभिशप्त हुआ उनसे—
‘भूले तुझे विद्या ठीक भवसर पर ही !’—”
बोला क्रुद्ध कर्ण—“स्वयं सूत बना, तो भी तू
लज्जित क्यों होता नहीं छोड़ी बात कहते ?
मैंने तो कहा था यही उनसे—‘मैं दिवज हूँ’
यह छल है तो पूछ जाके बड़े पार्थ से—
छल है वा सत्य—‘अश्वत्थामा हत हो गया ।’—”
“ओहो ! अब जाना, ज्येष्ठ पार्थ पर तेरी ही
छाया यहाँ आ पड़ी थी ।” “और क्या कहेगा तू ?
जैसे तुझे इष्ट हो, परीक्षा कर देख ले ,
रूप की वा वर्ण की, शरीर की वा रक्त की ,
आकृति-प्रकृति की वा अस्थि-चर्म-मज्जा की ,
मन की वा आत्मा की, बता मैं निम्न किससे ?
उच्च कहों कौन किस बात में है मुझसे ?
यों तो जन जाति का है मूल गोत्र एक ही ,
कुल का विकास भिन्न भिन्न रहे सबका ।
कर ले भले तू मनस्तुष्टि कुछ कहके ,
जानता हूँ तुझको मैं और तेरे देश को !”
“मैं भी जानता हूँ तुझ गोघातक म्लेच्छ को !
मेरा देश कैसा है, मुझीमें सब देख लें ।

धोखे में कही भी बात मैं निभाता जाता हूँ ।
 और—” “साक्षी हूँ मैं ।” कुरुराज बोला बीच में—
 “किन्तु तात, आपस में लड़ना क्या ठीक है ?
 गरज रहे हैं जब शत्रु खड़े सामने ।
 आप दोनों ही तो अब मेरे अवलम्ब हैं ।”
 “मैं कभी रुकूँगा नहीं कहने से अपनी ,
 किन्तु त्रुटि होने नहीं दूँगा निज कर्म में ।”
 “इतना यथेष्ट मुझे, आप गुरुजन हैं ,
 कटु भी बनेगा मिष्ट मेरे लिए आपका ।”
 यह कह करण और देखा कुरुपति ने ।
 करण बोला—“तुमने कहा सो स्वयं मैंने भी ।
 जूझना है मुझको तो, जो भी परिणाम हो ।”
 “जीतने की आशा विना जूझ क्या सकेगा तू ?”
 यह कह शल्य हँसा । बोला हँस करण भी—
 “मैं निष्कामकर्मा भला, हो, जो फलकामी हो !”

भय कहते हैं किसे, करण न था जानता
 छक्के-से छुड़ा दिये परन्तु घटोत्कच ने ।
 मानो भीम-भैरव ही उसके बहाने से
 कौरवों की सेना ध्वंस करने को आगये ।
 जाता था बवंडर-सा वह जिस और को
 उड़ते विपत्ती तृण तुल्य श्रे तुरन्त ही ।
 वाहन ही कौन था, जो तेज सहे उसका ?

पैदल ही प्रलय मचाया उस योद्धा ने ।
 भागे सब अश्व-गज खामने से उसके ,
 शत्रु ने कठिनता से रोका रथ अपना ।
 अर्जुन के केतु पर बैठे कपि-केसरी
 देखकर उसकी लड़ाई लहरा उठे !
 मेघनाद ही क्या यह मित्र बन आ गया ,
 लेके नया जन्म, अब किसका कुशल है ?
 क्रूद क्रूद कर्ण के शरों को सरकन्दों-सा
 धर धर, तोड़ तोड़, हँस हँस, उसने
 फेंक फेंक उनको उसीकी ओर यों कहा—
 “लेके यही अस्त्र आया लड़ने तू मुझसे ?
 मारें तुझे काका, मैं अकर्ण कर छोड़ूँगा !”
 कर्ण भान भूल गया क्षोभ-अपमान से ,
 मान रख पाया वह इन्द्र की ही शक्ति से ,
 अर्जुन के मारने को रक्खे वह था जिसे ।
 काका को बचाके मरा राक्षस भतीजा यों
 और पितृ-ऋण से उन्मत्त वह हो गया ।

“पीछे अभिमन्यु के गया हा ! घटोत्कच भी ,
 संकट-सहाय मेरा, प्यारा सहदेव-सा !”
 चुन्व हुए धर्मराज—“देख लिया सबका
 शौर्य मैंने, देखूँ अब कर्ण को मैं आप ही !”
 चल पड़े विस्फोटित वे आग्नेय गिरि-से

सत्तमों का क्षोभ भी भयंकर ही होता है ।
 आर्ये अकस्मात् वहाँ व्यासदेव ऐसे में ,
 देके शुभाशीष बोले वे उन प्रणत से—
 “तात, निज मर्यादा समुद्र नहीं छोड़ता ,
 तुम भी न हो यों लुब्ध, स्वाभाविक रूप से
 चूमो भले, जैसे वह उत्थित तरंगों से
 खेलता है, सटता है हटता है तट से ।
 कार्य अभिमन्यु से भी मान्य घटोत्कच का ;
 तुम चिर धर्ममय, विजय समीप है ।”
 यह कह द्वैपायन अन्तर्द्धान हो गये ।
 हो गये समाहित युधिष्ठिर प्रथम ही ।

“कर्ण, एक शक्ति थी, उसे भी तुम खो चुके ।
 यह तो था बेटा, अभी बाप-काका हैं सभी !”
 “रहने दो मद्राज, मैं भी अभी शेष हूँ ;
 अपने ही बल का भरोसा सदा सच्चा है ।”
 पौरुष से हत अति दीप्त वह हो उठा ।

आँधी-सा घटोत्कच तो आकर चला गया ,
 कर्ण था अटूट सार-धारा का प्रपात-सा ,
 सामने जो आया, वही डूबा-बहा उसमें !
 आशा भी किसीके बचने की रही किसकी ?

सीमा छोड़ मानो महासिन्धु वहाँ उमड़ा ।
 बात क्या युधिष्ठिर-नकुल-सहदेव की ?
 उनको डुबाकर न उसकी तरंगों ने ,
 फेंक दिया एक और दूर दारुखंड-सा ।
 आप भीम भी क्या इस वार पार पा सके ?
 ढालें मृत हाथियों के देहों की बनाके भी
 रक्षा नहीं पा सके वे । किन्तु उन्हें उसने
 मारा नहीं, कुन्ती को वचन जैसा था दिया ।
 छोड़ दिया जाता उपहास मात्र करके—
 “खाना जानता है और सोना तू, लड़ेगा क्या ?
 हट जा, न आना अब और मेरे सामने !”
 “कर ले प्रलाप मृत्यु-पूर्व कुछ कर्ण, तू ,
 प्राप्त पुनर्नवता करूँ मैं इस बीच में ।
 तेरे नीच स्वापी के सहोदर-समूह को
 और तेरे अन्य बहु बन्धु-बान्धवों को भी ,
 मार मार अश्व-गज वाहनों के साथ ही
 मानता हूँ, सम्प्रति हुआ मैं कुछ श्रान्त-सा ।
 वायु भी शिथिल पड़ जाते हैं कभी कभी ,
 सूर्य भी विराम नहीं लेते क्या दिनान्त में ?
 फिर भी न मूज, मैं वही हूँ, जिसने तुम्हें
 छोड़ा था धनंजयार्थ अधमरा करके ।”
 “हाथ नहीं चलते तो मुहँ ही चला ले तू !
 देखा तुम्हें, देखता हूँ, तेरे धनंजय को ।”

करके स्मरण हनुमान-सा स्वबल का
 स्वस्थ क्षण में हो भीम आये फिर रण में ;
 दीख पड़ा सम्मुख ही दुःशासन उसको ।
 भभक उठे वे—“अरे पापी, तुझको तो मैं
 व्योम में रसातल में खोज कर मारता ,
 भाग्य से तू भू पर ही मिल गया मुझको !”
 सिंह-से उखल कब टूट पड़े कुद्ध वे ,
 दुःशासन ने भी तब जाना, जब वे उसे
 स्थंदन से खींच फिर पृथ्वी पर आगये ।
 कसके चलाये हाथ डूबते हुए ने भी ,
 किन्तु वे थे भान भूले, मानते क्या उनको ?
 छिप-से गये वे निज नग्न रोष-ज्वाला में ।
 पटक-पछाड़ उसे छाती पर चढ़के
 गरज उठे यों—“कहाँ दुर्योधन-कर्ण हैं ?
 शक्ति हो तो रोकें, रक्त दुष्ट दुःशासन का
 भीम पीने जा रहा है सबके समक्ष ही !
 चुपड़ उसीसे वह केश याज्ञसेनी के
 उससे कहेगा—‘शुभे, वेणी अब बाँध तू ।’—”
 शस्त्र छोड़ निज के नखों से ही नृसिंह ने
 चार डाला वैरि-वक्र और—अहो ! और क्या ?
 देख वह घोर दृश्य भाग चले भट भी ।

अर्जुन ही एक मुख्य लक्ष्य रहे कर्ण के .

टिक सके उसके समक्ष वही मेरु-से ।
 दोनों रथियों का वह युद्ध एक दृश्य था ,
 उनसे भी दर्शनीय सारथी थे उनके ।
 घात करते थे रथी, सारथी बचाते थे ,
 वार्हों के बहाने नरनाहों को नचाते थे !
 “सावधान !” कहके प्रहार किया कर्ण ने ,
 पैर मोड़ घोड़े मुके तत्क्षण ही कृष्ण के ,
 बचे प्रार्थ-प्राण, शिरस्त्राण बाण ले उड़ा ।
 किन्तु पार्थ ज्यों ही योग्य प्रत्युत्तर दें उसे ,
 घँसा फँसा एक रथ-चक्र त्यों ही उसका ,
 दीख पड़ा कर्ण मानो भानु निज यान में ।
 स्वकर उठाके वह अर्जुन की ओर को ,
 सारथी को असफल देख आप उतरा
 और घँसा चक्र धर खींचने चला उसे ।
 किन्तु खींच पाया नहीं वह उसे आप भी ,
 मानो भाग्य ने ही उसे नीचे रोक रक्खा था !
 बोल उठे पार्थ—“कर्ण, किस अधिकार से
 मुझसे ठहरने को कहता है कूर, तू ?
 भूल गया आज ही क्या बात वह कल की—
 “हित पशुओं से सम युद्ध नर क्यों करें—
 युद्ध सार-शत्रु जब कर में हो उनके ।”
 आती है सभीको सुध संकट में धर्म की
 किन्तु तूने पहले ही घात किया उसका ।”
 यह कह दौत पीत क्रोध से अबोध ज्यों

आकर्षित उग्र शर छोड़ दिया पार्थ ने ,
 कट कर कर्ण-शिर टूट गिरा तारे-सा ।
 तारे ही दिखाई दिये दिन में विपन्न को !
 तो भी एक तेज कढ़ कर्ण के ललाट से
 ऊर्ध्वगति तारक-सा लीन हुआ रवि में ।

कर्ण तक ही थी सब आशा कुरुराज की ,
 चूभा वह निर्मम-निराश-सा ही अन्त में ।
 शल्य को बनाया निज सेनापति उसने ।
 शल्य बोला—“तुमने जो मान किया मेरा है ,
 उस पर वार दूँगा प्राण भी मैं अपने ।
 किन्तु मैं सहूँगा नहीं भीष्म और द्रोण ज्यों ,
 व्यंग्य से तुम्हारा वार वार वह कहना ,—
 ‘प्रीति है तुम्हारी पाण्डवों पर, इसीलिए
 जीत नहीं हो पाती हमारी इस युद्ध में ।’
 जीवित युधिष्ठिर को धर न सके द्रोण भी ,
 कामना तुम्हारी यह पूर्ण कर दूँगा मैं ।
 अन्यथा स्वयं ही हुत दूँगा समराग्नि में ।
 अणु-परमाणु मेरे सारे ही तुम्हारे हैं ।”
 “कब किससे क्या कहूँ, जानता हूँ तात, मैं ।”
 मौन हुआ दुर्योधन इतना ही कहके ।

शल्य के पराक्रम से एक वार फिर भी
 लौटता-सा साहस दिखाई दिया सेना का ।
 किन्तु एक वार करवाल लिये काल-सा
 दौड़ा जब शल्य दूटे स्यन्दन से कूद के—
 धरने वा मारने युधिष्ठिर को वेग से ,
 तब घबराये विना धीर धर्मराज ने ,
 लेने को स्वभाग मानो मातुल-हृदय का ,
 उसको विभक्त कर डाला तीक्ष्ण शक्ति से !

काट इसी बीच दो दो पुत्र और कर्ण के
 मारा म्लेच्छराज को भुजंग-सा नकुल ने ।
 और सहदेव ने उलूक-पात करके ,
 बंचक शकुनि के भी प्राणों को उड़ा दिया ;
 काम नहीं आई कुछ धूर्त-विद्या उसकी ।

घायल-सा घोड़े पर बैठा घूम घूम के
 दुर्योधन सेना को सँभालता था व्यर्थ ही ।
 भूला जयी पक्ष ध्यान उसका भी हर्ष से
 फूल कर । ले जा कर एक ओर उसको
 बोले कृपाचार्य—“वीर, अब भी जो चाहो तो
 पाण्डवों से सन्धि का प्रयत्न करूँ जाके मैं ?
 आशा है युधिष्ठिर से जाहे जब जो मुझे ,

धोड़ा है उन्होंने सदा औरों पर आपको ,
मानेंगे तुम्हें वे भीमसेन के समान ही ।”

हाय ! भर आई आज आँखें कुरुराज की ,
कौन जाने, शोक से वा लुब्ध अभिमान से ।
बोला अश्रु रोक बली उन्मुख हो उनके—
“आर्य मेरे हित के लिए ही यत्नशील हैं ।
भुक्तसे कहा था यही मान्य पितामह ने ,
तब भी था आदि ही-सा किन्तु अब अन्त है ।
अन्तर है इनमें, परन्तु भुक्तमें नहीं ।
हत है पितामह, निहत गुरुदेव है ;
और वह कर्ण—मेरा कर्ण—सुख-दुःख का
साथी गया पुत्र और भाइयों के साथ ही—
धेरे अर्थ । मेरा भक्त दुःशासन भी गया ,
धारा हा वृकोदर ने कैसा पशु-सा उसे !
सौ थे हम, आज यह एक ही मैं शेष हूँ ;
भाई भी भतीजे भी सभी तो गये मेरे हैं ।
लक्ष्मण—समान सब मेरे पुत्र हैं कहाँ !—
जब मैं पड़ा हूँ यहाँ जीवित नरक में ।
पाण्डवों का एक अभिमन्यु मात्र जिसके
अस्त्र से विजित हुआ, डूबा सिन्धुराज है ।
मातृलज शकुनि-से हितैषी भी नहीं रहे ।
सौ सौ मित्र राजा, त्यक्त जीवित मदर्थ जो

आये थे, सभीके सभी मृत्यु-मुख में गये ।
 किसके लिए मैं अब इच्छा करूँ सन्धि की ?
 लेकर किसे मैं अब भोगूँ राजभोग भी ?
 त्यागी आप और गुरु-पुत्र तो तपस्वी हैं ।
 अन्ध मेरे वृद्ध पिता-माता, हाय ! फिर भी
 उनके समक्ष भी मैं जाऊँ किस मुहँ से ?
 क्या है आज, सान्त्वना दूँ जिससे मैं उनको ?
 आशीर्वाद चाहता हूँ एक यही आपसे
 अन्त तक आन बान अपनी निभा सकूँ ।

मानता हूँ बात धर्मराज के विषय में
 आपकी यथार्थ । राजसूय की समाप्ति में
 सुम्भको उन्होंने रोक आप यह था कहा—
 'तात, मैंने निश्चय किया है यही मन में ,
 तुम अपनी के अनुमार ही चलूँगा मैं ।'
 किन्तु जिन्हें मैंने पाँच गाँव भी नहीं दिये ,
 सन्धि करने के लिए कैसे कहूँ उनसे ?
 मैंने जो कराया यह इतना विनाश है ,
 व्यर्थ कर दूँ क्या इसे ? आप ही बताइए ,
 क्या मुख दिखाऊँगा मरों को मर कर मैं ?
 विधि की विनोद-जीला हार-जीत जन की !
 युद्ध भी जुआ-सा एक खेल प्राण-पण का ।
 हारे हैं बली भी यहाँ, निर्बल भी जीते हैं ,
 किन्तु वीर हारे कहीं जीवन-मरण में ?
 अब भी गदा है अतिरिक्त मेरे हाथ में ,

भीम और जो हो, उसे देता हूँ चुनौती मैं ।
किन्तु कुछ बेला माँगती है श्रान्ति मुझसे ।”

“धन्य वीर, धन्य ! यह एक गेय गुण ही
मुझको तुम्हारे सब दोष भुला देता है ।
आओ, श्रान्ति मेटो तुम, शीघ्र ही मिलूँगा मैं ।
अष्टदश अक्षौहिणी अष्टदश दिन में
हो गई समाप्तप्राय, पाण्डवों के थोड़े से
सैनिक बचे हैं, इस ओर तुम राजा हो ,
मैं हूँ, कृतवर्मा के समेत अश्वत्थामा है ।
लड़ सकते हैं पाण्डवों से हम चार ही ।”
“मैं अनुग्रहीत हुआ, तोष यही मुझको ,
अन्त तक कोई त्रुटि छोड़ी नहीं हमने ।”

जाने लगा ज्यों ही कुरुराज, सुना उसने—
“वीर, कुछ क्षण दो मुझे भी कष्ट करके ,
बानता हूँ, इष्ट तुम्हें सम्प्रति विजय ही ।”
यह कृतवर्मायुत उग्र अश्वत्थामा था ,
मुहँ भभरा था, केश बिलरें थे उसके ।
असजग दीप्त दृग, पग डगमग थे ।
“पागल न हो यह,” विचारा कृपाचार्य ने ।
बोला वह उनको प्रणाम कर राजा से ,

“वीर, विजयी हो तुम, जीवित हूँ मैं अभी ।
 आब रात जैसे बने, वैरियों से बचना ,
 आके स्वयं सूचित करूँगा सुप्रभात मैं ।
 राज-शिविरोँ में शत्रु सो लें आज सुख से
 किन्तु मुहँ धोलें फिर जागने से वे सभी ।”
 “सेनानी तुम्हीं हो अब शेष हम सबके ,
 किन्तु गुरु-पुत्र ! एक पिण्डदाता छोड़ना ।
 पास ही मैं हृद में रहूँगा, और क्या कहूँ ?”
 “जीवित के अर्थ पिण्ड-पानी. नहीं जीव के ।”
 “तात, श्रद्धा-भक्ति का तो भूखा भगवान भी ।
 जीवन का वेर रहे मृत्यु के भी साथ क्या ?”
 यों कह विनम्र हो सुयोधन चला गया ।
 सोचने लगे वे शेष तीनों भावि योजना ।

बोले इस ओर कृष्ण भावोन्मत्त भीम से-
 “भूलो मत वीर, अभी दुर्योधन शेष है ।”
 चौक-से गये सब—“परन्तु वह है कहाँ ?”
 भीम बोले—“डूब मरा होगा कहीं पानी में ,
 मुहँ क्या दिखायगा किसीको और हमको ?”
 “ऐसे मरने का नहीं वह चिर साहसी ,
 निश्चय छिपा है कहीं पास के ही हृद में ,
 कुशल बली है जल-वास की कला में भी ।”

आकर चरों ने तभी सूचित किया उन्हें—
 “पास ही सरोवर में दुर्योधन पैठा है ।”
 खोजने चले वे सब शीघ्रता से उसको ।
 आज्ञा दी युधिष्ठिर ने पहले युयुत्सु को—
 “जाओ, तुम वीर, हस्तिनापुर तुरन्त ही
 लेकर सुयोधन के परिकर वर्ग को ।
 संजय को मारा नहीं, छोड़ दिया हमने ,
 ले लो उसको भी संग, जैसे बने तात को
 धीरज बँधाना और माता को सँभालना ।
 आये तुम मेरे साथ, तब वे समर्थ थे ,
 पा सकेंगे आज वे तुम्हींसे कुछ सान्त्वना ।”
 ‘जो आज्ञा’ युयुत्सु कह पाया कहाँ उनसे ,
 उसका गला था भरा, वह सिर भुका गया ।

कोस भर दूर था जलाशय शिविर से ।
 तीर पर पहुँच निनाद किया भीम ने—
 “दुर्योधन है क्या यहाँ ? जाँघ ही निकाल दे ,
 बनने चली थी जो द्रुपदजा की पीठिका ।”
 जिस नलिका से श्वास-वायु नीचे जाता था ,
 भीम-गर्जना भी घुस पैठ गई उसमें—
 “मैं तो जानता था, कुछ तत्व होगा तुम्हें ,
 किन्तु ऐसा कायुरुष निकला तू अन्त में ,
 सबको समझ कटवा कर समर में ,

धिक ! छिप बैठा आप मरने के डर से ।
 माँग प्राण-भिन्ना फिर निर्भय विचर तू ।
 रो रही है तेरी गृह-नारियाँ बिलख के ,
 रो रहे हैं अन्ध वृद्ध माता-पिता, उनको
 सान्त्वना दे, देख, खड़े कृष्ण-युधिष्ठिर ये ,
 सहज उदार क्षमा देंगे, यदि च.हे तू ।
 अन्यथा सौ कोठों में तुम्हे क्या भीम छोड़ेगा ?”
 सह सकता है वीर किसकी प्रचारणा ?
 ऊँचा गदा गेंद किये उद्धृत भू-गोल-सा
 निकला कुरूद्रह बराह-सा सलिल से !
 किंवा मद-कुंभ धरे दैवत-द्विरद-सा
 दैव-वश हो के स्वयं शकुन विपक्ष का !

“देखो यह आ गया मैं, आओ, जिसे धाना हो ।
 दूँगा प्रतिवाक्य तुम्हें कर्म से कुशब्दों का !
 होती है विराम की अपेक्षा चेतनों की ही ।
 जीने के समान मरना भी जानता हूँ मैं ,
 जीते रहें तुमसे अलज्ज अपमान में ।
 चाहता था राज्य जिन्हें लेके, वे चले गये ।
 लेकर उन्हींकी वैरि शुद्धि आज तुमसे
 मैं भी चला जाऊँगा पुनीत तपोवन को ।
 भुक्तोष्मिता वसुधा रहेगी, उसे कोई ले ।
 ठाठ से मैं आया और ठाठ से ही जाऊँगा ।

पौरुष तो मेरा जन्म-जात अधिकार है ;
 कुशल तुम्हीं हो क्लीब-जीवन बितामे में !”
 “साधु सत्यवादी, साधु ! पौरुष के पुतले !
 संयम-नियम को भी क्लैब्य कहता है तू ।
 पौरुष न होता यदि ऐसा बड़ा तेरा तो
 कर्ण कैसे सेवक से स्वामी बन बैठता ?
 अब भी उसीका अनुगामी क्यों न होगा तू ,
 चूफा हमसे था जिस मत्सरी के बल से ।
 कुछ कह, मरता सो क्या न करता यहाँ !”

घोर गदा-युद्ध हुआ भीम-दुर्योधन का ।
 छाया भर छोड़ मानो रुग्णों पर मुग्णों की
 दोनों गदा दण्डों पर लेकर उन्हें लड़े !
 धा-सा गया भूमण्डल पैतरों में घिरके ।
 घोर रव ही न उठा बजती गदाओं का
 दर्शकों की दृष्टि छूती छूटी चिनगारियाँ !
 भीम ने जो आती हुई देखी कुछ क्लान्ति-सी ,
 करके स्मरण पुनः धृत-सभा-काण्ड का ,
 कूद सिंहनाद कर द्विगुणित वेग से ,
 वज्र-सा प्रहार किया ऊरु पर उसके ,
 गिर पड़ा योद्धा-“धिक पापी !” कहता हुआ ।
 “पापी मैं नहीं, तू” यह कह कर भीम ने
 मारी एक लात और सिर पर उसके ।

“है ही भीम !” बोल उठे कृष्ण-युधिष्ठिर भी ,
अर्जुनादि का भी सिर नीचा हुआ लज्जा से ।

लौट बलराम इसी बीच वहाँ पहुँचे ,
आँखें यह देख दूनी लाल हुईं उनकी ।
लांगल उठाके चले मारने वे भीम को—
“मैंने गदा-युद्ध यही तुम्हको सिखाया था ?
होता उत्तरांग ही नहीं क्या लक्ष्य उसका ?
नियम-विरुद्ध तूने मेरे भ्रम्य शिष्य को
मारा, रह, मैं तुम्हें भी जीता नहीं छोड़ूँगा ।”
आकर तुरन्त मधुसूदन ने बीच में
रोक लिया अग्रज को और कहा उनसे—
“भीम की प्रतिज्ञा थी, इन्होंने वही पूरी की ;
था संयोग ही जो गदा हाथ में थी इनके ।”
“नहीं-नहीं !” भीम बोले—“मैंने कहा स्पष्ट था—
तोड़ूँगा गदा से जाँघ मैं इस जघन्य की ।
शुद्ध योद्धाओं के साथ युद्ध के नियम हैं ,
कापुरुष क्रूर यह, सच्चे बली छल का
लेते नहीं आश्रय, कुलस्त्री की कदर्थना
करते नहीं वे, इस दुष्कृत ने जैसी की
दुःशासन युक्त, रक्त मैंने पिया जिसका ।
केवल विकर्ण-वच चाहता नहीं था मैं ,
विवश उसीने किया उसके लिए मुझे ।

मैं कर चुका हूँ पूर्ण अपनी प्रतिज्ञाएँ ,
 और जय हो चुकी है मेरे धर्मराज की ,
 मेरे बलदेव अब मारें भले मुझको ।
 अब प्रतिकार कहाँ, शेष यहाँ प्यार ही ।”
 “कौन मारे उसको, बचावें कृष्ण जिसको !”

बोले बलभद्र फिर हरि से—“हरे-हरे !
 धर्म का भी पक्षपात क्या तुम्हें उचित है !”
 हरि हँस बोले—‘ तात, ठीक यही बात है ,
 धर्म की ही और मेरी मति गति है सदा !”
 “चुप रहो दुष्ट !” हँस बैठे बलराम भी !
 “जो कुछ हुआ है, सब दारुण-करुण है ।
 मानता हूँ, दुर्योधन भूल करता गया,
 क्रूरता दिखाई सदा शूरता ने इसकी ,
 तृप्त नहीं होते दृष्ट अपने ही सुख से ,
 दूसरे के दुःख से ही उसकी विशेषता ।
 किन्तु दूसरा था कौन, भाई सब थे यहाँ ,
 कौन पर-पाप अपनों के बीच आ गया !—
 सबको लड़ाके आज सबसे परे हुआ ।
 दोष रहें, गुण ही है ध्येय-गेय गत के ,
 किन्तु मेरी पीड़ा नहीं दुर्योधन तक ही ;
 हाथ ! सारा उपवन छिन्न-भिन्न हो गया !
 माघव, सुभे कुछ समझ नहीं पड़ता ,

मन में तुम्हारे कब क्या है, कहुँ कैसे मैं ?
 मैं तो हली-हाली, तुम ज्ञानी और योगी हो ।
 कैसी यह साधना की तुमने समाधि में ?
 हाथ चक्री, क्या हुई तुम्हारी वह मुरली ?
 क्या हुआ तुम्हारा व्रज । कालिन्दी कहाँ रही ?
 कैसे दिन थे वे कनू, कैसा यह काल है ?
 गाएँ ही भली न थी क्या स्यदन के घोड़ों से ?
 घट न तुम्हारा रस-गोरस से जो भरा ,
 द्वारका का सिन्धु भी उसे क्या भर पा रहा ?
 कुरुओं की ऐसी गति वृष्णियों की भी न हो ,
 डूब गया कृष्ण, महा भारत रुधिर में !

युद्ध के भी लाभ होंगे, सर्वनाश यह तो ,
 सिहर उठा मैं यहाँ सुनकर ही जिसे ।
 कैसे वह देखा गया तुमसे, सहा गया ?
 वीर-रस-भाव रखता हो युद्ध आदि में ,
 रौद्र-भाव मध्य में, भयानक है अन्त में ;
 और परिशिष्ट में तो है वीभत्स ही सदा !
 शत्रुओं का पीछे, घात पहले ही अपना
 करते हैं लोग भय-रोष किंवा लोभ से ,
 चोट कर अपने चरित्र पर आप ही ;
 अनुचित उचित प्रतीकार नहीं देखता ।
 तुच्छ मशकों से सूदम कीट-कृमि-दंश भी
 मेद डालते हैं जिन्हें, ऐसे नर देहों को
 शक्ति, शूल, परशु, कृपाण, कुन्त, बाणों से

द्विच भिन्न करके जनाता नर गर्व है !
 कब से यही कम अखण्ड चला धारहा
 और नर जीवित है अब भी, मरा नहीं !
 निश्चय मनुज ही दनुज रक्तबीज है ।
 मानुष की सत्ता हा ! अमानुषिकता में है !

कृष्ण, विष व्यापा यहाँ मेरे मोद-मधु में
 अपनी-सी आकृति-प्रकृतियाँ थीं जिनकी ,
 अपने से देह-मनः-प्राण रखते थे जो ,
 अपनी-सी जिनमें थी आशा-अभिलाषाएँ ,
 अपना-सा जीवन अभीष्ट जिन्हें था यहाँ ,
 आप ही कराल शस्त्र मारकर उनको
 अपनी ही मूर्तियाँ-सी भंग की मनुष्यों ने ,
 हाय ! अपने से हार मात्र मनवाने को ,
 आप जिसे मानने में लज्जा उन्हें आती थी !

किंवा अपने-से ही मनुष्य क्यों, कहेँ स्वयं
 अपने ही भाई-बन्धुओं को, बड़े-बूढ़ों को ,
 मामा-भानजों को, गुरु-शिष्यों को, सखाओं को,
 साले-बहनोइयों को, काकाओं-भतीजों को ,
 अपने ही हाथों मार डाला यहाँ लोगों ने !
 और अपनी ही बड़ी छोटी कुलदेवियाँ
 काकियाँ-बुआएँ, स्नेहमूर्ति मामी-मौसियाँ ,
 भानजी-भतीजियाँ, बहिन-बहू-बेटियाँ ,
 सलहज-सालियाँ, सहज सखी भाभियाँ
 विषवा बना दीं आत्मघातकों ने सहसा !

बैठ जिन कन्धों पर शैशव में खेले थे ,
 काट डाला यौवन में आप उन्हें क्रूरों ने !
 कन्धों पर जिनको चढ़ाये फिरे प्यार से ,
 करके हताहत गिराया उन्हें धूलि में !
 धिक यह घोर कर्म, शर्म कहाँ इसमें ?
 एक साथ बढ़े-पढ़े, खेले-हँसे-विलसे ,
 शोणित के प्यासे हुए आपस में ऐसे वे ,
 होते नहीं जैसे हिंस्र पशु भी अरण्य के ।
 धिक ! नर नागरों के अर्थ की अनर्थता ।
 दीख पड़ते हैं मुझे दोनों पक्ष हत्यारे !
 शून्य भी भला न था क्या शेष हाहाकार से ?”

बोल उठे बीच में युधिष्ठिर—“यथार्थ है ,
 किन्तु भद्र, मेरा पक्ष सर्वथा विवश था ।
 दोष नहीं मेरा, यदि है तो चात्र धर्म का !
 हम अपराधी निज धर्म पालने के हैं ।
 वह है विगुण तो हमारा अपराध क्या ?
 तात, पर-धर्म तो भयावह कहा गया ।
 अन्यथा मैं भूप नहीं भित्तुक भुवन का ।
 मानो वा न मानो तुम, मेरा मन आदि से
 सबको बचाने के लिए ही यत्नशील था ।”
 “जानता हूँ आर्य तुम्हें, हरि से विनोद में
 एक वार मैंने ही कहा था—‘युधिष्ठिर तो

साधु है स्वभाव से ही, क्यों उस निरीह को
 राज्य के प्रपंच में फँसा रहे हो तुम यों ?
 एक कमंडलु ही यथेष्ट उसके लिए !'
 हँसके इन्होंने कहा—'भैया, एक मात्रा ही
 इधर लगा रहा हूँ लेके मैं उधर से ,
 और कमंडलु को कुमंडल बनाता हूँ !'
 किन्तु मैं प्रकट करूँ दुःख कैसे अपना ?'
 'राम, अब भी मैं यही कहता हूँ मन से
 कामना नहीं है मुझे राज्य की, वा स्वर्ग की ,
 किंवा अपवर्ग की भी, चाहता हूँ मैं यही
 ज्वाला ही जुड़ा सकूँ मैं अपनों के दुःख की
 भोगूँ अपनों का सुख, मेरा पर कौन है ?
 सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हों ,
 सब शुभ पावें, न हो दुःखी कहीं कोई भी ।'

यों कह युधिष्ठिर अधीर भावावेश से ,
 बैठ गये धूलि में, सुयोधन के पार्श्व में ?
 अंक में समेट उसे बोले आर्द्र वाणी से—
 'भाई, यदि अब भी तू भूल नहीं मानता ,
 तो मैं मानता हूँ, उसे तू क्षमा ही कर दे ।
 युद्ध परिसीमा है परत्व के विकास की ,
 तू ही नहीं हाथ ! आज मैं भी हूँ लुटा-कुटा ।
 और कह तुझसे कहूँ क्या हतभाग्य मैं ?

तेरा ऊरुचरण बनेँगा मैं, न जा तू यों
छोड़ निज धाम-धरा अरुण अनुरु-सा !”
अद्रि-से अटल में भी फूटा आज उत्स-सा—
“आर्य, अब जीवन तो मेरे लिए मृत्यु है ।
नीचे का विरोध रहे, ऊपर मिलूँगा ही ;
मिलना वहीं है, यहाँ केवल बिछुड़ना ।—”
मौन हुआ वीर, धीर धर्मराज रो उठे,—
“सम्मुख समर में निहत स्वर्ग-भागी तू
जीवित नरक-भोग मेरे लिए है यहीं ।”

बोले भगवान यों गभीर खड़े आता से—
“पाँच गुना पातिव्रत पाला यहाँ जिसने,
मेरी उस एक शीलशालिनी बहिन की
धर्षणा का कर्षणा का यह परिणाम है ।
कल भी मरेंगे, जो न लेंगे सीख आज से,
आवर्तन आगे न हो इस इतिहास का ।
किन्तु तात, कातर क्यों तुम इस घात से ?
जब तक जगती है, अंकुरित होगी ही ;
नित्य नये फूल-फल फूलेंगे-फलेंगे ही ।
आज भारलाघव हुआ है कुछ उसका,
माता भूमि होगी नहीं हीन पृथ्वीपुत्रों से ।
और यह भारत तो भव का भी भव है,
इसका विभव एक मुझमें ही अल्प क्या ?

युद्ध की अशोभनता जन यदि जान लें ,
तो न होगा व्यर्थ यह इतना अनर्थ भी ।
तात, इसे जाने और माने बिना गति क्या ?
कौन हो निराश इस मेरी पुण्यभूमि से ?
आगे आँगे सो आप आगे की सँभालेंगे ,
छोड़ें आज इंगित जो, वे भी कृतकृत्य हैं ।
भावी तो समृद्ध है सदा ही वर्तमान से ,
आज के प्रलय में भी जय किस अन्य की ?
कल की विजय भी मैं आज ही मनाता हूँ !”

“पूरी हो तुम्हारी अभिलाषा, और क्या कहूँ ?
किन्तु रह सकता नहीं मैं यहाँ, जाता हूँ ।”
यह कह द्वारका को प्रस्थित हुए हली ।
पीछे पाण्डवों को साथ ले के यदुनाथ भी ,
समझ सुयोधन की इच्छा, भृत्य छोड़ के ,
करके न वंचित कराहने से भी उसे ,
हो गये विसर्जित । न जाकर शिविर में
और ही कहीं वे गये, सात्यकि भी संग था ।

हत्या

सब धोर असित आवरण निशा का घोर घना तम छाया ,
छिप गई उसीमें श्रान्त-क्लान्त-सी शिथिल सृष्टि की काया ।
मारी मेघों की फूँक पवन ने दिव के दीप बुझाये ,
गोड़े तमसा ने मार्ग सदा के सूझे और सुझाये ।
वट के नीचे थे पड़े सो रहे कृपाचार्य-कृतवमाँ ,
अश्वत्थामा को नौद कहाँ, चिन्तित था वह प्रतिकमाँ ।
सहसा कौंधे की चकाचौंध में देख साहसी चोंका ,
ऊपर उल्लूक ने चंचु-शूल सोते बलिभुज पर भोंका ।
वह उछल पड़ा—“निज रक्त पिलाऊँ तुम्हको भर भर चुल्लू ,
आहा हा ! मेरा पथप्रदर्शक हुआ आज तू उल्लू !”
वह कुटिल हास्य कर उठा—“जाय आदर्शवाद वह कोरा ।”
उसने सोतों को “उठो, उठो !” कहकर भट भट भकभोरा ।
घबराकर दोनों उठे, प्रेत-सा खड़ा उन्हें वह दीखा ,
बोला—“मैंने प्रतिशोध-यत्न वट के उल्लूक से सीखा ।
आध्रों, काकों-से सुप्त शत्रुओं को समाप्त कर डालें ,
दुर्योधन का प्रिय कार्य साध निज क्रोध अबाध निकालें ।”

मत था विरुद्ध भी शुद्ध व्यर्थ-सा एक क्रुद्ध पर दो का ,
 “शान्तं पापम् ।” कह कृपाचार्य ने उसे वृणा कर रोका,—
 “यह तो पहले ही हार मान ली डर कर हमने मानो ,
 ऐसी जय से है भली पराजय, तुम यह निश्चय जानो ।
 हम सम्मुख रण में जूझ मरें तो भी कृतकृत्य रहेंगे ,
 सब शूर कहेंगे हमें, न रिपु भी कायर क्रूर कहेंगे ।
 निज साधन के बलिदान बनें हम तो यह भी क्या थोड़ा ?
 तुममें क्या कुछ भी नहीं तुम्हारा इस तामस ने छोड़ा ?
 ब्राह्मण होकर इस घोर राक्षसी हिंसा पर तुम आये ,
 क्या पाप करोगे, यदि न पुण्य से तुम स्वकार्य कर पाये ?”
 “सचमुच ही मुझमें पाप-पुण्य का अब क्या बोध बचा है ?
 लौने को, देकर, और सभी कुछ, बस प्रतिशोध बचा है ।
 साधन जैसे हों, किन्तु सिद्ध हो आज साध्य ही मेरा ,
 यह दुर्दिन की निशि, किन्तु मुझे दे रहा प्रकाश अंधेरा !
 भारें कल मुझको राम, आज मैं राक्षस ही बन जाऊँ ,
 नख से शिख तक निज शत्रु जनों के शोणित मैं सन जाऊँ ।
 ब्राह्मण-कुल ही क्या नहीं भेलता रावण की राक्षसता ,
 हँसता है हिंसन वहीं, जहाँ मानव में दानव बसता ।
 रहना तुम द्रष्टा मात्र, बूँगा आज स्वयं मैं कर्ता ,
 विधि-विष्णु-तुल्य तुम शिविर-द्वार पर, मैं भीतर हर-हर्ता !
 अथवा बैठो तुम धर्म कर्म लेकर, मैं चला अकेला ।”
 विक्षिप्त बना वह बढ़ा प्रकट कर अपनी ही भवहेला ।
 दोनों साथी भी गये उसीके पीछे अश्रु अगत्या ,
 युद्धोपरान्त आरम्भ हुई प्रतिहिंसा पूरित हत्या ।

तम के तन में कुछ घाव लगे-से दिये दीख पड़ते थे ,
दूरागत श्वान-शृगाल-शब्द ही कानों में गड़ते थे ।
दिन भी दुपहर में स्तब्ध, रात थी यह तो, गाढ़ी-गहरी,
निश्चिन्त हुए-से जँघ गये थे पार्थ-शिविर के प्रहरी ।
चिर निद्रित करके उन्हें नियत कर अपने दो दो द्वारी,
भीतर अबाध घुस गया चोर-सा वह जीवन का ज्वारी ।
पांचालों पर ही प्रथम प्रलय-सा उसने क्रोध उतारा,
सोया था घृष्टदुम्न, उसे धर गला घोट कर मारा ।
बच सका शिखंडी भी न वहाँ उससे खंडित होने से,
बड़बड़ा उठा वह—“रहे उत्तमौजा भी भ्रम रोने से !”
घूमा तब उनकी ओर झपट कर कपट करालमना वह ;
झट दपट उसे हन युधामन्यु का कृन्तक काल बना वह ।
हलचल होने से चौंक चौंक कर इधर उधर जन जागे,
हक्के बक्के से—“कौन-कौन ?” कह जिधर बना, उठ भागे ।
“मैं हूँ दुर्योधन-बन्धु ब्रह्मराक्षस !” कह चदन विराये,
कृष्णा के उठते पाँच पुत्र भी उसने काट गिराये ।
उस घातघट्ट ने अट्टहास कर किया भयंकर ताण्डव,
उस रात कृष्ण के साथ कहीं अन्यत्र गये थे पाण्डव ।
सात्यकि भी उनके साथ शिविर में अनुपस्थित रहने से,
बच गया शूरता रहित क्रूर का वृथ्वित घात सहने से ।
अम्बर तक धर्रा गया तड़प कर उस नृशंस के डर से,
जो भागे, वे हत हुऐ द्वार पर कृतवर्मा के कर से ।
करके पूरा संहार शिविर में उसने आग लगाई ।
फिर लौट सुयोधन निकट बन्धु की बुझती ज्योति जगाई ।

माँ गान्धारी-सी मूल्य-दान में त्रुटि न रही हो मेरी,
तो रानी से भी बड़ी बन्नूँ मैं चिर दिन उनकी चेरी।”
वह परम मानिनी, चरम दुःख में भी जो हुई न दीना,
यह कहते कहते मौन होगई मानो संज्ञा - हीना।
प्रभु ने प्रबोध दे कहा—“बहन, था होनहार ऐसा ही,
जो जन जैसा, सुख-दुःख-भार भी है उसका वैसा ही।
सहना पड़ता है यहाँ सभीको, सँभलो और सँभालो,
जो चिर संगी हैं क्षतच्छिन्न-से, उनको देखो भालो।”
“सब होनहार भी हरे, तुम्हारे हाथ मानती हूँ मैं,
फिर भी जो तुमको प्रेय उसीमें श्रेय मानती हूँ मैं।”
यह कह कर ग्रीवा मोड़ सती ने निज पतियों को देखा,
वह दृष्टि खींच-सी गई सभीके उर पर खरतर रेखा।
“हत छहों पुत्र, पर अहत भाग्य से आर्यपुत्र, तुम मेरे,
अब भी सनाथ मैं अमर बेल-सी, पाँच महाद्रुम घेरे।
दूँ प्रथम बधाई तुम्हें विजय की अथवा बच जाने की ?
गुरु-पुत्र प्रबल।” यह बात हुई फिर हलचल मच जाने की।
“सुघ-भूलों की सुघ बनी देवि तुम, शृणी रहा मैं जी से।”
हुंकार मार, मुट्ठियाँ बाँधकर दाँत भीम ने पीसे।
“देखूँ उसका प्राबल्य।” उन्होंने किया प्रयाण विकल-सा,
प्रज्वलित अनल-सा, ज्ज्व अनील-सा, चल-प्रपात के जल-सा।
सहदेव-नकुल-सह धर्मराज को रोक वहीं हित-मति से,
अर्जुन को लेकर गये कृष्ण भी मन की-सी रथ-गति से।
“मैं क्या उसका सुख देख सकूँगी ?” उसे यहाँ मत लाना,
वह भूला अपना मनुष्यत्व, तुम अपने को न भुलाना।

भर पाया मैंने तात, तुम्हारा गात क्रोध से काँपा ।”
हरि से यह कहकर द्रुपदसुता ने हाथों से मुहँ ढाँपा ।

हत्यारे बहुधा साधु वेश का ढंग-ढोंग रचते हैं ,
पर जिनके सिर पर पाप बोलते हैं, वे क्या बचते हैं ?
वत्कल धारे खल धरा गया गंगा-तट पर आश्रम में ,
निज तीन काल-से कुपित देख कर पड़ा आप ही भ्रम में ।
मरता क्या करता नहीं, सँभल भट हँसा ठठाकर पापी ,
पर व्यर्थ देख सब शस्त्र अन्त में हुआ उग्र अभिशापी ।
“तुम राक्षसत्व तो देख चुके, ब्रह्मत्व देखना मेरा .
मर जाय उत्तरा-गर्भजात, घर में भर जाय अँघेरा !”
“चोरों का कोसा चन्द्र कहीं मरता है अरे अभागे !”
यह कहते कहते बढ़े लुब्ध-से अच्युत उसके अःगे ।
छोड़ा अमोघ ब्रह्मास्त्र द्रोणि ने—“पाण्डव रहित जगत हो .”
अर्जुन ने भी, पर कहा उन्होंने उस महास्त्र से नत हो—
“आचार्य पुत्र का कुशल प्रथम, फिर हम सबका मंगल हो ।”
खल सज्जन हो वा न हो, विकल भी सज्जन कैसे खल हो ।
मिल शान्त हुए युग अस्त्र, भीम ने कूद शत्रु कच पकड़े ,
अकड़े-से उसके अंग उन्होंने पाये जकड़े-जकड़े ।
मुनियों ने निर्णय किया—“मारना तो है इसे बचाना ,
तब है जब आधिव्याधि-क्रोप गल गल कर पड़े पचाना ।
पर प्राप्त इसे है एक दिव्य मणि, केश काट वह ले लो ।”
ऐसा ही करके कहा पार्थ ने—“जाओ, जीवन भेजो !”

विलाप

संजय ने जब सर्वनाश की कथा सुनाई,
दुःख-दग्ध धृतराष्ट्र भूप को मूर्च्छा आई।
जब वे जागे, वही दहन फिर आगे आया,
जिसने मानस-नीर हगों का बाष्प बनाया।
“सुनकर वचन यथार्थ हाय ! ये संजय, तेरे,
जीवित ही जल रहे अवश सब अवयव मेरे।
यह सर्वज्ञ अन्त समय में मैंने भोगा,
क्या सुझ-सा हतभाग्य विश्व में कोई होगा ?
यह भी बनता नहीं, किसीपर दोष धरूँ मैं,
क्या कहकर उन पाण्डुपुत्रों पर रोष करूँ मैं ?
मेरा ही दुर्भाग्य हाय ! क्या और कहूँ मैं ?
जीवित कैसे मृत्यु विना अब और रहूँ मैं !
दुर्योधन का द्वेष पाण्डवों पर जब देखा,
दिन दिन बढ़ने लगा दुराचारों का लेखा,
देखा चारों ओर उपस्थित जब भय मैंने,
जान लिया था तभी भरत-कुल का क्षय मैंने।

भीमसेन को जब अथाह जल डुबा म पाया ,
 नागों का विष उसे अमृत बन कर जब आया ,
 मणि लेकर जब उठी मूर्ति उसकी फणियाशा ,
 करता कैसे पुत्र-विजय की तब मैं आशा !
 लक्ष लक्ष धन्वी-समक्ष भक्ष-लक्ष विद्ध कर ,
 हुआ धनंजय सिद्ध द्रौपदी का प्रसिद्ध वर ।
 जतुग्रह-निर्गत प्रकट हुए पाण्डव जब ऐसे ,
 करता तब मैं पुत्र-विजय की आशा कैसे !
 जब खाण्डव वन जला, गिरी यद्यपि जल-धारा ,
 भीमसेन ने जरासन्ध को रण में मारा ,
 राजसूय जब हुआ, विश्व का जयस्तम्भ जो ,
 जाना था, सब व्यर्थ सुयोधन करे दम्भ जो ।
 जुआ हुआ जब, चपल शकुनि ने छल की ठानी ,
 हुई द्रौपदी पाप-सभा में पानी पानी ,
 धर्मराज ने कुछ न कहा इतने पर भी जब ,
 यही बहुत है, गिरा सुतों पर वज्र न जो तब !
 पाण्डव जब अज्ञातवास कर चुके रीति से ,
 और सन्धि-सन्देश उन्होंने दिया नीति से ,
 दुर्योधन ने तदपि किसीका कहा न माना ,
 निश्चय पूर्वक नाश तभी मैंने था जाना ।
 पाण्डुसुतों ने भीष्मदेव की प्रियता पाई ,
 जब स्वमरण-विधि उन्हें उन्होंने स्वयं बताई ,
 भंग हुई आचार्य द्रोण की जब रण-रचना ,
 तब सौ में से कहों एक का भी था बचना !

झला गया जब कर्ण इन्द्र से एकक्षण में ,
 हर ली उसकी शक्ति घटोत्कच ने जब रण में ,
 तब मैं कैसे भला जीत की आशा रखता ?
 अन्धा भी मैं सभी धोर था हार निरखता ।
 भीष्म-विदुर-द्रोणादि सभीने समझाया था ,
 पर न एक भी मन्त्र सुतों के मनभाया था ।
 हम ठहरे जड़-जीर्ण, हमारी क्या गिनती है ,
 अब तो पीछा छोड़ मोह, मेरी विनती है ।
 वरस सुयोधन, तनिक घूमकर इधर निहारो ,
 अब भी हित के वचन हमारे कहे विचारो ।
 मिलना तो अब कहाँ, जन्म यदि फिर तुम धारो ,
 तो अनुनय है यही, तात, निज शील सुधारो ।
 देते थे तुम जो न सुई के अग्र भाग भर ,
 तुमको जाना पड़ा आज सब भूमि त्याग कर ।
 अन्त समय तक हाय ! न तुमने हठ को छोड़ा ,
 हित में होता कहीं, न था यह गुण भी थोड़ा ।
 कालचक्र की चाल भला कब रुकी कहीं है ,
 देती कोई शक्ति वहाँ पर काम नहीं है ।
 पड़े रहे सब विभव यहीं जैसे के तैसे ,
 चले गये वे जीव मात्र आये थे जैसे ।
 हम वृद्धों के कहाँ आज सौ सहज सहारे ?
 हम अन्धों के कहाँ आज आँखों के तारे ?
 वह प्रताप, वह तेज और वह शौर्य कहाँ है ?
 शेष हमारे लिए काल का कौर्य यहाँ है !”

विदुरादिक ने उन्हें व्यर्थ ही-सा समझाया ,
 जीवन भर की व्याधि, कठिन दो दिन की माया !
 बोले वे—“हा ! अब अमृत्यु में मुझे कौन सुख !”
 गांधारी ने कहा—“गये हैं वे अपराङ्मुख ।
 सुनते थे हम उन्हें उन्हींसे, अब न सुनेंगे ,
 पर अपनों में वीर उन्हें चिरकाल चुनेंगे ।
 चलो नाथ, हम करें क्रिया तो उनकी पहले ,
 देखें फिर, यह भूमि भार अपना यदि सह ले ।”
 सह कर किसी प्रकार शोक की दुस्सह ज्वाला ,
 उस देवी ने स्वयं सँभल कर उन्हें सँभाला ।

जीवन से उपहसित, तिरस्कृत हाय ! मरण से ,
 कुरुक्षेत्र को चले अन्त में वे अशरण-से ।
 करतीं हाहाकार गईं कुरुकुल - दाराएँ ,
 स्खलित-गलित प्रलयान्धकार की-सी ताराएँ ।
 कलाहीन थी कभी न जिनकी चेष्टा कोई ,
 मर्यादा भी विकल भाव ने उनकी खोई ।

“मुझ नृशंस को मृत्यु दंड दो देव, दया कर ,”
 गिरे युधिष्ठिर भान भूल धृतराष्ट्र-पदों पर ।
 नृप गद्गद् हो गये “आत्मघाती मैं होऊँ ?
 हम अन्धों की यष्टि तुम्हीं, तुमको भी खोजें ?”

करुणानल की हाथ ! पूर्ण आहुति-सी होली ,
 गन्वारी के पैर पकड़ पांचाली बोली—
 “हतवत्सा मैं योग्य किंकरी आज तुम्हारी ,
 दो कुछ भी आदेश, देवि, मैं उस पर वारी ।”
 “तेरे दुख पर बहू, आज ईर्ष्या है मुझको ,
 मैं तो जटरा, बहुत भोगना होगा तुझको ।
 देवरानियाँ निरपराधिनी हैं सब तेरी ,
 उन्हें देखियो, यही याचना-घाज़ा मेरी ।”
 आर्तध्वनियाँ सभी ओर छितरा कर झाँई ,
 उठीं कहाँ से, भ्रान्त दिशाएँ जान न पाईं ।
 निज से भी पर-दुःख देखकर स्वयं सवाया ,
 युग पक्षों को एक दूसरे ने समझाया ।

कुन्ती से जब मिले युधिष्ठिर रोते रोते ,
 “यह कैसा कर्तव्य अम्ब !” बोले सुध खोते ।
 “वत्स, अन्य गति न थी, यही सन्तोष वरो तुम ,
 तजो आत्म-अवसाद, प्रजा के कोष भरो तुम ।”

कुरुक्षेत्र

करुणाजनक, ऊजड़, विकृत बल-वीर्य का यह खेत है ,
पारस्परिक संग्राम का परिणाम यह समवेत है ।
रणभूमि कौरव-पाण्डवों की ऐतिहासिक है यही ,
शोकार्त्त गांधारी जिसे श्रीकृष्ण को दिखला रही !
सौ पुत्र जिसके थे, वही धृतराष्ट्र की अर्द्धांगिनी ,
एकाकिनी है आज, सुत-सम्पत्ति उसकी है छिनी ।
अन्तस्सलिलघन-तुल्य उसके पास ही हरि हैं खड़े ,
दोनों दलों के वीर क्षत-विक्षत-निहत होकर पड़े ।
“इस दुर्दशामय दृश्य के ही देखने को लोक में ,
बो मृत्यु के उपरान्त भी डालते रहेगा शोक में ,
हे देवकीनन्दन, यहाँ क्या दिव्यदृष्टि मुझे मिली ?
हा ! क्या हुई सब आज जो थी भव्य सृष्टि मुझे मिली ?
देखो, दिवाकर-तुल्य जिनका तेज और प्रताप था ,
फैला हुआ सर्वत्र ही शशि-सदृश कीर्ति-कलाप था ,
इस रक्त-कर्दम-मय मही पर सो रहे हैं आज वे ,
हा ! अब न जाने है कहाँ सब साज और समाज वे !

उपमा सुरों में भी न जिनकी श्रेष्ठ कवियों को मिली ,
निर्दोष निर्मल कीर्तिरूपा कौमुदी जिनकी खिली ,
जो थे हमारे ही नहीं, इस विश्व के सबसे बड़े ,
कुरु-वृद्ध भीष्म वही शरों की आज शय्या पर पड़े ।
भृगुराम सम बलधाम ये गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं ,
विख्यात जिनके लोक में अद्भुत अलौकिक कार्य हैं ,
तनु त्याग कर पाला इन्होंने एक पुत्रस्नेह को ,
अब जान पड़ता है, कृपी भी तज रही हैं देह को ।
पाण्डव न सुख से सो सके चिरकाल जिसके हेतु से ,
संग्राम में जो उदित था दुर्द्धर्ष दुगुना केतु से ,
सुत के सहित वह कर्ण भी निश्चल पड़ा है हत हुआ ,
वह वीर्य बल, वर्चस्व, गौरव, गर्व सारा गत हुआ ।
हतभागिनी राधा विषम बाधा व्यथा वह सह रही ,
वृद्धा लिपट कर कर्ण-शव से विलख क्या क्या कह रही—
‘हा वत्स ! मेरे दूध का यह मूल्य मुझको दे गया ,
मेरे जाने थे जो, उन्हें भी संग अपने ले गया ।
जब तेज तेरा सह न पाई जन्मदात्री आप ही ,
भोगे न क्यों ममतामयी यह दीन धात्री ताप ही ।
राधेय, मरणाभाव में दुर्लभ सुभे विश्राम है ,
तूने अमर जो कर दिया निज संग मेरा नाम है ।’
सारे अनर्थों का शकुनि को जानती थी मूल मैं ,
पर आज उसकी भी दशा पर पा रही हूँ शूज मैं ।
घेरे उसे है काक कितने, ध्वस्त पंजर-जाल है ,
चलता न कोई छल न बल आता यहाँ जब काल है ।

निज पुत्र-पौत्र-विहीन यह मैं शोच किस किसका करूँ ?
 मिलती नहीं है माँगने से मृत्यु भी, जो मैं मरूँ ।
 देता जिन्हें कर था सतत नृप-गण विनय से नत हुआ,
 जीती हुई मैं देखती हूँ निज सुतों को हत हुआ !
 उस ठौर दुःशासन-हृदय का भीम ने शोणित पिया,
 हा ! द्रौपदी के दुःख का प्रतिशोध दानव-सा लिया ।
 क्या पाण्डवों को शाप देकर पिंड भी खोजें हरे !
 जीते रहें जो रह गये, जो मर चुके हैं सो मरे ।
 ये पुष्प-शय्या-शायिनी शर-भूमि में सुकुमारियाँ,
 निज केश खोले रो रही हैं भरत-कुल की नारियाँ ।
 सुत-पति-पिता-भ्रातादि-विषयक शोक हैं जो सृष्टि में,
 प्रत्यक्ष-से वे सब यहाँ पर झारहं हैं दृष्टि में ।
 गोविन्द, विषवा देख कर भी पुत्रवधुओं को यहाँ,
 इस देह में अटके न जानें प्राण मेरे हैं कहाँ ?
 श्रुति, शास्त्र और पुराण-वाणी यदि असत्य नहीं कभी,
 तो सत्य ही सुत शूर मेरे स्वर्ग में होंगे सभी ।
 यह सौ सुतों के मध्य मेरी एक मात्र मनोहरी,
 प्यारी सुता थी दुःशला, जीती हुई अब है मरी ।
 गृध्रादिकों से सिर-रहित पति-देह-रक्षा कर रही,
 क्षण भर व्यथा को भूल कर रक्षार्थ मन में डर रही ।
 ये कोमलांगी रानियाँ मानी सुयोधन की हरे,
 किस भौंति क्रन्दन कर रहीं पति के पदों पर सिर घरे ।
 पति-शोक-सह सुत-शोक भी ये पा रहीं अति घोर हा,
 फटता नहीं अब भी हरे, यह हृदय कुलिश-कटोर हा !

गोविन्द, समझाती रही मैं इस सुयोधन को सदा,
 'सुत, सम्पदा के लोभ से तू मत बुला यह आपदा।'
 पर निज गदा के गर्व से मेरी गिरा मानी नहीं,
 भवितव्यता की गति किसीने है कभी जानी नहीं।
 बेटा सुयोधन, ध्यान रखते जो बड़ों की बात का,
 तो देखना पड़ता न यह दुर्दिन हमें अभिघात का।
 वह दर्प और प्रभाव सारा अब तुम्हारा है कहाँ,
 भस्मावशेष कृशानु-सम तुम दीख पड़ते हो यहाँ।
 क्या तुम अकेले ही गये, सब कुछ हमारा ले गये,
 माँ-बाप की भी क्यों न तुम निज संग नौका खे गये।
 हम दीन अन्धों पर तुम्हें कुछ भी दया आई नहीं,
 भावज्ञ थे तुम, क्यों तुम्हें सझावना भाई नहीं।
 गोविन्द, तुम जो कह रहे हो, मैं न यों रोदन करूँ,
 पर हाय ! अब क्या सोच कर मैं चित्त में धीरज धरूँ ?
 वात्सल्य के वश था जिन्होंने कुछ न पुत्रों से कहा,
 है सोच सर्वाधिक मुझे निज वृद्ध पति का ही हहा !
 निश्चय युधिष्ठिर पुत्र-सम सेवा करेंगे सर्वदा,
 नाना उपायों से हमारा दुख हरेंगे सर्वदा।
 पर वासुदेव, कृशानु सम यह शोक हम कैसे सहें ?
 सोचो तुम्हीं, किस भौंति हृतसर्वस्व होकर हम रहें ?
 पूर्णोन्दु-से जिनके सिरों पर शुभ्र शोभित छत्र थे,
 सेवक अपेक्षाधिक जिन्हें करते सुखी सर्वत्र थे।
 यह गृध्र-पक्षों की उन्हीं पर आज छाया हो रही,
 आता-नहीं जो ध्यान में भी काल दिखलाता वही।

केवल इसे कुरु-वंश का ही नाश कहना भूल है ,
 केशव, हुआ इस युद्ध में यह देश नष्ट समूल है ।
 कुछ कौरवों की ओर से, कुछ पाण्डवों की ओर से ,
 हत हो गये हैं वीर सारे चात्र-धर्म कठोर से ।
 क्या देखती है आज मेरी दृष्टि यह पटभेदिनी ,
 नर-रक्त पीकर राक्षसी-सी सो रही है मेदिनी !
 मैं मानती हूँ दुरित-पूरित बन्धु-वैर-विरोध था ,
 पर हाय ! क्या अन्याय का अन्याय ही प्रतिशोध था !
 मैं जान लेती थी सुतों को स्पर्श करके गात्र से ,
 देखे विना पहचान लेती अलग आहट मात्र से ।
 मेरे तिमिर में किन्तु अब क्या शेष आहट भी बची ,
 फिर भी प्रलय से भी भयंकर हृदय में हलचल मची ।
 तुम रोकते तो रोक सकते सहज दुष्कर काण्ड को ,
 पर फूटना ही था हमारे भाग्य के इस भाण्ड को ।
 कुरुकुल सरीखा वृष्णि-कुल भी लड़ परस्पर नष्ट हो ,
 तो पूछती हूँ, कृष्ण, क्या तुमको न इससे कष्ट हो !”
 सहसा जनार्दन हँस पड़े सुनकर सती की बात को ,
 “हे देवि, जो तुमने कहा, समझो घटित उस घात को ।
 मेरे समय के साथ मेरा कार्य पूर्णप्राय है ,
 पर एक धीरज ही तुम्हारे शोक का सदुपाय है ।”
 “क्या कह गई मैं हाय ! मेरा दोष देव, क्षमा करो ,
 मुझ दुःखिनी हतबुद्धि का अपराध मत मन में धरो ।”
 सिर पीट अपना अस्थिरा प्रभु के पदों में गिर पड़ी ,
 दी सान्त्वना उसको उन्होंने, की कृपा-करुणा बड़ी ।

अन्त

समय बीतता ही है, हम सब जैसे उसे बिताएँ ,
किया गया संस्कार शवों का जलीं असंख्य चिताएँ ।
अम्बर को भी दग्ध न कर दें जगती की ज्वालाएँ ,
धूम-धुन्ध में सजललोचनी दहलीं दिव-बालाएँ !

कुरु-बधुओं की तपन आग भी भेल न सकी सवाई ,
उन सतिश्रों ने जल-समाधि में पतियों की गति पाई ।
स्थूल देह को अग्नि-दान फिर सूक्ष्म देह को पानी ,
उस अत्रसर पर धर्मराज से बोली कुन्ती रानी ।
“वत्स, कर्ण को भी अंजलि दो, निज अग्रज के नाते ।”
गिर ही पड़ते आर्त्त युधिष्ठिर यदि न सँभाले जाते ।
“हाय अम्ब ! पहले न कहा क्यों तो यह सब क्यों होता !
अब जाना, क्यों उसे देख मैं था स्वस्थिरता खोता ।
इतनी बड़ी बात भी मन में कैसे पचा सकी तुम !
ऐसे सुत की भी कुछ ममता जननि, न बचा सकी तुम !”

“जननी न थी हाय ! हननी थी उसकी मैं हत्यारी ,
कहीं तुम्हें भी बलि न बना दे प्रसू तुम्हारी प्यारी ।”

वन जाने से रुके वृद्ध नृप देख युधिष्ठिर-बाधा ,
और युधिष्ठिर ने ज्यों त्यों कर धर्म-कर्म सब साधा ।
निज राज्याभिषेक-जल उनको भिगो गया रोदन-सा ,
जैसा स्वयंयन पाठ उसीका आकुल अनुमोदन-सा ।
तन से सिंहासन पर, मन से वन में भूप विराजे ,
लगे सुखोत्तर शान्ति-सहगमन-वेला के-से बाजे ।
हरि से कहा उन्होंने—“जिससे हारा अर्जुन जीता ,
देव, सुना दो इस जन को भी एक वार निज गीता ।”
प्रभु सुसकाये, बोले—“पहले उस समाधि में आऊँ ,
तब न तात, मैं उसी गिरा में फिर निज गीत सुनाऊँ ।
स्वयं सुज्ज तुम, आज न हो, कल सँभलोगे निज बल से ,
लो चल कुछ उपदेश, भीष्म हैं जाने को भूतल से ।”

अपने ज्ञान-विधान भीष्म ने कृष्ण-कृपा से खोले ,
धर्मराज को विविध बोध-धन देकर वे फिर बोले ।
“‘सु’ कहो, वा ‘दुः’ख तो शून्य है यह है मेरा कहना ,
तुम सुख और दुःख दोनों के ऊपर उठकर रहना ।”
किन्तु पितामह के प्रयाण पर उनकी शय्या के शर ,
अनुभव करने लगे युधिष्ठिर रोम रोम में खरतर ।

उन्हें पुनःस्थापित कर प्रभु ने वारंवार प्रबोधा ,
 "तात, शोक को भी जीतो अब तुम जगती के जोधा ।
 बाहर से भी बड़े विपत्ती अपने ही भीतर है ,
 उन पर वही विजय पाते, जो आत्मनिरीक्षक नर है ।"
 "वही दृष्टि पाऊँ मैं तुमसे" यह कह उठे युधिष्ठिर ,
 भूमि-भार से नहीं, विनय से नम्र हुआ उनका सिर ।
 अस्थिर मन को आप उन्होंने जैसे तैसे रोका ,
 अपने से भी पूर्व प्रजा को अपने में अवलोका ।
 अश्वमेध-विधि-हेतु जनों पर कोई कर न लगाया ;
 स्नान करा कर वसुधा से ही विपुल रत्न धन पाया ।
 जना उत्तरा ने भी सुत, पर हुआ परिक्षित मृत-सा ,
 द्रोणतनय का शाप शौरि ने दूर किया दुष्कृत-सा ।
 हरा हो गया कुल का अंकुर, भरा हर्ष घर-बाहर ,
 गये यज्ञ-हय के रक्षक वन अर्जुन-से नर-नाहर ।

वीर-हीन कब वसुन्धरा है, अक्षय जननी जगती ,
 एक हाट के उठने पर क्या नहीं दूसरी लगती ।
 कर न दिया सीधे त्रिगर्त के नृपति सूर्यवर्मा ने ,
 प्राग्ज्योतिष के वज्रदत्त - से सहज शूरकर्मा ने ।
 ले न सका पितृ-वैर युद्ध कर सिन्धुराज का बेटा ,
 तो उस आतुर ने अपने को आप मृत्यु से भेटा ।
 लिये दुग्धमुख पौत्र दुःशाला पार्थ-निकट जब आई ,
 बोल उठे वे—"हाय बहिन !" वह बोल उठी "हा भाई !"

पर नीलध्वज-सुत प्रवीर जब चूम्हा उनसे रण में ,
 और वश्यता मानी वृष ने जीवन-धन-रक्षण में ,
 तब मृतवत्सा रानी पति की अवगति से यों ऊबी ,
 क्षोभ-शोक-अपमान ज सह कर गंगा में जा डूबी ।
 पुत्र बभ्रुवाहन मण्डिपुर में मिला पार्थ से नत हो ,
 "चिरंजीव,"—बोले वे—“ तेरा क्षात्र धर्म अक्षत हो ।
 होकर भी मैं पिता आज प्रतिपक्षी होकर आया ,
 मुझसे भी यों हार जानना क्यों तेरे मन भाया ?”
 वहाँ उलूपी नागसुता भी उन्हीं दिनों आई थी ,
 चित्रांगदा सरीखी ही स्थिति उसने भी पाई थी ।
 बोली वह “यदि ऐसा है तो वत्स, नहीं निर्बल तू ,
 नीत पिता को भी निज गुण से, ले ले यश अविचल तू ।”
 पिता-पुत्र का युद्ध विलक्षण हुआ दो ग्रहों ऐसा ,
 दोनों मूर्च्छित हुए अन्त में कर जैसे को तैसा ।
 सुत तो उठ बैठा सचेत हो, रहा अचेत पिता ही ,
 यत्न न करती कहीं उलूपी जाती चुनी चिता ही !
 अपना ही आत्मा था यह तो, अन्य कौन जय पाता ,
 जो भी जहाँ लड़ा अर्जुन से हार हुआ कर-शाता ।

हुआ यथाविधि यज्ञ, दान ने पाई परम रुचिरता ,
 दीखा सहसा एक नकुल मख-भूमि सूँघता फिरता ।
 उदसुक धर्मराज ने पूछा—“यह क्या खोज रहा है ?”
 व्यासदेव ने बड़े भाव से वह वृत्तान्त कहा है ।

“कुरुक्षेत्र में एक विप्रकुल उच्छ्व - वृत्ति - भोगी था ,
द्विज गृहस्थ होने पर भी अति तपोनिष्ठ योगी था ।
एक वार सूखा पड़ने से संकट के घन छाये ,
कई दिनों के अनाहार पर कुछ यव ही घर आये ।
पिता-पुत्र में, सास-बहू में बैठा सक्तु जैसे ही ,
एक बुभुक्षित अतिथि अचानक आ पहुँचा वैसे ही ।
साग्रह अपना अंश सभीने पहलें देना चाहा ,
हृषा सभीका अन्न अतिथि के जठरानल में स्वाहा ।
मिला परमपद उन चारों को धर्म-परीक्षा देकर ,
खोज रहा उस सक्तु-यज्ञ का गन्ध नकुल रस लेकर !”
सन्न युधिष्ठिर हुए, उन्हें ज्यों जड़ता ने आ घेरा ,
सँभल उन्होंने कहा—“तुच्छ है यज्ञदान सब मेरा ।
किन्तु राज्य में मेरे कोई मरे न वैसे भूखा ,
यदि सब ओर जलाशय हों तो पड़े कहीं क्यों सूखा ।
रहें किसान अवर्षण में भी भूमि जोतते-बोते ,
फलों उच्च उद्यान देश में अति वर्षण भी होते ।
आप दुःख अनुभवी उन्होंने सबको सुखी बनाया ,
मन से प्रजाजनों ने उनका जयजयकार मनाया ।

अन्ध तात से पूछ कार्य कर श्रेय उन्हें देते वे ,
पौत्र परिचित के समान ही सतत उन्हें सेते वे ।
हुर वृद्ध दंपति वन के ही अन्त समय अभिलाषी ,
मार्ग सींचते-से आँखों से मौन रहे मृदु भापी ।

संजय-विदुर-सहित कुन्ती भी उनके साथ चली जब ,
 दुगुनी होकर मातृ-विरह की बाधा उन्हें खली तब ।
 “माँ, क्यों युद्ध कराया, यदि यों तुमको भी जाना था ।”
 “बेटा, निज कर्तव्य उसीमें तब मैंने माना था ।
 अब मेरा कर्तव्य यही है, जिसको मैं करती हूँ ,
 जेठ-जिठानी का सेवा-व्रत नत सिर पर धरती हूँ ।
 तुम भी स्वकर्तव्य पालन कर करो लोक का लालन ,
 कातराश्रुओं से न करो यों मेरा पद-प्रक्षालन ।”
 गुरुजन के वन-गमन पूर्व ही घर आगई उदासी ,
 “गये शेष पुरखे भी अपने ।” बिलखे सब पुरवासी ।

आगे का संवाद और भी था भुजंग-सा काला ,
 भगड़ परस्पर लड़ कर चूम्हा वृष्णि-वंश मतवाला ।
 गये कृष्ण निज धाम राम-सह कर संवरण स्वलीला ,
 स्तब्ध पाण्डवों के वदनों का वर्ण पड़ गया पीला ।
 सँभले सहसा स्वयं युधिष्ठिर दृढ़निश्चयी सरीखे ,
 वैसे कभी न दीखे थे वे जैसे उस दिन दीखे ।
 एक वार वे सिहर सभीको लगे स्वयं समझाने ,
 अर्जुन मेजे गये द्वारका स्त्री - बच्चों को लाने ।
 उनको लेकर लौटे जब वे हरि के विना अकेले ,
 हत-से होकर पथ में दारुण दुःख उन्होंने भेले ।
 एकलव्य के जातिबन्धु जुड़ अकस्मात आ दूटे ,
 धन ही नहीं, उन्होंने उनसे रक्षित जन भी लूटे ।

नारायण से बिछुड़े नर के भाग्य सर्वथा फूटे ,
धन्वि धनंजय उस संकट से ज्यों त्यों करके छूटे ।

तब युयुत्सु को सोंप हस्तिनापुरी परिचित को भी ,
अनुज और कृष्णा युत होकर सबमें भरत अलोभी ।
शेष एक हरि-पौत्र वज्र को इन्द्रप्रस्थस्थित कर ,
वचन सुभद्रा से यों बोले धर्मराज कुल-हितकर ।
“दो दो पौत्रों के पालन का भद्रे, भार तुम्हें है ,
अपने दुःख देखने का अब क्या अधिकार तुम्हें है ?
नहीं उत्तरा की ही, मेरी धरती की धात्री तू ,
रह, सह हरि की बहिन, प्रसव-सा नवभव-निर्मात्री तू ।”
क्या कह सकी सुभद्रा उनसे पड़ अचेत पद छू कर ,
अर्जुन नीची दृष्टि उठाकर लगे देखने ऊपर ।
नर घर छोड़ निकल जाता है, नारी घुटती रहती ,
लज्जा भय-विषाद की मारी दुखियारी सब सहती ।
कृप को कुलाचार्यता देकर बाहर होते होते ,
सुना पाण्डवों ने, कहती थी वह यों रोते रोते ।—
“मैं सबकी धात्री, मेरा भी कोई धाता-त्राता ?
अगति अशुभ को जगती में तू न भूल ओ आता !”

स्वर्गरोहण-

भव-विभव-भरे गृह से निरपृह ,
निज धर्म-कर्म कर भले भले ,
सम्पूर्णा प्रपंचों से ऊपर
उठ पाँच पंच ये कहाँ चले ?
रख एक शान्त रस अन्तस में
विष-सा विषयों को त्याग चले ,
दुःखों से लड़कर शूर-सदृश ,
सुख के स्वप्नों से जाग चले ।
बल से भूमण्डल-जय करके
ये स्वर्ग-विजय के हेतु चले ,
तर सकें अन्य भी भव - सागर ,
रच अचल शील के सेतु चले ।
ये धर्मराज्य-संस्थापन कर ,
उद्यापन कर सब छोड़ चले ,
उद्योगों के ये आश्रय-से
सब भोगों से मुहँ मोड़ चले ।

स्वर्गारोहण

जो रत्न जड़ित-से थे तन में ,
ये तृण-सा उन्हें उखाड़ चले ,
बाहर ही बरकल धरे नहीं ,
भीतर से राजस भाड़ चले ।
पर छोड़ सकी क्या श्री इनको ,
ये - निकल न जावें घेरे से ,
वह प्रभा - मंडलस्थिता इन्हें
देती जाती है फेरे - से !
क्षयभंगुरता से रूटे - से !
ये किसे मनाते जाते हैं ?
ये मार्ग बनाते आये थे ,
अब उसे जनाते जाते - हैं !
इनके दृढ़ चरण-चिह्न अपने
माथे पर पथ है लिखा रहा ,
निज का, निज भावी पथिकों का ,
वह भाग्य खुला-सा दिखा रहा ।
नव जीवन-तुल्य मरण को भी
बढ़ यथा समय ये लेते हैं ,
विभु का वार्त्तावह जान उसे
आतिथ्य - मान सब देते हैं ।
डरते हैं, -जिनमें चोर द्विपा ,
इनको सब ओर अभय ही है ,
ज्ञानी, कृतकर्मा, भक्त सभी
ये जहाँ जाँय जय - जय ही है ।

जय भारत

निस्सार समझ शत्रुओं को भी
कर चले विसर्जित ये जल में ।
पर हाय ! मनुष्यों ने उनको
क्या जाने दिया रसातल में ?
उनके अनर्थ के चिन्तन पर
कब चतुर जनों का चित्त गया ?
हो रहा अर्थ-बलि ले लेकर
उनका विकास ही नित्य नया !

सहचरी हो रही है इनकी
यह कौन मुक्ति-सी मूर्तिमती ?
इन साधु-शिरोमणि पतियों की
सच्ची साध्वी, अनुरूप सती ।
इन युधिष्ठिरों को लुभा सकी
क्या शृङ्गराज्य की सत्ता है ?
बन चली याज्ञसेनी पीछे
उसकी प्रत्यक्ष महत्ता है ।
हो रही उच्चता प्राप्त स्वयं
इस हिमगिरि से भी भाज इन्हें ,
निज शिखर-शीर्ष ऊँचे करके
भवलोक रहा नगराज इन्हें !

स्वगरीरोहण

आध्यात्मिकता के अँगन में
अब कौन नहीं अंगी इनका ?
इंगित-भंगी से स्वीकृत - सा
है सारमेय संगी इनका !
नीचे अवनी, ऊपर अम्बर ,
अब इन्हें मध्य पथ बढ़ा रहा ,
गिरिराज उठाकर गोदी में
मानो कन्धों पर चढ़ा रहा !
लेकर समाधि, जम कर जल भी
अविचलता से संलग्न हुआ ,
दधिकॉदो का उत्सव करके
हिम - शैल उसीमें मग्न हुआ !
पट पकड़ झाड़ियाँ रोक इन्हें
संस्पर्श - सुरस चखती जाती ,
पर वसन रहे, तनु-मोह न लख
कुछ अभिज्ञान रखती जाती ।
जगती अतीव ठंडी साँसें
इनके वियोग में भरती है ,
अपनी माया इनमें न निरख
काया भी काँप सिहरती है !

रुक कहा युधिष्ठिर ने- “कृष्णो ,
 तुम श्वेत हो रही हो जैसे ,
 अथवा उदार गिरिराज तुम्हें
 निज रौप्य नहीं देता कैसे !
 अब हम सुमेरु की सीमा में
 आ गये साध्वि, जो सोने का ।”
 “तो नाथ, आगया मेरा भी
 यह समय शान्ति मय सोने का !
 मैं भाग्यवती, सब मिला मुझे ,
 मेरा कुछ कहीं नहीं छूटा ;
 अपना प्रवाल - पंचक भी मैं
 ले चली, यहाँ जो था फूटा ।
 फिर भी प्रिय पुण्यभूमि मेरी
 मेरे स्मृति - तन्तु न तोड़ेगी ,
 यह कौन कहे रोकर-गाकर
 कब कहाँ मुझे वह छोड़ेगी ।
 यह - यही - एक इच्छा मेरी—
 पंचत्व प्राप्त करके प्यारे !
 मैं एकात्मा से भजूँ तुम्हें ,
 रख तुल्य रूप न्यारे न्यारे ।
 तुम किन्तु न रुको, बढ़ो आगे ,
 जो कहे, जगत सुम्नको कहले ;
 मैं गिरती हूँ, यह गिरी प्रभो ,
 पर पहुँचूँगी तुमसे पहले !”

“तुम नहीं, गिरी अर्जुन के प्रति
 यह पक्षपातिता मेरी ही।”
 चल पड़े युधिष्ठिर यन्त्र-सदृश,
 अनुजों को लगी अँधेरी ही।
 बोले सहदेव तनिक चलकर
 हे आर्य, अबल अब गात हुआ,
 मैं गिरा, द्रौपदी-विना मुझे
 मानों यह पक्षाघात हुआ।”
 रुककर न युधिष्ठिर ने, उनसे
 चलते चलते बस यही कहा—
 “तुम नहीं, गिरा तुममें मेरा
 रूपाभिमान जो उठा रहा।”
 कुछ आगे कहा नकुल ने यों
 “गिरता हूँ अब मैं अवश निरा।”
 सुन कहा युधिष्ठिर ने “तुम में
 मेरी मति-गति का गर्व गिरा।”
 आगे चल गिरे घनंजय भी,
 “अब और नहीं उठता पद ही।”
 “तुम नहीं गिरे, ऋद्ध गिरा यहाँ
 तुममें मेरा मानी मद ही।”
 बोले गिर भीम अन्त में यों—
 “हे आर्य, यहाँ मैं भी टूटा।”
 “तुम छूटे नहीं तुम्हारे मिस
 मेरा औद्धत्य यहाँ छूटा।”

जय भारत

खुल गये सभी बन्धन मानों ,
अब आप आप वे व्यक्त हुए ,
भौतिकता के सब भाव स्वयं
आध्यात्मिकता से त्यक्त हुए ।
उस विषम दशा में पड़कर भी
क्या ही सहिष्णु थे वे विनयी ,
निकले उनके-से पुरुष वही
जो हुए अन्त में प्रकृतिजयी ।
उन्मुक्त जीव-से वे सुकृती
स्वच्छन्द, स्वस्थ अब दीख पड़े ,
उनकी गति देख सुवर्ण-शिखिर
रह गये जहाँ के तहाँ खड़े ।
जिन अनुजों को ही देख सदा
मानों सजीव थे जो जग में ,
कैसे वे ऐसे छोड़ उन्हें
बढ़ गये परम दुर्गम मग में ?
जो आप मुक्ति-पथ-गामी हैं ,
चाहें अपनों की मुक्ति न क्यों ?
हो जिन्हें मोह - ममता - माया ,
मानें वे इसे अयुक्ति न क्यों ।
लगते थे जो सशंक-से, वे
थे हड़ निश्चयी अचल ध्यानी ,
जिज्ञासु - रूप में रहकर भी
निश्चिन्त गूढ़ तत्वज्ञानी ।

था जिन्हें द्वेष, उनके प्रति भी
 उन सत्त्व को कुछ द्रोह न था ,
 था जिन्हें प्रेम, जो प्यारे थे ,
 उनपर भी उनमें मोह न था ।
 “जो होना है सो हुआ करे ,
 मेरे अधीन मेरा पथ है ,
 माने वह बाधा - विघ्न कहौं ,
 जिसका अनिरुद्ध मनोरथ है ।
 जो थे शरीर रहते मेरे ,
 अब आत्म-रूप अविभिन्न हुए ,
 माना, शरीर भी अनुपम थे ,
 पर छूट आप वे छिन्न हुए ।
 भार्या-भ्राता सब छूट गये ,
 अब देह, स्वयं तेरी वारी ,
 तू भी अब मेरा मोह न कर ,
 जाऊँ मैं तेरी बलिहारी !
 सुख-दुःखों में है साथ दिया
 तूने समान ही सत्त्वों से ,
 क्या कहूँ और मैं, मिल तू भी
 अपने उदारतम तत्त्वों से ।
 भव, तुझसे जो था मुझे मिला ,
 मैं तुझको लौटा चला सभी ,
 जब चाहे तू ही भूल मुझे ,
 मैं तुझको भूलूँगा न कभी ।

जय भारत

यदि फिर भी आना पड़ा मुझे
तो पाऊँगा क्या वृद्ध तुम्हें ?
करता जावेगा काल स्वयं
नित नूतन और समृद्ध तुम्हें ।
संसार, मुझे अब आज़ा दे ,
आवेंगे नये अतिथि तेरे ,
उनके स्वागत के अर्थ सदा
सद्भाव रहेंगे ही मेरे ।
हम नहीं कर सके जो साधन ,
वह सिद्ध करे अगली पीढ़ी ;
बढ़ता रह तू इस भौंति सदा ,
चढ़ता रह नित्य नई सीढ़ी ।
जाने वालों की जीत वहीं
आने वालों से हार जहाँ ,
अन्यथा हमारा गौरव जो ,
वह सन्तानों का भार यहाँ ।

कुछ और नहीं, अब मैं ही मैं ,
इस 'मैं' को भी किसको सौंपूँ ?
पर बोझ न हो उसको मेरा ,
अपने को मैं जिसको सौंपूँ ?

स्वर्गारोहण

कहता है अहा ! अहं, तू क्या ,
‘कुछ ऐसा खेल न खेलूँ क्यों ,
जो मुझे ले सके अपने में ,
उसको मैं आप न ले लूँ क्यों ?’
हे नारायण, क्या और कहूँ ,
तू निज नर मात्र मुझे रखना ;
क्या नहीं एक से दो अच्छे ,
लीला-रस रहे जहाँ चखना ?
बुझ जाने में वह ज्योति कहों ?
क्या तुझे देखने से भागूँ ?
मैं चिरस्नेह से उजल उड़ूँ ,
जलकर भी जहाँ तहाँ जागूँ !
पर अब भी मैं निश्चिन्त नहीं ,
जब छूट गये घोड़े-हाथी ,
यह पूँछ हिला कर उछल उछल
घरता है मुझे शुनक साथी ।
जगती में जात जहाँ जो हों ,
रस लेकर फूलें और फलें ;
पर अपनी यात्रा शेष अभी ,
आ संगी, आगे चले चलें ।”

जय भारत

सहसा 'जय भारत !' शब्द हुआ ,
नभ से फूलों की वृष्टि हुई ,
स्वर्गीय गन्ध गमका, श्रुतु में
सुस्पृश्य भाव की सृष्टि हुई ।
देखें जब तक उन्मुख होकर
कुछ चौंक कृती कुन्तीनन्दन ,
तब तक समीप आ रुका त्वरित
सुस्वरित शचीपति का स्यन्दन ।
मातलि ने कहा—“चलें श्रीमन् ,
सुर करें आपका अभिनन्दन ।”
“मैं अनुग्रहीत” नत हुए नृपति ,
“यदि करूँ यथा उनका वन्दन ।
चल भाई !” मातलि चौंक पड़ा—
“कुत्ता भी साथ चलेगा क्या ?
इस रथ का यह अपमान स्वयं
/ नृप को भी नहीं खलेगा क्या ?”
“खलता अवश्य, होता यदि मैं
रूपानुरूप लोकाचारी ,
भौतिक सीमाएँ भद्र, स्वयं
अब छूट गईं मेरी सारी ।
तुम जाओ, मेरा भाग्य नहीं ,
जो मैं सुदेव-दर्शन पाऊँ ,
शरणागत, अनुजाधिक सहचर
यह श्वान छोड़ क्योंकर जाऊँ ?”

स्वर्गारोहण

“जय जय भारत !” मैं धर्म वही ,
तुम पुनरुत्थीर्यं हुए, जाओ।”
वह कुत्ता अन्तर्द्वान हृष्टा
कह—“तात योग्य निज पद पाओ।”
“मैं अनुग्रहीत।” कह धर्मात्मज
सानन्द स्यन्दानासीन हुए ,
भारत अब भारत मात्र न थे ,
ऊँचे उठ सार्वजनीन हुए।

“जय पृथिवीपुत्र, जयति भारत ,
जय जय अजातशत्रो, स्वागत।”
सादर देवों से लिये गये
स्वर्गप्रतिष्ठ वे निष्ठा-नत !
नाचीं सुरांगनाएँ गाकर—
“क्या ऊर्ध्वगामिनी घारा है !
हे वसुन्धरा के धन, आओ ,
सुरपुर भी कीत तुम्हारा है।”
“कुछ कहो मद्र,” सुन सुरपति से
वे बोले—“सब कुछ बना यहाँ ,
जो रहा जन्म भर रूठा ही ,
यह दुर्योधन भी मना यहाँ।

पर तात, अमरपुर में भी हा !

क्या रहे मर्त्य तनु की तृष्णा ?
आज्ञा हो तो मैं मिलूँ स्वयं
जाकर है जहाँ अनुज-कृष्णा ।”

लज्जित-से हुए त्वरा पर वे,
हँस वासव ने आदेश दिया,

द्रुत देवदूत ले चला उन्हें
कह—“मैंने तो यह क्लेश किया !”

वे “नहीं नहीं” कहते कहते

रुक गये अचानक हतमति-से,
विस्मित भी हुए व्यथित भी वे

अपनी अचिन्त्य-सी उस गति से।

“वह अमृताणुव, यह गरलोद्भव !

हे दैव, यहाँ भी यह झलना !
धिर जीवन ही अभिशाप वहाँ

मरने के विना जहाँ जलना !

हे दूत, देख कर आया हूँ

जिस अमरपुरी का गौरव मैं,
यह देख रहा हूँ सचमुच क्या

उसके समीप ही रौरव मैं !

प्रत्येक स्वर्ग के साथ नरक

क्या आवश्यक अनिवार्य अहे !

ये उभय परस्पर पूरक है

अथवा दूरक, यह कौन कहे ?

उस कुरुक्षेत्र का नर - कुंजर
 वह अश्वत्थामा तरा तभी ,
 पर मेरे मृषा-कथन का क्या
 यह मथन-दण्ड था शेष अभी ?
 अच्छा है, वह भय-कम्प मिटे
 इस अन्धतमस की उमस में ,
 मेरी अपनी ही दृष्टि नहीं
 रह गई किन्तु मेरे बस में ।
 अब मुझे दीखते हैं, उड़ते
 व्यालों से बिखरे बाल कटे ,
 ये सड़े-गले चलते फिरते
 कंकाल कराल, कपाल फटे !
 लगता है, एक दण्ड में ही
 यह एक कल्प मैंने भोगा ,
 रह सायँ सायँ ! कह, अन्त कहाँ
 इस भायँ भायँ का कब होगा ?
 हे पथप्रदर्शक, धन्य तुम्हीं ,
 पर अमर नहीं मेरा चोला !”
 “बाहें तो लौट चलें श्रीमन् !”
 हँसता - सा देवदूत बोला ।
 सुन पड़े करुण चीत्कार तभी—
 “हा धर्मराज ! आओ, आओ ,
 भूले भटके आगये यहाँ ,
 तो दया करो, टुक रुक जाओ ।

जो लगा तुम्हारा वायु हमें
 इससे हमको विश्रान्ति मिली ,
 हम दले - जले - से जाते थे ,
 तुमसे हम सबको शान्ति मिली ।
 हे अनुज रुको, हे नाथ रुको ,
 हे अग्रज रुको, दया करके ,
 हम अधिक न रोकेंगे तुमको ,
 पर जिये आज मानो मरके ।”
 रुक खड़े होगये वे सहृदय—
 “लो ठहरा मैं, तुम शान्त रहो ,
 तुम नहीं दीखते, भाग्य यही ,
 पर कौन स्वजन हो, कहो अहो ।”
 “हम कर्पा, द्रौपदी, भीमार्जुन ,
 हम नकुल और सहदेव सभी ,
 हे तात, हमें क्या आशा थी ,
 हम देख सकेंगे तुम्हें कभी ।”
 सुन सब हुए वे दया-द्रवित ,
 जी भर आया, भर उठा गला ,
 “तब सुकृती रहा सुयोधन ही ।”
 ध्यानन से यही वचन निकला ।
 “वे देखें सुनै, सुकृति हैं जो
 वह चृत्य-गान निज मनमाना ,
 कर सकूँ दैव, कुछ मृदु ही मैं
 यह तीव्र तड़पना - चिह्नाना ।

मेरा मन मुझसे पूछ रहा—
 'यह नरक पार कर जाओगे ,
 पर कहो, कौन-कितने हैं वे ,
 तुम जिन्हें तार तर जाओगे ?'
 हो जाय न दरद, मुझे भय है ,
 दिव इसी दाह से दरक कहीं !
 यदि यह सड़ाँध फैली आगे
 तो न हो स्वर्ग भी नरक कहीं !
 हे दूत !" सँभल कर बोले वे—
 "जाओ तुम, यहीं रहूँगा मैं ;
 इन आत्मीयों के साथ सदा
 स्वर्गाधिक नरक सहूँगा मैं ।
 जाकर सुरेन्द्र को तुम मेरे
 सादर सौ धन्यवाद देना ,
 कहना, मैं हूँ सन्तुष्ट यहीं ,
 मुझको वह स्वर्ग नहीं लेना !"

"ये तुम त्रिवार उत्तीर्ण हुए ,
 जय जय जय भारत !" नाद हुआ ।
 दुःस्वप्न-सहस्र दुर्दृश्य मिटा ,
 अति अकथनीय आह्लाद हुआ ।

पार्थिव शरीर में फूट पड़ी
उदीस दिव्य उनकी काया ,
खुल गई गाँठ मानो गल कर ,
मल मल कर निष्क निकल आया !
हँस मिल स्वजनों ने कहा—“स्वतः
हमको अमरों का भोक मिला ,
पर तात, तुम्हारे आने से
आहा ! अब यह गोलोक मिला !”
सस्मित नारायण प्रकट हुए—
“आओ, हे मेरे नर आओ !
जो कुछ है जहाँ, तुम्हारा है ,
सुम्हको पाकर सब कुछ पाओ !”

श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त लिखित काव्य—

साकेत	४)
गुरुकुल	३)
यशोधरा	१॥)
द्रापर	२)
सिद्धराज	१।)
हिन्दू	२)
भारत-भारती	१॥)
जयद्रथ-वध	॥।)
हंकार	१॥)
पत्रावली	।=)
वक-संहार	॥)
वन-वैभव	॥)
सैरन्त्री	॥)
पञ्चवटी	।=)
अजित	१॥)
हिडिम्बा	॥।)
अल्ललि और अर्घ्य	॥।)
प्रदक्षिणा पाठ्य संस्करण	॥=)
प्रदक्षिणा विशिष्ट संस्करण	१)
चन्द्रहास	१॥)

अनघ	१।)
किसान	॥)
शकुन्तला	॥)
नहुष	॥=)
विश्व-वेदना	॥)
काबा और कर्बला	१।)
कुणाल-गीत	१॥)
अर्जुन और विसर्जन	।=)
वैतालिक	।=)
गुरु तेगबहादुर	।=)
शक्ति	।=)
रङ्ग में भङ्ग	।=)
विकट-भट	≡)
पृथिवीपुत्र	॥।)

अनुवादित ग्रन्थ—

विरहिणी-व्रजाङ्गना	।=)
वीराङ्गना	२)
स्वप्न वासवदत्ता	१)
मेघनाद-वध	६)

प्रबन्धक—

साहित्य-सदन,
चिरगाँव (मॉसी)

श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ—

आर्द्रा	(कविता)	१)
विषाद	”	1=)
मौर्य-विजय	”	1=)
अनाथ	”	1=)
मृगमयी	”	२॥)
नोआखाली में	”	॥)
पाथेय	”	२)
दूर्वा-दल	”	१)
आत्मोत्सर्ग	”	॥=)
दैनिकी	”	॥=)
बापू	”	॥)
नकुल	”	१॥)
जयहिन्द	”	1)
गोद	(उपन्यास)	१।)
अन्तिम-आकांक्षा	”	२)
नारी	”	२॥)
मानुषी	(कहानी संग्रह)	१)
पुण्य-पर्व	(नाटक)	१॥)
उन्मुक्त	(गीतनाट्य)	१॥)
झूठ-सच	(निबन्ध)	२)
गीता-संवाद	(गीता का समश्लोकी अनुवाद)	१)
हमारी प्रार्थना		—)

स्व० पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी द्वारा रचित—

सुमन	१)
पुरातत्त्व-प्रसंग	१)
प्रबन्ध-पुष्पाञ्जलि	१)

स्व० मुंशी अजमेरी द्वारा रचित—

हेमला सत्ता	॥)
मधुकरशाह	॥=)
गोकुलदास	॥=)
चित्रांगदा (अनुवादित)	॥=)

श्रीदामोदरदासजी खंडेलवाल द्वारा रचित—

बापू की बात	१)
-------------	----

श्री श्रीप्रकाशजी द्वारा रचित—

गृहस्थ-गीता	१।)
नागरिक शास्त्र	२)
भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार	१।)

अन्यान्य प्रकाशन—

अंकुर	१)
स्वास्थ्य-संलाप	१)
शेल्कश	१)
सुनाल	१)
गीता-रहस्य	२।।)

प्रबन्धक—

साहित्य-सदन,
चिरगाँव (भाँसी)

